

# अथ शीघ्रबोधविषयानुक्रमणिका ।



विषयः	पृष्ठं.	विषयः.	पृष्ठ.
प्रकरणम् १		मासांतादिफलं ...	७
मंगलाचरणम् ....	१	कुलिकयोगस्तथाचक्रं ....	८
विकाहार्हानक्षत्राणि ....	१	वर्गप्रीतिः ....	८
विवाहमासाः ...	२	वर्गशुभाशुभफलं ....	९
विवाहकाले वर्जितं ....	२	गणनक्षत्राणि ...	९
तिथिनामानि ....	३	गणप्रीतिविचारः ....	१०
यामार्थयोगः ....	३	राशिमेहनं ....	११
वारवेला तथा चक्रम् ....	४	वर्णराशिः ....	११
विवाहे वर्जितयोगाः ....	४	वर्णावर्णविचारः ....	१२
भद्राज्ञान तथा चक्रं ....	४	नक्षत्रभागत्रयविचारः ....	१२
भद्रानिबन्धः ....	५	राशिवदयप्रीतिः ....	१३
भद्रामुखशुभाशुभफलं ....	६	नक्षत्रयोनिश्चक्रञ्च ....	१४
भद्राशुभाशुभज्ञान ....	६	योनिवैर ....	१५
दम्भातिथि. ...	७	राशिमेहन ....	१५
मासांतादिफलं ....	७	त्रिबलविचारः ....	१६
		रविचलविचारः ....	१७

अनुक्रमणिका प्रकरणम् १.

विषयाः	पृष्ठ.	विषयाः	
गुरुबलविचारः	१७	विद्युदादियोगवि०	३
कन्यायाविवाहेवर्षसंख्या	१८	विद्युदादियोगफलं	३
कन्यायाखिबलविचारः	१८	एकार्गलाविचारः	३
चन्द्रबलविचारः	१८	क्रांतिसाम्यदोषविचा०	३
चन्द्रबलचक्रम्	१९	मर्मवेधादिदोषवि०	३
त्रिबलशुभाशुभ०	१९	जन्ममासे तथाज्ये०	४
रजस्वलादोषः	२०	विशोषकाफलम्	४
रजस्वलाकन्यायालग्नम्	२१	फलदा ग्रहाः	४
कन्यारजोदर्शने महादोषः	२१	शुभाशुभग्रहाः	४
नार्ढाविचारस्तथाषकं	२२	शुभमध्यमलग्नानि	४३
पंचशलाकाविचारः	२४	लक्षादिदोषापवादः	४३
पंचशलाकाषक	२४	उक्तनवमांशललग्नचक्रम्	४५
दशदोषनामानि	२५	होलाष्टकं	४६
लक्षादोषविचारः	२६	अंधबाधिरकुण्डलग्नानि	४७
पातदोषविचारः	२७	गोधूलिकलग्नविचारः	४७
युतिदोषविचारः	२८	गोधूलिकदूषितं	४७
वैधविचारः	२९	गोधूलिकप्रमाणं	४८
जामित्रदोषविचारः	३१	गोधूलिनाशकदो०	४८
मृत्युपत्रकविचारः	३२		

विषयाः	पृष्ठं.	विषयाः	पृष्ठ.
अमृपाष्टेकरग्रहाः	.... ४९	नवान्नप्राशनयंत्रं	.... ६२
दैनमानज्ञानं	.... ४९	चूडाकर्ममुहूर्तयंत्रं	.... ६४
रात्रिमानज्ञानं	.... ५०	व्रतबंधमुहूर्तः	.... ६५
केन्द्रस्थगुरोर्माहात्म्यम्	.... ५१	व्रतबंधमुहूर्तयंत्रं	.... ६५
अमृस्थबुधगुरुशुक्राणांफलम्	५१	विधारंभः	.... ६५
सर्पाकारचक्रम्	.... ५२	यज्ञोपवीतमुहूर्तः	.... ६५
अग्नेनवदोषावज्याः	.... ५२	कर्णवेधमुहूर्तः	.... ६६
सिद्धाकारचक्रं	.... ५४	कर्णवेधमुहूर्तयंत्रं	.... ६६
द्वितीयप्रकरणम् २.		वास्तुकर्ममुहूर्तयंत्रं	.... ६७
द्वेरागमनं तथाच०	.... ५६	वापी रूपतडागमुहूर्तः	.... ६८
सुंस्वनादि	.... ५७	देवालययंत्रं	.... ६९
सर्माधानं	.... ५७	गृहप्रवेशयंत्रं	.... ६९
सामकरणं	.... ५८	हलचक्रं	.... ७०
समूतिस्नानं	.... ५९	दिक्शूलः	.... ७१
आलनिष्कासनं	.... ५९	योगिनीनिर्णयः	.... ७२
त्रीनत्रांबरधारणयंत्रं	.... ६०	योगिनीचक्रं	.... ७२
रूपनयांबरधारणयंत्रम्	.... ६०	यात्रातिसयः	.... ७३
[नः प्रसूतिस्नानं जलवाष्पच- नादियंत्रं च.	.... ६१	राहुचक्रं	.... ७४

विषयाः	पृष्ठ.	विषयाः	पृष्ठ.
चंद्रमावासचक्र	.... ७५	नक्षत्रप्रचारः ....	.... ८७
चंद्रविचारः ....	.... ७६	नक्षत्रप्रचारयंत्रम् ....	.... ८७
रविविचारः ....	.... ७६	वत्सयंत्रं ....	.... ८८
कुलिकयोगविचारः	.... ७७	नक्षत्रतारासंख्यायंत्रं ....	.... ८९
कालंहोराप्रकारः	.... ७७	रोगिणःदोषज्ञानम् ....	.... ९०
सर्वाङ्गमुहूर्तचक्रं	... ७८	लग्नादोषज्ञानम् ....	.... ९०
शुक्रविचारः ...	.... ७९	नक्षत्रतिथिवारयोगशुभाशु-	
भयविक्रयविचारमुहूर्तः	७९	मयंत्रं ....	.... ९४
धनिष्ठापंचकं ....	.... ८०	नक्षत्राणां चरादिसंज्ञा	.... १००
तैलाम्यंगः ....	.... ८०	नराकारशनिचक्रं ....	.... १००
वधूप्रवेशः ....	.... ८०	शानिराशिफलम् ....	.... १०२
रोगिस्नानं ....	.... ८०	मासपंचरविवारफलं	.... १०२
आनन्ददियोगचक्रं	.... ८२	पंचचंद्रवारफलं	.... १०२
अमृतसिद्धियोगचक्रम्	८४	पंचभौमवारफलं	.... १०३
यमघंटयोगयंत्रं	.... ८४	पंचबुधवारफलं	.... १०३
मृत्युयोगः चक्रं च	... ८५	पंचगुरुवारफलं	.... १०३
क्रकचयोगचक्रं	.... ८५	पंचभृगुवारफलम्	... १०३
अंधदिनक्षत्राणां चक्रम्	८६	पंचशनिवारफलम्	.... १०३

विषयाः	पृष्ठं.	विषयाः	पृष्ठं.
अभिजिन्मुहूर्तयत्र	.... १०४	तिर्यङ्मुखादिनक्षत्रयंत्रं च	१२२
शुक्रोदयफलम्	.... १०४	मैषज्यमुहूर्तयत्रं	.... १२३
होलिकाधूमफलम्	.... १०५	पशुनिर्गमयत्र	.... १२४
वर्षशिकुनं	.... १०६	पशुक्रयात्रिकयः	.... १२५
आषाढपूर्णिमाफलम्	.... १०७	तिथिगडांतयंत्रम्	.... १२५
ज्येष्ठशुक्रप्रतिपत्फलं	.... १०८	नक्षत्रगडांतयंत्रं	.... १२६
पौषसंक्रांतिकलं	.... १०९	लग्नगडांतयंत्रम्	.... १२६
मीनसंक्रांतिकलम्	.... १०९	संवतख्ययोगः	.... १२६
संक्रांतिकलचक्रम्	.... ११०	सिद्धियोगयंत्रं	.... १२७
रोहिणीपतननिर्णयः	.... १११	सप्तविंशतियोगाः	.... १२७
रोहिणीचक्रं	.... ११२	कृष्णपक्षशुक्लपक्षकरणानि	१३०
नराकारचक्रं	.... ११४	नक्षत्रदेवतास्तयंत्रं च	१३२
ग्रामवासफलचक्रं च	.... ११५	अथ तृतीयप्रकरणम् ३।	
मूलवृक्षफलचक्रं च	११७	अंगस्पर्शनादिप्रश्नः	.... १३३
तारात्रलयंत्रं च	.... १२०	लग्नप्रमाणं	.... १३५
पूर्णक्षीणचंद्रमानि •	.... १२०	ग्रहाणां दानं	.... १३६
शौरकर्ममुहूर्तचक्रं च	.... १२१	द्वादशराशिगतगुरुफलं	१३७
राज्याभिषेकः	.... १२१	संक्रांतियष्टिपरी •	.... १३९

विषयाः	पृष्ठ.	विषयाः	पृष्ठ.
नक्षत्रवृष्टिफलम् ....	१४०	राशिस्वामिनः ....	१६३
वायुफलं ....	१४१	शुक्रोदयविचारः ...	१६५
शुक्रपंचमीवृष्टिफलम् ....	१४२	स्त्रीपुनपुंसकनक्षत्राणि-	
ग्रहाणां परस्परक्षेत्राणि	१४५	तत्फलं च ...	१६६
ग्रहणामुदयफलं ...	१४८	ग्रहविचारः ....	१६७
मूलादिनक्षत्रगतगुरुनि०	१४९	द्वारमुहूर्तः ....	१६७
अथ चतुर्थप्रकरणम्. ४		ग्रहणफलं ....	१६८
होताचक्रं ....	१५५	देवोत्पातफलम् ...	१७१
लघ्वंकराशयः ....	१५६	केतूदयफलं....	१७३
द्वादशभावाः ....	१५६	दंपित्सवफलं	१७५
मपादनक्षत्रराशिक्रमः....	१५७	राशीनां संज्ञाः ....	१७५
ग्रहाणां दृष्टिः ....	१५८	चलिष्ठा राशयः ....	१७५
दिनप्रमाणसात्रिप्र० ....	१५८	वक्रातिचारफलं ...	१७६
ग्रहमुखे आहुतिफ० ...	१६०	मंत्रस्वकारः ....	१७७
अग्निनिवासज्ञानं ...	१६०	ग्रहाणां राशिभोग्यकालः	१७८
सवत्सरनामानि ...	१६१	चूडविचक्रम् ....	१७८

॥ श्रीः ॥

# अथ शीघ्रबोधप्रारम्भः ।



प्रकरणम् १

भासयंतं जगद्भासानत्वा भास्वंतमव्ययम् ॥

क्रियते काशिनाथेन शीघ्रबोधाय संग्रहः ॥ १ ॥

टीका—मुझ काशिनाथ नामक आचार्य करके जिनकी आभासे यह जगत् रूप संसार प्रकाशित है व जो अविनाशी हैं ऐसे सूर्यकी मणाम करके जल्दी बोध होनेके लिये शीघ्र-बोध ग्रंथको संग्रह किया जाता है ॥ १ ॥

रोहिण्युत्तरे रेवत्योर्मूलं स्वाति मृगशिरः ॥

अनुराधा च हस्तश्च विवाहे मंगलप्रदाः ॥ २ ॥

टीका—रोहिणी, तर्नीं उत्तरा, रेवती, मूल, स्वाती, मृगशिर, मघा, अनुराधा और हस्त ये ग्यारह नक्षत्र विवाहमें मंगलके दाता हैं ॥ २ ॥ इति विवाहनक्षत्राणि ॥

माघेधनवतीकन्याफाल्गुनेसुभगाभवेत् ॥

वैशाखेचतथाज्येष्ठेपत्युरत्यंतवल्लभा ॥ ३ ॥

टीका—माघमासमें विवाह करै तौ कन्या धनवती हो, फाल्गुनमें सौभाग्यवती हो, वैशाखमें तथा ज्येष्ठमें विवाह हो तो अपने पतिको अत्यंत प्यारी हो ॥ ३ ॥

आषाढेकुलवृद्धिःस्यादन्येमासाश्चवर्जिताः ॥

मार्गशीर्षमपीच्छंतिविवाहेकेपिकोविदाः ॥४॥

टीका—जो आषाढमासमें विवाह करे तो कुलकी वृद्धि हो और महीने विवाहमें वर्जित हैं; परंतु मार्गशीर्षकोभी कोई आचार्य विवाहमें शुभ कहते हैं ॥ ४ ॥

इति विवाहमासाः ।

अमावास्याचरिक्ताववारवेलाचजन्मभम् ॥

गंडातंक्रूरवाराश्चवर्जनीर्याः प्रयत्नतः ॥ ५ ॥

टीका—अमावास्या, रिक्तातिथि अर्थात् ४।१।१४, वार-



वेला जन्मका नक्षत्र, क्रूरवार ( रवि, मंगल, शनि ) और गदांत मूल ये विवाहमें यत्नपूर्वक वर्ज्ये ह ॥ ५ ॥

नंदाभद्राजयारिक्तापूर्णाश्चतिथयःक्रमात् ॥

वारत्रयंसमावर्त्यतिथयःप्रतिपन्मुखाः ॥ ६ ॥

टीका—नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता व पूर्णा ये पांच नाम तिथिनके कहे हैं. तिनमें नदा १।६।११, भद्रा २।७।१२, जया ३।८।१३, रिक्ता ४।९।१४, पूर्णा ५।१०।१५॥ प्रति पदासे गनिये ॥ ६ ॥ इति तिथिनामानि ॥

तुर्योक्तसप्तमश्चद्वितीयोभूमिनंदने ॥

चंद्रपुत्रेपंचमश्चदेवाचार्येतथाऽष्टमः ॥ ७ ॥

टीका—अब वारवेला कहते हैं रविवारको चार ४ याममें अर्धयाम, चंद्रको ७, भौमको २, बुधको ५, गुरुवारको ८, यामार्ध दोष है ॥ ७ ॥

दैत्यपूज्येत्तृतीयश्चशनौपष्ठश्चनिंदितः ॥

प्रहरार्धेशुभेकार्येवारवेलाचकथ्यते ॥ ८ ॥

टीका—और शुक्रवारको ३, शनिवारको ६, इसप्रकारसे इन यामोंके अर्धयामोंमें वारवेला जानिये; ये शुभकार्यमें निंदित हैं इकीस कीठके चक्रमें समझ लेना ॥ ८ ॥ इति वारवेला ॥

वारवेलाचक्रम							
४	७	२	५	८	३	६	याम
१॥	१॥	१॥	१॥	१॥	१॥	१॥	घटी
र	च	म	बु	शु	शु	श	वार

भद्राकर्कटयोगंचतिथ्यंतंयमघंटकम् ॥

दग्धातिथिंचभातंचकुलिकंचविवर्जयेत् ॥ ९ ॥

टीका—भद्रा, कर्कटयोग, तिथिके अंतकी घटी २, यमघंटयोग, दग्धातिथि, नक्षत्रके अंतकी घटी ३ ॥ व कुलिकयोग इतने दोष विवाहमें वर्जित है ॥ ९ ॥

दशम्यांचतृतीयायांकृष्णपक्षपरे दले ॥

सप्तम्यांचचतुर्दश्यांविष्टिःपूर्वदलेस्मृता ॥ १० ॥

एकादश्यांचतुर्थ्यांचशुक्लपक्षपरेदले ॥

अष्टम्यांपूर्णिमायांचविष्टिःपूर्वदलेस्मृता ॥ ११ ॥

टीका—अत्र कृष्णपक्ष  
शुक्लपक्षकी कौनसी तिथियोंमें  
पूर्वदल अथवा परदलविषे  
भद्रा होती है सो चक्रविषे  
समझ लेना ॥ १० ॥ ११ ॥

अथपूर्वदलभद्रातिथियक्ष.		
कृष्णपक्ष.	३	१० परार्ध.
कृष्णपक्ष.	७	१४ पूर्वार्ध.
शुक्लपक्ष.	४	११ परार्ध.
शुक्लपक्ष.	८	१५ पूर्वार्ध.

मेघमकरवृषकर्कटस्वर्गे,  
कन्यामिश्रुनतुलाधनुनागे ॥  
कुंभमीनअलिकेसरिमृत्यौ,  
विचरतिभद्रात्रिभुवनमध्ये ॥ १२ ॥

टीका—यह भद्रा स्वर्गलोक, मृत्युलोक व पाताललोक इन तीनों लोकोंविषे वास करती है. मेघ, मकर, वृष व कर्क इनके चंद्रमामें भद्रा स्वर्गलोकमें जानिये. कन्या, मिथुन, तुला व धनुके चंद्रमामें पाताललोकमें और कुंभ, मीन, वृश्चिक तथा सिंहके चंद्रमामें भद्राका वास मृत्युलोकमें जानिये ॥ १२ ॥

स्वर्गेभद्राशुभंकार्यपाताले च धनागमम् ॥  
मृत्युलोकेयदाविष्टिःसर्वकार्यविनाशिनी ॥१३॥

टीका—जो स्वर्गलोकमें भद्रा हो तो शुभकार्यको करे. पातालमें हो तो द्रव्यलाभ हो और जो मृत्युलोकमें हो तो सर्वकाय विनाश करे ॥ १३ ॥

संमुखेमृत्युलोकस्थापांतालेचह्यधोमुखी ॥  
उर्ध्वस्थास्वर्गगाभद्रासंमुखेमरणप्रदा ॥ १४ ॥

टीका—जो मृत्युलोकमें भद्रा हो तो सन्मुख कहिये. पातालमें अधोमुख और स्वर्गमें ऊर्ध्वमुख. इनमें जो सन्मुख भद्रा हो तो मृत्युकी दाता है ॥ १४ ॥

दिवाभद्रायदारान्त्रौरात्रिभद्रायदादिने ॥  
तदाविष्टिकृतोदोषोनभवेत्सर्वसौख्यदा ॥१५॥

टीका—जो कृष्णपक्षमें सप्तमी चौदशीकी और शुक्लपक्षमें अष्टमी पौर्णिमाकी पूर्वदल भद्रा दिनसंज्ञक है सो रात्रियें परे और शुक्लपक्षमें ४।११ कृष्णपक्षमें ३।१० की परदल भद्रा रात्रिसंज्ञक है सो दिनमें परे तो भद्राका दोष नहीं है यह भद्रा सुखकी दाता है ॥ १५ ॥ इतिभद्रानिर्णयः ॥

मीनेचापेद्वितीयाचचतुर्थीवृषकुंभयोः ॥

मेषकर्कटयोः षष्ठीकन्यायुग्मेपुचाष्टमी ॥ १६ ॥

दशमीवृश्चिकेसिंहेद्वादशीमकरतुले ॥

एतास्तुतिथयोदग्धाः शुभेकर्मणिवर्जिताः १७

टीका—मीन व धनके सूर्यमें द्वितीया २ वृषभ व कुंभके सूर्यमें चौथ ४, मेष व कर्कके सूर्यमें ६, कन्या व मिथुनके सूर्यमें ८, वृश्चिक व सिंहके सूर्यमें १०, और मकर व तुलाके सूर्यमें १२, इन संक्रातियोंमें इतनी तिथियां दग्धा जानिये. ये शुभकार्य विषे वर्जित करी हैं ॥ १६ ॥ १७ ॥ इति दग्धास्तिथयः ॥

मासांतेदिनमेकंतुतिथ्यंते घटिकाद्वयम् ॥

घटिकानांत्रयंभांतेविवाहेपरिवर्जयेत् ॥ १८ ॥

टीका—मासांत यानी संक्रातिके अंतका एक दिन, तिथिके अंतकी दो घड़ी, नक्षत्रके अंतकी तीन घड़ी ये विवाहमें वर्जित हैं ॥ १८ ॥

मासांतेम्रियतेकन्यातिथ्यंतेस्यादपुत्रिणी ॥

नक्षत्रांतेचवेधव्यंविष्टौमृत्युर्दयोर्भवेत् ॥ १९ ॥

टीका—मासके अंतमें भामरी परै तौ कन्याकी मृत्यु हो. तिथ्यंतमें अशुत्रिणी हो. नक्षत्रके अंतमें विधवा हो. भद्रामें कन्या वर दोनोंकी मृत्यु हो ॥ १९ ॥

सूर्ये च सप्तमीसोमेषष्ठाभौमेचपंचमी ॥

बुधे चतुर्थीदेवेज्ये तृतीयाभृगुनंदने ॥ २० ॥

द्वितीयावर्जनीयाचप्रतिपच्चशनैश्चरे ॥

कुलिकाख्योहियोगोयंविवाहादौनशस्यते २१

टीका—अब कुलिक योग कहते हैं सो चक्रमें समझ लीजिये. चक्रमें लिखे हुए इन वारोंका इन तिथियोंमें कुलिकयोग होता है ॥२०॥२१॥

अथ कुलिकयोगतिथिचक्रं.

र.	च	मं.	बु	गु	शु.	श.	वार.
७	६	५	४	३	२	१	तिथि.

॥ इति कुलिकयोगः ॥

अवर्गो गुरुडो ज्ञेयो विडालः स्यात्कवर्गकः ॥

चवर्गः सिंहनामा स्याद्द्वर्गः कुकरः स्मृतः ॥२२॥

१ भामरी फेरोंको कहते हैं. -

सर्पाख्यःस्यात्तवर्गोपिपवर्गोमूषकःस्मृतः ॥

यवर्गोमृगनामास्यात्तथामेषःशवर्गकः ॥ २३ ॥

टीका—अवर्गादि अष्टौव्यापार जो विवाहादि विचारनेको कहते हैं. जिसके नामका जो अक्षर पहिला हो वही वर्ग कहिये. तिनमें अ, आ, ई, ए, आदि अवर्ग हैं, सो गरुडवर्ग. क, ख, ग, घ, ङ, ये विलाववर्ग. च, छ, ज, झ, ञ, ये सिंहवर्ग. ट, ठ, ड, ढ, ण, ये श्वानवर्ग. त, थ, द, ध, न, ये सर्पवर्ग. प, फ, ब, भ, म, ये मूषकवर्ग. य, र, ल, व, ये मृगवर्ग. श, ष, स, ह, ये मॅढावर्ग कहते हैं ॥ २२ ॥ २३ ॥

स्ववर्गात्पंचमेशत्रुश्चतुर्थेभिन्नसंज्ञकः ।

उदासीनस्तृतीयेचवर्गभेदस्त्रिधोच्यते ॥ २४ ॥

टीका—अपने वर्गसे पांचमें वर्ग वैरी जानिये. चौथेमें भिन्न जानना और तीसरे वर्गमें उदासीनता है ॥ २४ ॥ इति अष्टकवर्गः ॥

अश्विनीमृगरेवत्यौहस्तःपुष्यःपुनर्वसुः ॥

अनुराधाश्रुतिःस्वातीकथ्यंतेदेवतागणाः ॥२५॥

टीका—अश्विनी, मृग, रेवती, हस्त, पुष्य, पुनर्वसु, अनु-  
राधा, श्रवण, स्वाती, ये देवतागण कहलाते हैं ॥ २५ ॥

तिस्रःपूर्वाश्चोत्तराश्च तिस्रोऽधार्द्रा च रोहिणी  
भरणी च मनुष्याख्यो गणश्च कथितो बुधैः ॥२६॥

टीका—पूर्वा ३, उत्तरा ३, आर्द्रा, रोहिणी, भरणी, इनमें  
जन्म हो तो मनुष्यगण जानिये ॥ २६ ॥

कृत्तिकाचमघाश्लेषाविशाखाशततारका ॥

चित्राज्येष्ठाधनिष्ठाचमूलंरक्षोगणःस्मृतः ॥ २७ ॥

टीका—कृत्तिका, मघा, आश्लेषा, विशाखा, शतभिषा,  
चित्रा, ज्येष्ठा, धनिष्ठा, और मूल, ये नक्षत्र राक्षसगण  
कहलाते हैं ॥ २७ ॥

स्वगणेपरमाप्रीतिर्मध्यमादेवमर्त्ययोः ।

मर्त्यराक्षसयोर्मृत्युःकलहोदेवरक्षसोः ॥ २८ ॥

टीका—जो स्त्रीपुरुष एकही गण हों तो अधिक प्रीति  
हो. देव मनुष्य हों तो मध्यम प्रीति हो. मनुष्य व राक्षस-  
गण हों तो मृत्यु हो. और देव तथा राक्षसगण हों तो  
कलह हो ॥ २८ ॥



षष्ठेस्त्रीपुंसयोर्वैरंमृत्युःस्यादष्टमेध्रुवम् ॥

द्विर्द्वादशेचदारिद्र्यंनवमेपंचमेकलिः ॥ २९ ॥

टीका—स्त्रीकी राशिसे पुरुषकी राशि ६ हो तो वैर जानिये और पुरुषसे स्त्रीकी आठवीं राशि आवै तो मृत्यु हो. स्त्रीसे आठवें पुरुष हो तो शुभ है और २।१२ हो तो दरिद्रता हो व ९।५ हो तो कलह हो ॥ २९ ॥ इति ।

- मीनालिकर्कटाविप्राःक्षत्रीमेपोहरिर्धनुः ॥

शूद्रायुगं तुलाकुंभौ वैश्याः कन्यावृषो मृगः ॥ ३० ॥

टीका—मीन, वृश्चिक व कर्क ये राशि ब्राह्मणवर्ण हैं; मेष, सिंह व धन ये क्षत्रियवर्ण हैं; मिथुन, तुला व कुंभ ये शूद्रवर्ण हैं और कन्या, वृषभ व मकर ये वैश्यवर्ण हैं ॥ ३० ॥

नोत्तमामुद्गहेत्कन्यां ब्राह्मणीं च विशेषतः ॥

म्रियते हीनवर्णश्च ब्रह्मणारक्षितो यदि ॥ ३१ ॥

विप्रवर्णंचयानारी शूद्रवर्णे च यः पतिः ॥

ध्रुवं भवति वैधव्यं अक्रस्य दुहितायदि ॥ ३२ ॥

टीका—जो कन्या उत्तमवर्ण हो व पुरुष हीनवर्ण हो तो पुरुषकी निश्चय मृत्यु हो इससे उत्तमवर्णवाली कन्यासे विवाह वजित है. तिसमें ब्राह्मणी विशेष करके मना है. और जो ब्राह्मणवर्गवाली कन्यासे शूद्रवर्ण वरका विवाह हो तो जो इन्द्रकी कन्या हो तौभी वह निश्चयकरके विधवा हो ॥ ३१ ॥ ३२ ॥

पौष्णादिकं षट्कमुशंतिपूर्वमाद्रादिकं द्वादश-  
मध्यभागम् ॥ पौरंदराद्यं नवकं भचक्रं परंच भा-  
गंगणकाविदग्धाः ॥ ३३ ॥

टीका—रेवती नक्षत्र आदि देके षट् ६ नक्षत्रोंको पूर्व-भाग कहते हैं. आर्द्रा आदि देके द्वादश नक्षत्रोंको मध्यभाग कहते हैं और ज्येष्ठा आदि देके नव नक्षत्रोंको परभाग कहते हैं ॥ ३३ ॥

पूर्वभागे पतिः श्रेष्ठो मध्यभागे च कन्यका ॥  
परभागे च नक्षत्रे द्वयोः प्रीतिर्महीयसी ॥ ३४ ॥

टीका—पूर्वभागी पति हो और मध्यभागी स्त्री हो तौ पति श्रेष्ठ कहिये. जो मध्यभागी स्त्री हो और परभागी पुरुष

हो तो स्त्री श्रेष्ठ कहिये और स्त्री पुरुष दोनों परभागी हों तो आपसमें अधिक प्रीति हो ॥ ३४ ॥

सिंहं विना वशाः सर्वे द्विपदानां चतुष्पदाः ॥  
भक्ष्या जलचरास्तेषां भयस्थाने सरीसृपः ॥ ३५ ॥

टीका—सिंहके विना दूसरे सब चतुष्पद ( चौपाये ) द्विपद ( मनुष्योंके ) के बशमें हैं और उन ( मनुष्यों ) के जलचर भक्ष्य हैं तथा सर्प विद्युत्आदि भयदायक हैं ॥ ३५ ॥

मकरस्यपूर्वभागोमेपसिंहधनुर्वृषाः ॥  
चतुष्पदाः कीटसंज्ञः कर्कः सर्पश्चवृश्चिकः ॥ ३६ ॥

तुलाचमिथुनकन्यापूर्वाद्धेधनुपश्रयत् ॥  
द्विपदास्तुगार्द्धेतुकुंभमीनौजलाश्रितौ ॥ ३७ ॥

टीका—मकरराशिका पहिला अर्धभाग यानी उत्तरापादाके तीन चरण व श्रवणके डेढ़ चरणपर्यन्त और मेष, सिंह, आधि धन व वृषभ ये चतुष्पद ( चौपायों ) की संज्ञा जानिये और कर्कराशिकी फीट संज्ञा है; वृश्चिककी सर्प संज्ञा है और तुला, मिथुन, कन्या व धनका पहिला आधा

भाग ये द्विपद जानिये तथा कुंभ व मीन जलचर  
॥ ३६ ॥ ३७ ॥ इति०

अथ नक्षत्रयोनिश्चक्रं च

अश्विनीवारुणश्चाश्वो रेवतीभरणी गजः ॥  
पुष्यकृत्तिकयोश्छागो नागश्चरोहिणीमृगः ॥३८॥  
आर्द्रामूलमपिश्वाचमूषकः फाल्गुनीमघा ॥  
मार्जारोदितिराश्लेषागोजातिरुत्तराद्वयम् ॥ ३९॥  
महिपःस्वातिहस्तौचमृगोज्येष्ठाऽनुराधिका ॥  
व्याघ्रश्चित्राविशाखाच श्रुत्यापाढौचमर्कटः ॥४०॥  
वसुभाद्रपदौसिंहोनकुलोऽभिजिद्विज्वयोः ॥  
योनयःकथिता भानांचैरमैत्रीविचार्यताम् ॥ ४१ ॥

टीका—इन चारों श्लोकोंका अर्थ योनिचक्रमें समझ लेना. चौदह योनिकोष्टकके सम्मुख सबके अपने कोष्टक लिखे हैं ॥३८॥३९॥४०॥४१॥ इति योनिविचारनिर्णयः ॥

अश्व	रे	पु	रो	भा	पू	फा	पु	उफा	स्वा	ज्ये	चि	पू	पा	ध	ऽभि
ग	भ	कू	सृ	सू	म	ऽल	उभा	ह	ऽनु	वि	श्र	पू	उ	पा	
घोडा	ग	छा	ना	शा	मूप	धि	गो	भे	हि	व्या	वैदर	सि	नकु		

अथ योनिवैरम्.

गोव्याघ्रं गजसिंहमश्वमहिपं श्वैणं चवधूरगं  
 वैरं वानरमेषकं चसुमहत्तद्वद्विडालोदुरोः ॥  
 लोकानां व्यवहारतो निगदितं ज्ञात्वा प्रयत्नादि-  
 दं दंपत्योर्नृपभृत्ययोरपि सदा वर्ज्यं शुभस्या-  
 र्थिभिः ॥ ४२ ॥

टीका—गाई व भेड़ियांका, हाथी व सिंहका, घोडा व  
 भैंसका, कुत्ता व हिरणका नकुळ व सर्पका, वानर व मेंद-  
 कका और बिलाव व मूपरुका वैर कहा है ऐसा वैरभाव  
 जानके यत्नपूर्वक स्त्रीपुरुष और स्वामीसेवकता वैर शुभा-  
 र्थियों करके वर्जने योग्य हैं ॥ ४२ ॥ इति योनिवैरम् ॥

मरणं पितृमात्रोश्च संग्राह्यं नवपंचकम् ॥

वरस्य पंचमेकन्याकन्यायानवमेवरः ॥ ४३ ॥

एतत्त्रिकोणकंग्राह्यंपुत्रपौत्रसुखावहं ॥

षडष्टकेभवेन्मृत्युर्यत्नंतस्यविचारयेत् ॥ ४४ ॥

टीका—जो पुरुषकी राशिसे कन्याकी राशि ९ हो तो तिसकरके पिताकी मृत्यु हो और जो कन्याकी राशिसे पुरुषकी राशि ५ हो तो तिनकी माताकी मृत्यु हो. वरकी राशिसे ५ पांचवीं राशि कन्याकी हो व कन्याकी राशिसे ९ नववीं वरकी राशि हो तौ यह त्रिकोण शुभ है व यह पुत्र पौत्रके सुखका दाता है और जो ६ छठे, ८ आठवें होय तो मृत्यु होय. तिससे षडष्टकका यत्नसे विचार करना ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ इति राशिमेलनम् ॥

वरस्यभास्करवलंकन्यायाश्चगुरोर्बलम् ॥

द्वयोश्चंद्रवलंग्राह्यंविवाहोनान्यथाभवेत् ॥ ४५ ॥

टीका—वरको सूर्यवल चाहिये, कन्याको बृहस्पतिका बल चाहिये और वरकन्याको चंद्रवल चाहिये ॥ ४५ ॥

अष्टमेचचतुर्थेचद्वादशेचदिवाकरे ॥

विवाहितोवरोमृत्युंप्राप्नोत्यत्रनसंशयः ॥ ४६ ॥

टीका—जो वरको सूर्य ४।८।१२ होनेपर विवाह करे तो मृत्यु होवे ॥ ४६ ॥

जन्मन्यथद्वितीयेवापंचमेसप्तमेऽपिवा ॥

नवमेचदिवानाथेपूजयापाणिपीडनम् ॥ ४७ ॥

एकादशेतृतीयेवापष्ठेवादशमेऽपिवा ॥

वरस्यशुभदोऽनित्यंविवाहेदिननायकः ॥ ४८ ॥

टीका—जो वरकी राशिसे सूर्य १।१।५।७।९ हो तो इस परिहारवाक्यसे सूर्यकी पूजा दानजयादिक करके विवाह शुभ है और जो १।१।३।६।१० रावे होय तो विवाह शुभ कहिये ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ इति रविवल्लम् ॥

अष्टमेद्वादशेवापिचतुर्थेवाबृहस्पतौ ।

पूजातत्रनकर्तव्याविवाहेप्राणनाशकः ॥ ४९ ॥

टीका—जो कन्याको बृहस्पति ४।८।१२ हो तो पूजा करनेपरभी विवाह करनेसे प्राणका घात करे ॥ ४९ ॥

पष्ठे जन्मनि देवेज्ये तृतीये दशमेपि वा ॥

भूरिपूजापूजितःस्यात्कन्यायाः शुभकारकः ५६

टीका—जो कन्याका बृहस्पति ६।१।३।१० होवे तौ पूजा दानादिक देके विवाह करे तौ शुभ हो ॥ ५० ॥

एकादशेद्वितीयेवापंचमेसप्तमेपिवा ॥

नवमेचसुराचार्येकन्यायाःशुभकारकः ॥ ५१ ॥

टीका—जो कन्याका बृहस्पति ११।२।५।७।९ होवे विशेषकरके शुभ है ॥ ५१ ॥ इति गुरोर्वलम् ॥

अष्टाब्दिका भवेद्गौरी नववर्षा च रोहिणी ॥

दशवर्षा भवेत्कन्या अत ऊर्ध्वं रजस्वला ॥ ५२ ॥

टीका—अष्टवर्षमें कन्याको गौरी संज्ञा जानिये; नववर्षमें रोहिणी, दशवर्षमें कन्यासंज्ञा जानिये और इसके उपरान्त रजस्वला कहते हैं ॥ ५२ ॥

गौरी गुरोर्वले देया रोहिणी भास्करस्य च ॥

कन्या चंद्रवले देया सर्वदोषविवर्जिता ॥ ५३ ॥

टीका—गौरीको बृहस्पतिके बलमें देवे, रोहिणीको सूर्यके बलमें देवे और कन्याको चंद्रबलमें देवे ॥ ५३ ॥



आद्येचंद्रःश्रियं कुर्यान्मनस्तोपं द्वितीयके ॥  
 तृतीयेधनसंतोपंचतुर्थेकलहागमम् ॥ ५४ ॥  
 पंचमेज्ञानवृद्धिं च षष्ठेसंपत्तिमुत्तमाम् ॥

१	लक्ष्मीप्राप्ति
२	मनस्तोप
३	धनसंतोप
४	फलहागम
५	ज्ञानवृद्धि
६	संपत्ति
७	राजसन्मान
८	मृत्युभय
९	धनलाभ
१०	शुचिष्ठतला
११	सर्वलाभ
१२	हानि

सप्तमेराजसन्मानं मरणं चाष्टमेतथा  
 ॥ ५५ ॥ नवमेधर्मलाभंचदशमे  
 मानसेप्सितं ॥ एकादशेसर्वलाभं  
 द्वादशेहानिमेवच ॥ ५६ ॥

टीका—इधर कन्या और वरका चंद्रचक्र  
 कहा है. सो इस चक्रपरसे समझ ली-  
 जिये ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥

॥ अथान्यमते विशेषः ॥

गुर्विद्रिनचलागौरीगुर्विदुवलरोहिणी ॥  
 रवींदुवलजाकन्याप्रौढालम्बलास्मृता ॥ ५७ ॥

टीका—गौरीको बृहस्पति, चंद्रमा व सूर्य इन तीनोंका बल  
 विचारिये, तो शुभ है. रोहिणीके गुरु और चंद्रमाका बल

विचारिये. कन्याको रवि और चंद्रमाका बल चाहिये व  
मौढाको लग्नबलही बहुत है ॥ ५७ ॥

जीवोजीवप्रदाताच द्रव्यदाताच चंद्रमाः ॥

तेजोदाताभवेत्सूर्यो भूमिदातामहीसुतः ॥ ५८ ॥

जीवहीनामृताकन्या सूर्यहीनोमृतोवरः ॥

चंद्रेहीनेगतालक्ष्मीःस्थानहानिःकुंजविना ५९

टीका—बृहस्पति जीवनके दाता हैं, चंद्रमा धनके दाता हैं,  
सूर्य तेजके दाता हैं और मंगल भूमिदाता हैं. बृहस्पति हीन  
हो तो कन्याकी मृत्यु हो, जो सूर्य हीन हो तो बरकी मृत्यु  
हो, चंद्रमा हीन हो तो लक्ष्मी क्षीण हो व मंगल हीन हो तो  
स्थानहानि करे ॥ ५८ ॥ ५९ ॥

गौरीददन्नागलोके वैकुण्ठे रोहिणीददत् ॥

कन्यांददन्मृत्युलोकेरौरवंतुरजस्वलाम् ॥ ६० ॥

टीका—गौरीदान करे तो पाताललोकमें सुलकी प्राप्ति  
होय; रोहिणीदान करे तो वैकुण्ठवास पावे; जो कन्यादान  
करे तो मृत्युलोकमें सुगंधी प्राप्ति होय और जो रजस्वला-  
दान करे तो रौरवमें पड़े ॥ ६० ॥

संप्राप्तैकादशे वर्षे कन्या या न विवाहिता ।  
मासेमासेपिताभ्रातातस्याःपिवतिशोणितम् ॥६१॥

टीका—जो ग्यारहवें वर्षमें कन्याका विवाह न करे तो महीना महीना प्रति जो रजस्वला होय उसका रुधिर पिता और ज्येष्ठ भ्राता मानों पान करता है ॥ ६१ ॥

द्वादशैकादशेवर्षेतस्याः शुद्धिर्नजायते ॥  
पूजाभिःशकुनैर्वापितस्यालग्नप्रदापयेत् ॥ ६२ ॥

टीका—जो ग्यारह वारह वर्षकी कन्या होय तो बृहस्पति-का बल देखे और लग्न विचारके पूजा दान करके विवाह करे ॥ ६२ ॥

माताचैव पिताचैव ज्येष्ठभ्राता तथैवच ॥  
त्रयश्चनरकं यांति दृष्ट्वाकन्यां रजस्वलाम् ॥६३॥

टीका—जो माता, पिता, ज्येष्ठ भ्राता, ये तीनों रजस्वला कन्याको देखें तो नरकके अधिकारी होते हैं ॥ ६३ ॥

अथ नाडीविचारः ।

आदिमध्यांतकंवापिअंतमध्यादिमानिच ।

अश्विन्यादिक्रमेणैव रेवत्यंतं  
सुसंलिखेत् ॥ ६४ ॥ ऊर्ध्व-  
गा वेदरेखाः स्युस्तिर्यग्नेखा  
दशस्मृताः ॥ सर्पाकारं लि-  
खेद्भानां नाडीचक्रं वदेद्बुधः ॥  
॥ ६५ ॥ नाडीदोषस्तु वि-  
प्राणां वर्णदोषश्च क्षत्रिये ॥  
गणदोषश्च वैश्येषु योनिदोषस्तु पादजान् ॥ ६६ ॥

आदिमध्यांतनाडी चक्र		
आदि.	मध्य.	अंत्य.
अ.	भ.	कृ.
आ.	सृ.	रो.
उ.	पु.	आ.
उ.	प.	म.
ह.	वि.	स्वा.
ज्ये.	ध.	त्रि.
मू.	प.	उ.
श.	ध.	श्र.
फ.	उ.	रे.

टीका—आदि, मध्य, अंत्य, अंत्य, मध्य, आदि इस प्रकार अश्विनीसे रेवतीपर्यंत गनिये. चार रेखा खड़ी और दश रेखा तिर्छी इसी प्रकार सत्ताईस कोठोंको पंडितजन नाडीचक्र कहते हैं. नाडीका दोष ब्राह्मणको, वर्णका दोष क्षत्रियको, गणका दोष वैश्यको और योनिका दोष शूद्रको विशेषकरके जानिये ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ६६ ॥

एकनाडीस्थनक्षत्रे दंपत्योर्मरणं ध्रुवम् ॥  
 सेवायांचभवेद्धानिर्विवाहेचाशुभं भवेत् ॥ ६७ ॥

टीका—जो वर कन्या दोनों एक नाडीके नक्षत्रों विषे  
 जन्मे हों तो दोनोंकी मृत्यु हो अर्थात् विवाहमें अशुभ  
 होवे और मालिक व नौकरमें एक नाडी हो तो हानि  
 होवे ॥ ६७ ॥

आद्यानाडीवरंहंतिमध्यनाडीचकन्यकां ॥  
 अंत्यनाडीद्वयोर्मृत्युर्नाडीदोपंत्यजेद्बुधः ॥ ६८ ॥

टीका—जो आदि नाडीका दोष हो तो वरको अरिष्ट  
 करै; मध्यका दोष हो तो कन्याको अनिष्ट है और अंत्य  
 नाडीका वेध लगे तो दोनोंकी मृत्यु होय ॥ ६८ ॥

एकनक्षत्रजातानां नाडीदोषो न विद्यते ॥  
 अन्यर्क्षपतिवेधेषु विवाहोवर्जितः सदा ॥ ६९ ॥

टीका—जो वर कन्याका एकही नक्षत्रमें जन्म होय तो  
 एक नाडीका दोष न मानिये, और दूसरे नक्षत्रोंमें जन्म  
 होय तो विवाह सर्वथा वर्जित है ॥ ६९ ॥

पंचोर्ध्वाः स्थापयेद्रेखाः पंचतिर्यङ्मुखास्तथा ॥

द्वयोश्चकोणयोर्द्वेद्वेचक्रंपंचशलाककम् ।

ईशानेकृत्तिकादेयाक्रमादन्यानिभानिच ॥

ग्रहास्तेषुप्रदातव्यायेचयत्रप्रतिष्ठिताः ॥ ७१ ॥

लग्नस्यनिकटेयाचगताभवतिपूर्णिमा ॥

तन्नक्षत्रस्थितश्चंद्रोदातव्योगणकोत्तमैः ॥ ७२ ॥

टीका—पंच रेखा

ऊर्ध्व पांच तिरछी

और दो २ रेखा को-

नोंमें करै, तिसको

पंचशलाका चक्र क-

हते हैं ॥ ७० ॥ ईशान


दिशाआदि लेके कृ-

त्तिका आदि नक्षत्र

क्रमसे धरिये ॥ ७१ ॥

जो लग्नके निकट पूर्ण हो तो तिस नक्षत्रपर

धरना योग्य है ॥ ७२ ॥



लक्षापातोर्युतिर्वेधोजामित्रंबुधपंचकम् ॥  
 एकार्गलोपग्रहौचक्रांतिसाम्यंनिगद्यते ॥७३॥  
 दग्धातिथिश्चविज्ञेया दशदोषा महावलाः ॥  
 एतान्दोषान्परित्यज्यलग्नसंशोधयेद्बुधः ॥७४॥

टीका—अथ दोष कहते हैं. लक्षा १, पात २, युति ३, वेध ४, जामित्र ५, बुधपंचक ६, एकार्गल ७, उपग्रह ८, क्रांतिसाम्य ९, और दग्धा तिथि १०, ये दश दोष महा-बलवान् हैं इनसे बचायके लिये साधिये ॥७३॥७४॥

नक्षत्रंद्वादशंभालुस्तृतीयंलत्तयाकुजः ॥  
 षष्ठं जीवोष्टमंमंदोहंति दक्षिणतः सदा ॥७५॥  
 चामेन सप्तमश्चांद्रिर्नवमांसिंहिकासुतः ॥  
 हंति भंपंचमंशुक्रो द्वाविशं पूर्णचंद्रमाः ॥७६॥

टीका—जिस नक्षत्रका लग्न हो तिसी नक्षत्रसे दाहिने इस प्रकार सूर्य, भौम, गुरु व शनि ये चार ग्रह कात मारते हैं

१२ नक्षत्रमें रवि, ३ भौम, ६ गुरु ८ शनि लात मारते हैं और वामभाग होके सातवें नक्षत्रको बुध लात मारता है नवमें ९ राहु, पाँचवेंमें ५ शुक्र और बाईसवेंमें २२ नक्षत्रको चंद्रमा लात मारते हैं ॥ ७५ ॥ ७६ ॥

रवेल्ताहरेद्वित्तंकुजस्यकुरुतेमृतिं ॥

बृहस्पतेर्बंधुनाशशनेःकुर्यात्कुलक्षयम् ॥ ७७ ॥

बुधस्यकुरुतेत्रासंलत्ताराहोर्विनाशयेत् ॥

शुक्रस्यदुःखदानित्यंत्रासदातुकलानिधेः ॥ ७८ ॥

टीका—सूर्यकी लात लगे तो संपत्ति हरे; भौमकी लात लगे तो मृत्यु करे; बृहस्पतिकी लगे तो बंधुका नाश करे; शनिकी लात लगे तो कुलका क्षय करे; बुधकी लात त्रास करे; राहुकी लातसे नाश हो; शुक्रकी लात लगे तो दुःख-दायक है, और चंद्रकी लात त्रास करे ॥ ७७ ॥ ७८ ॥

सूर्ययुक्ताच्च नक्षत्रादेश पातो विधीयते ॥

मघाश्लेषाचत्रिचसानुराधाचरेवती ॥ ७९ ॥



श्रवणोपिचषट्कोऽयं पातदोषो निगद्यते ॥

अश्विनीमवधिंकृत्वागणयेत्लभभावधि ॥ ८० ॥

टीका—जिस नक्षत्रमें सूर्य हो उसी नक्षत्रमें फिर आन परे तो पातदोष कहिये. मघा, आश्लेषा, चित्रा, अनुराधा, रेवती, श्रवण ये छह नक्षत्र पातके हैं इन नक्षत्रोंके सूर्यके सयोगसे छह भातिके पात कहते हैं मथम सूर्यके नक्षत्रसे सताईस रेखा खँचिये. नक्षत्रपात कहते हैं षोडे करिये. फिर अश्विनी आदि देके फेरेके नक्षत्रछाँ गनिये. जो षोडे नक्षत्रमें गिनती पूरी होय तो पातदोष लगै ॥ ७९ ॥ ८० ॥ इति पातचक्रम्

पावकःपवमानश्च विकारःकलहोपरः ॥

मृत्युःक्षयश्चविज्ञेयंपातपदकस्य लक्षणम् ॥ ८१ ॥

टीका—अब छह भातिके पातोंके नाम व लक्षण कहते हैं. पावक १, पवमान २, विकार ३, कलह, ४ मृत्यु ५, व क्षय ६, ये छहों पात नामानुसार फल करते हैं ॥ ८१ ॥

पातेन पतितो ब्रह्मा पातेन पतितो हरिः ॥

पातेनपतितःशंभुस्तस्मात्पातंविवर्जयेत् ॥ ८२ ॥

टीका—पातसे ब्रह्मा पतित भये, विष्णु पतित भये शिव पतित भये, इससे विवाहमें पातदोष विशेषकरके करना ॥ ८२ ॥

चित्रांगतोपातविचित्रदेशमैत्रोमधामालवके  
निषिद्धः ॥ पौष्णश्रुतीचोत्तरदेशजातः  
त्रवर्ज्यश्च भुजंगपातः ॥ ८३ ॥

टीका—चित्रानक्षत्रका पात विचित्रदेशमें वर्जित है. अनु-  
राधाका व मघाका पात मालवदेशमें निषिद्ध है. रेवती  
श्रवण इनका पात उत्तरमें निषिद्ध है और आश्लेषाका पात  
सर्वदेशमें वर्जित है ॥ ८३ ॥ इतिपातः ॥

यत्रक्षे तु भवेचंद्रो ग्रहस्तत्रयदा भवेत् ॥  
युतिदोपस्तदाज्ञेयोविनाशुकंशुभाशुभम् ॥ ८४ ॥

टीका—जिम नक्षत्रमें चंद्रमा हो उसी नक्षत्रमें और  
ग्रह होय तो युतिदोष कहते हैं; परंतु शुकविना  
शुकसंयुक्त शुभ, अन्यतम अशुभ है ॥ ८४ ॥

रविणासंयुतो हानिं भौमेननिधनं शशी ॥  
करोतिमूलनाशंचराहुकेतुशनैश्वरैः ॥ ८५ ॥

टीका—जो चंद्रमा सूर्यके साथ हो तो हानि करै, भौमके साथ हो तो मृत्यु करै, और राहु, केतु, शनैश्वरके साथ हो तो मूलनाश करै ॥ ८५ ॥

वर्गोत्तमगतश्चंद्रः स्वोच्चं वा मित्रराशिगः ॥  
युतिदोषश्चनभवेदंपत्योःश्रेयसीसदा ॥ ८६ ॥

टीका—जो चंद्रमा पटुर्गविषे श्रेष्ठवर्गमें हो अथवा उच्चका हो वा मित्रराशिका हो तो युतिदोषका नाश करै बधुवर दोनों सुखी रहै ॥ ८६ ॥ इति युतिदोषः ॥

एकरेखास्थितिर्वंधो दिननाथादिभिर्ग्रहैः ॥  
विवाहेतत्रमासंतुनजीवतिकदाचन ॥ ८७ ॥

टीका—जिस नक्षत्रका लग्न होय उसी नक्षत्ररेखापर सामने सूर्यआदि कोई ग्रह होय तो उसका प्रेष कहिये. उस पर विवाह होवे तो एक महीनाके अंतमें मृत्यु करै ॥ ८७ ॥

अश्विनीपूर्वफाल्गुन्याभरणीचानुराधया ॥  
 अभिजिच्चापिरोहिण्याकृत्तिकाचविशाखया  
 भृगुश्चोत्तरषाढेनपूर्वाषाढातथार्द्रऽऽया ॥  
 पुनर्वसुश्चमूलेनतथापुष्यश्चज्येष्ठया ॥ ८९ ॥  
 धनिष्ठयातथाऽऽश्लेषामघापिश्रवणेनच ॥  
 रेवत्युत्तरफाल्गुन्यायस्तेनोत्तरभाद्रपात् ॥ ९०  
 स्वात्याशतभिषाविद्धाचित्रयापूर्वभाद्रपात् ॥  
 विद्धान्येतानिवज्याणिविवाहेभानिकोविदैः ॥ ९१

टीका—अश्विनी और पूर्वाफाल्गुनीकी एक रेखा है।  
 भरणी व अनुराधाकी एक रेखा है ऐसे जो दोनों वीर एक  
 रेखा होय तौ वेध कहिये ऐसे अठारह नक्षत्रोंको जानिये  
 ये वेध पंचशलाका चक्रमें देख लेना ८८—९१

रविवेधेचवैधव्यंकुजवेधेकुलक्षयम् ॥

बुधवेधेभवेदंध्याप्रव्रज्यागुरुवेधतः ॥ ९२ ॥

अपुत्राशुक्रवेधेचसौरेचंद्रेचदुःखिता ॥

परपूरुपरताराहोःकेतोःस्वच्छंदचारिणी ॥९३॥

टीका—जो सूर्यका वेध लगे तो कन्या विधवा होती है । मंगलका वेध लगे तो कुलका क्षय होवेगा । बुधका वेध लगे तो बंध्य होवेगी गुरुका वेध लगे तो संन्यासी, शुक्रका वेध लगे तो पुत्रहीन, शनिचंद्रमाका वेध लगे तो दुःखी, राहुका वेध लगे तो परपूरुपगामिनी और केतुका वेध हो तो स्वच्छंदचारिणी होती है ॥ ९२ ॥ ९३ ॥

शनिराहुकुजादित्यायदाजन्मर्क्षसंस्थिताः ॥

विवाहिताचयाकन्यासाकन्याविधवाभवेत् ॥

टीका—शनि, राहु, भौम व शूर्य इनमेंसे कोई ग्रह विवाहसमय जन्मनक्षत्रपर होय तो कन्या विधवा हो जायगी ॥९४॥

चतुर्दशं च नक्षत्रं जामित्रं लग्नभात्स्मृतं ॥

शुभयुक्तं तदिच्छंति पापयुक्तं च वर्जयेत् ॥ ९५ ॥

टीका—जो लग्ने नक्षत्रपर चाँदहवें नक्षत्रपर पापग्रह हो

तो जामित्रदोष कहिये और जो सौम्यग्रह होय तो शुभ है ॥ ९५ ॥

चंद्रश्चाद्रिभृगुर्जीवोजामित्रेशुभकारकाः ॥  
स्वर्भानुर्भानुमंदाराजामित्रेनशुभप्रदाः ॥ ९६ ॥

टीका—जो चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र ये ग्रह जन्मके नक्षत्रसे जामित्रपे होय तो शुभ कहिये और जो राहु, शनि, सूर्य तथा भौम ये जामित्रपे होय तो अशुभ है ॥ ९६ ॥

चंद्राद्बालमतोवापिग्रहवर्ज्याश्चसप्तमे ॥  
तत्रस्थिताग्रहानूनव्याधिवैधव्यकारकाः ॥९७॥

टीका—चंद्रमासे वा लग्नके राशिसे सातवें कोई ग्रह हो तो वे व्याधि और वैधव्य करें ॥ ९७ ॥ इति जामित्रदोष ॥

धार्यातिथिर्मासदशाष्टवेदाः संक्रांतितोयातदि-  
नेश्चयोज्याः ॥ ग्रहोर्विभक्तायादिपंचशेपोरो  
गस्तयाऽभिर्नृपचोरमृत्युः ॥ ९८ ॥

टीका—अब पंचक कहते हैं. तिथि कहिये १९, मास कहिये १२, दश १०, अष्ट ८, वेद ४, संक्रांतिके जो दिन गये होंय तिनको युक्त करके नव ९ का भाग दीजै जो पांच शेष बचै तो पंचक जानिये. ऐसेही पांचों अंक विचारिके रोग-पंचक १९ में, अग्निपंचक वारह १२ में, राजपंचक दश १० में, चौर पंचक ८ में और मृत्युपंचक ४ में ॥ ९८ ॥

यद्यर्कवारे किलरोगपंचकं सोमेचराज्यंक्षितिजे  
चवाह्निः ॥ सौरौच मृत्युर्धिपणेच चौरौ  
विवाहकाले परिवर्जनीयाः ॥ ९९ ॥

टीका—रविवारको जो रोगपंचक लगै, सोमको राजपंचक लगै, मंगलको अग्निपंचक, शनैश्वरको मृत्युपंचक, और भृगु-वारको चौरपंचक ये विवाहमें वर्जित है ॥ ९९ ॥

रोगंचौरंत्यजेद्रात्रौदिवाराज्याग्निपंचकम् ।

उभयोःसंध्ययोर्मृत्युरन्यकालेननिदिताः ॥१००॥

टीका—रोग और चोरपंचक रात्रिकी अशुभ हैं, और राज्य व अग्निपंचक दिनमें वर्जित हैं, दोनोंके संघिनमें मृत्युपंचक निंदित है और समयमें वर्जित नहीं है ॥ १०० ॥ इति पंचकदोषः ॥

सूर्यभात्पंचमे विद्यान्नक्षत्रे शूलमष्टमे ॥

चतुर्दशे शनैः पातःकेतुरष्टादशे तथा ॥ १ ॥

ऊनविंशे भवेदुल्का निर्घातश्चद्विंशके ॥

त्रयोविंशतिकेकंपःपंचविंशे तु वज्रकः ॥ २ ॥

टीका—सूर्यके नक्षत्रसे पांचवें कोई ग्रह होय तौ विद्यु-  
दोष लगै. ८ वें शूलदोष लगै, चौदह १४ पर शनिपात-  
दोष लगै; अठारह १८ पर केतुदोष लगै १९ पर उल्का  
२२ पर निर्घात, २३ पर कंप, और २५ पर वज्रदोष लगै  
॥ १०१ ॥ १०२ ॥ इति विद्युदादियोगाः ॥

पुत्रनाशकरीविद्युत् पत्युःशूलो विनाशकः ॥

शनेःपातोवंशघातीकेतुर्देवरनाशकः ॥ ३ ॥



द्रव्यनाशकरीचोल्कानिर्घातोवंधुनाशकः ॥

कंपःकंपयतेनित्यंवज्रेस्त्रीव्यभिचारिणी ॥ ४ ॥

टीका—विद्युदोष लगै तौ पुत्रका नाश करै, शूल दोष पतिका नाश करै, शनिका पात वंशघात करै, केतुदोष देवरका नाश करै, उल्कादोष द्रव्यका नाश करै, निर्घात भ्राताका नाश करै, कंप नित्यही कंपावै, वज्रदोष लगै तो स्त्री व्यभिचारिणी होय ॥ ३ ॥ ४ ॥ इति विद्युदादिदोषफलानि ॥

योगांकेविपमेचैकोदेयोष्टाविंशतिःसमे ॥

अर्द्धकृत्वाश्विनीपूर्वामर्कभंमूर्ध्निदीयते ॥ ५ ॥

टीका—जो योगके अंक विपम होंय तौ एक जोरिये और सम अंक होंय तौ अठारहस जोरिये सो आधा करि अश्विनीसे पूर्व जो अंक होय सो, माथेपर लिखिये ॥ ५ ॥

विष्कंभेचाश्विनीदेयाप्रीतौस्वातिर्निगद्यते ॥

सौभाग्येवविशाखा स्यादायुष्मान् भरणी

रो	—	आ
कु	—	इ
म	—	उ
भ	—	ऋ
र	—	ॠ
व	—	ए
प	—	अ
श	—	ह
ध	—	ञि
ध	—	स्वा
भ	—	वि
व	—	ऽनु
पू	—	ज्ये

युतः ॥ ६ ॥ शोभनेकृत्तिका  
 देया अनुराधा च गंडके ॥ रोहि  
 णी च सुकर्माख्ये घृतौ ज्येष्ठा  
 प्रकीर्तिता ॥ ७ ॥ गंडेमूलं मृ  
 गः गूले वृद्धौ चार्द्रानि गद्यते ॥  
 पूर्वाषाढा ध्रुवे प्रोक्ताप्याधा  
 ते च पुनर्वसुः ॥ ८ ॥ हर्षणे चो  
 त्तराषाढा वज्रपुष्यः प्रकी

र्तितः ॥ अभिजिम्बतथा सिद्धा वा श्लेषा व्यति  
 पातके ॥ ९ ॥ वरीयसि श्रुतिदेया परिधे च म  
 घा तथा ॥ शिवे धनिष्ठा दातव्या सिद्धौ पूर्वा च  
 फाल्गुनी ॥ ११० ॥ साध्ये गतभिपादे या शुभे  
 चोत्तरफाल्गुनी ॥ पूर्वाभाद्रपदा शुक्ले हस्ते ब्रह्मा  
 ॥ ११ ॥ उत्तराभाद्रपदे चित्रादे  
 ॥ घृतौ ॥ सूर्या चंद्रमसो योगे भवेदेकार्गलं

तदा ॥ १२ ॥ त्रयोदशतिरोरेखाएकोर्ध्वासुध्न्य  
भिस्मृता ॥ योगांकेप्राप्तनक्षत्रेज्ञेयमेकार्गलं  
बुधैः ॥ १३ ॥

टीका—एकार्गलचक्रकी त्रयोदश रेखा तिरछी खंचै;  
एकरेखा लुढ़ी खंचै; योगके अंक और जो नक्षत्र कहे हैं वे  
सूर्यचंद्रका योग एक रेखासे होवै एकार्गलदोष कहिये  
विष्कंभयोगको और अश्विनीको कहा है ऐसेही क्रमसे चक्रमें  
समझ लीजिये ॥ ११३ ॥ इत्येकार्गलनि० ॥

ऊर्ध्वास्तिस्रस्तिरस्तिस्त्रोमध्येमीनं लिखेद्बुधः ॥  
सूर्याचंद्रमसोदृष्टौक्रांतिसाम्यंनिगद्यते ॥ १४ ॥  
मीनःकन्यकयायुक्तोमेघः सिंहेनसंगतः ॥  
मकरेणवृषेक्रांतिश्चापोपि मिथुनेनच ॥ १५ ॥  
कर्केणवृश्चिकोविद्धोवेधश्चतुलकुंभयोः ।  
क्रांतिसाम्येकृतोद्वाहोनजीवतिकदाचन ॥ १६ ॥

टीका—तीन रेखा ऊर्ध्व और तीन तिरछी खेंच कर ऊर्ध्व मध्यकी रेखापर मीन, कन्या और तीरछी मध्यमपर मिथुन, धन, लिखके क्रमसे सब लग्नको धरिके चक्र बनाइये उसमें एक रेखापर चंद्र सूर्य परें तौ क्रांतिसाम्य दोष कहिये.

	११	१२	१
०			
०			
०			
	७	६	५

मीनसे कन्याको वेध जानिये. मेष सिंहको मकर वृषभको मिथुन धनको कर्क वृश्चिकको तुला कुंभको इन राशिनको परस्पर बिद्ध समझकर त्यागकर दीजिये. यह विवाहादिक अनेक कार्यकी

वर्ज्य है ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥

क्रांतिसाम्येचकन्यायायदिपाणिग्रहोभवेत् ॥

कन्यावैधव्यतांयातिईशस्यदुहितायदि ॥१७॥

टीका—जो क्रांतिसाम्यमें विवाह होवे तौ कन्या विधवा होय, ईश यानी महादेव तिनकी पुत्री होय तौभी इस दोषपर विवाह होनेसे विधवा होजायगी. ॥ १७ ॥ इति क्रांतिसाम्यम् ॥

मर्मवेधः कंटकश्च शल्यं छिद्रं चतुर्थकम् ॥

एतद्वेधचतुष्कं तु परित्याज्यं प्रयत्नतः ॥१८॥

टीका—अब चार दोष कहते हैं. मर्मवेध १, कंटक २, शल्य ३, व छिद्र ४ इन दोषोंको यतन कर बचाइये, यह गणकजनोंकी आज्ञा है ॥ १८ ॥

लग्नेपापे मर्मवेधः कंटको नवपंचके ॥

चतुर्थे दशमे शल्यं छिद्रं भवति सप्तमे ॥१९॥

टीका—लग्नमें पापग्रह हो तो मर्मवेध, चौथे और दशम स्थानमें पापग्रह हो तो शल्यदोष, सप्तमस्थानमें पापग्रह हो तो छिद्रदोष, और नवम व पंचमस्थानमें पापग्रह हो तो कंटकदोष होता है ॥ १९ ॥

मरणं मर्मवेधे स्यात्कंटके च कुलक्षयः ॥

शल्येचनृपतेर्भीतिःपुत्रनाशश्चछिद्रके ॥१२०॥

टीका—जो मर्मवेधमें विवाह होवे तो मृत्यु, कंटकमें होवे तो कुटुंबका क्षय, शल्यदोषमें होवे तो राजाका भय और छिद्रमें हो तो पुत्रका नाश जानिये ॥ १२० ॥ इति वेध-चतुष्टयदोषः ॥

जन्ममासेजन्मभेच नचजन्मदिनेषिच ।

ज्येष्ठे नज्येष्ठगर्भस्य विवाहंकारयेत्कचित् ॥२१॥

टीका—जन्मका मास, जन्मका नक्षत्र, जन्मका दिन और प्रथमगर्भको ज्येष्ठ मास ये विवाह विषे वर्जित करे हैं, परंतु जो गर्भकेविषे कहे सोही ज्येष्ठत्व अनेक मतांतरसे प्राधान्य है ॥ २१ ॥

नकन्यावरयोज्येष्ठे ज्येष्ठयोः पाणिपीडनम् ।

द्वयोरेकतरेज्येष्ठेनज्येष्ठो दोषमावहेत् ॥ २२ ॥

टीका—जो वर तथा कन्या दोनों प्रथमगर्भके हों तौ ज्येष्ठ-मासमें विवाह नहीं करना और कन्या वा वर इन्होंमें एक ज्येष्ठ हो तौ ज्येष्ठमें विवाह कीजै. दोष नहीं है. कारण तीन ज्येष्ठ नहीं चाहिये ॥ २३ ॥

सिंहगुरौगतेकार्यो नविवाहःकदाचन ॥

मेपस्थितेदिवानाथेसिंहेज्येचशुभप्रदः ॥ २३ ॥

टीका—बृहस्पति सिंहस्य होवे तब विवाह नहीं करना. केवल मेपके पूर्वमें करिये तौ सिंहका गुरुमी शुभ फलदायक है ॥ २३ ॥

स्वौसार्धत्रयोभागाःपंचचंद्रेगुरौत्रयः ॥

देदेशुक्रेंदुपुत्रेस्यादिश्वाभागप्रदायकाः ॥२४॥

प्रत्येकंसार्धभागाश्चमंदमंगलराहुपु ॥

ग्रहावल्युताविश्वात्प्रयच्छंतिनदुर्वलाः ॥२५॥

टीका—सूर्यके ३॥ भाग, चंद्रमा ५ भाग, गुरुके ३ भाग, और शुक्र व बुधके २२ भाग इन भागोंके विश्वा शुभ हैं ॥ २४ ॥ शनि, मंगल, राहु और केतु इन ग्रहोंको देद देद भाग १॥ देद विश्वा भागपूर्वक जबलौं चलिष्ठ रहै, तबलौं ये शुभ हैं. जब ये क्षीण होयेंगे तब निर्बल हैं ॥ २५ ॥ इतिविंशोपक्रमफलम् ॥

केंद्रेसप्तमहीनेचद्वित्रिकोणेशुभाःशुभाः ॥

धनेशुभप्रदश्चंद्रःपापाःपष्ठेचशोभनाः ॥ २६ ॥

तृतीयैकादशेसर्वेसौम्याःपापाःशुभप्रदाः ॥

तेसर्वेसप्तमस्थानेमृत्युदावरकन्ययोः ॥ २७ ॥

टीका—केंद्रस्थान पानी लग्न, चतुर्थ, सप्तम, व दशम, जा इन स्थानविषे शुभ ग्रह हों तो श्रेष्ठ हैं. अफले सातवें

स्थानमें शुभग्रह अशुभ हैं. शुक्र, बुध, बृहस्पति और शुक्र-  
दशमीसे कृष्णपक्षकी ५ पर्यंतका चंद्रमा श्रेष्ठ बली होता है.  
और सूर्य, राहु, शुक्र २ से दशमी १० पर्यंतका चंद्रमा ये  
चार ग्रह जानिये. भौम, शनि, केतु कृष्णपंचमीसे ३० तक  
चंद्रमा ये पापग्रह हैं. लग्नसे २ स्थानको चंद्रमा शुभ है. पाप-  
ग्रह ६ स्थानमें शुभ हैं ॥ २६ ॥ ३ । ११ स्थानोंमें सर्व ग्रह  
शुभ हैं और वे सौम्य और क्रूर ( पापग्रह ) ७ स्थानमें होंय  
तौ वर कन्याको मृत्यु देनेवाले हैं ॥ २७ ॥ इति फलदा ग्रहाः ॥

शनिःसूर्यश्चलग्नेऽस्ते चंद्रोलग्नेऽष्टमेरिपौ ॥

कुजेलग्नेऽष्टमेचास्तेशुक्रोद्यूनेऽष्टमेरिपौ ॥ २८ ॥

गुरुर्मृत्यौसैहिकेयो लग्नेतुर्येचसप्तमे ॥

बुधेऽष्टमेचजामित्रेविवाहः प्राणनाशकः ॥ २९ ॥

क्रूरयोरंतरंलग्नं चंद्रं चपरिधर्जयेत् ॥

वरंहंतिध्रुवंलग्नंशीतरश्मिश्चकन्यकाम् ॥ ३० ॥

टीका--शनि व सूर्य जो लग्नमें .. हों, चंद्रमा



१।६।८, भौम १।८।७।शुक ७।८।६, बृहस्पति  
 ८ राहु १।७।४, और बुध ८।७ ये ग्रह इतने स्थानोंमें  
 विवाहविषे प्राणोंके नाश करनेवाले हैं. और पापग्रहोंके मध्य  
 चंद्रमा अथवा लग्न होवे तौ दोनों वर्जनीय हैं, क्योंकि पापग्र-  
 हयुक्त लग्न वरको और चंद्रमा-कन्याको शीघ्रही मारता है ॥  
 २८ ॥ २९ ॥ १३० ॥ इति शुभाशुभग्रहनिर्णयमकरणम् ॥

तुलाचमिथुनंकन्यापूर्वाधोधनुषोवृषः ॥

एतेलगाःशुभानित्यामध्यमाश्चापरेस्मृताः ॥३१॥

टीका—तुला, मिथुन, कन्या, वृष तथा धनुका पूर्वार्ध  
 इतने लग्न शुभ हैं. शेष लग्न मध्यम हैं ॥ ३१ ॥

लक्ष्मालवकेदेशोपातश्चकुरुजांगले ॥

एकार्गलंचकाश्मीरे वेधं सर्वत्रवर्जयेत् ॥ ३२ ॥

टीका—लक्षादोष मालवदेशमें वर्जनीय है; पातदोष  
 कुरुजांगल देशमें निषिद्ध है; एकार्गलदोष काश्मीर देशमें  
 मना है और वेधदोष सर्व देशमें वर्जित है ॥ ३२ ॥

मेपेनवांशामेषाद्यावृषेचमकरादिकाः ॥

मिथुनेचतुलाद्याःस्युःकर्कटेकर्कटादिकाः॥३३॥

मेषाद्यौचधनुःसिंहौगोकन्यामकरादिकौ ॥

तुलाद्यौयुग्मकुंभौचकर्काद्यौमीनवृश्चिकौ॥३४॥

गोतुलायुग्मकन्यानांनवांशाःशुभदाःस्मृताः ॥

धनुषःप्रथमोभागोविवाहेऽन्येचमध्यमाः॥३५॥

टीका—मेष आदि बारह राशियोंके नवांशक कहते हैं। लग्नके नवम भागको नवांशक कहते हैं। लग्न १ नसत्र २ नवांशक भोग्य करते हैं सो मेष, सिंह, धन इन तीनोंके पहिले नवांश मेषसे नवपर्यंत गनिये। वृष, कन्या, मकर, इन तीनोंके नवांश मकर आदि लेके कन्यापर्यंत मानिये। मिथुन, तुला, कुंभ इन तीनोंके नवांश तुला आदि देके मिथुन पर्यंत और कर्क, वृश्चि, मीन इन तीनोंके नवांश कर्क आदि मीन पर्यंत गनिये। सो चक्रमें सप्तम लीजै। वृष, तुला, मिथुन, कन्या इनके नवांश शुभ हैं। और धनका पहिला शुभ, शेष



शुक्लाष्टमीसमारभ्यफाल्गुनस्यदिनाष्टकम् ॥  
 पूर्णिमामवधिकृत्वात्याज्यंहोलाष्टकंबुधैः ॥३७॥  
 शुतुद्र्यांचविपाशायामैरावत्यांत्रिपुष्करे ॥  
 होलाष्टकंविवाहादौत्याज्यमन्यत्र शोभनम् ३८

टीका—फाल्गुनके शुक्लपक्षकी अष्टमिसे पूर्णिमा तक आठ दिन होलाष्टक वर्जनीय रहते हैं ॥ ३७ ॥ सो शुतुद्री नदीका तीर, विपाशानदीका तीर व इरावती नदीका तीर इन देशोंमें और त्रिपुष्करक्षेत्रमें विवाहादिक उत्तम कार्यविषे वर्जित है. अन्यत्र शुभ है ॥ ३८ ॥ इतिहोलाष्टकम् ।

दिनेसदांधावृषमेपसिंहारात्रौचकन्यामिथुनं  
 कुलीरः ॥ मृगस्तुलालिर्वधिरोपराह्लेसंध्यासु  
 कुब्जाघटघन्विमीनाः ॥ ३९ ॥

टीका—वृष, मेष, सिंह ये दिनमें अंधलग्न हैं. कन्या, मिथुन, कर्क ये रात्रिमें अंध; मकर, तुला, वृश्चिक ये अपराह्नमें रहते. धन, कुंभ, मीन ये संध्यामें कुचरे हैं ॥ ३९ ॥

दिवांधोवरहंताचराज्यंधोधननाशकः ।

दुःखदोवधिरोलमःकुब्जोवंशविनाशकः ॥१४०॥

टीका—दिनके अंधे लग्नमें पाणिग्रहण होवे तो वरकी हानि होती है. रात्रिने अंधे लग्नमें हो तो धननाश है. वहरे लग्नमें पाणिग्रहण होय तो दुःखदायक है और कुबरे लग्नमें विवाह होय तो वंशनाश होता है ॥ १४० ॥

यत्रचैकादशश्चंद्रोद्वितीयोवातृतीयकः ॥

गोधूलिकःसविज्ञेयःशेषाधूलिमुखाःस्मृताः१४१

टीका—जो ग्यारहवें स्थानमें चंद्रमा हो अथवा दूसरे तिसरे स्थानोंमें हो सो उत्तम गोधूलिक है और दूसरे गोधूलिक मुख कहते हैं ॥ १४१ ॥

कुलिकः क्रांतिसाम्यं च लग्ने पष्ठाष्टमे शशी ॥

तदागोधूलिकस्त्याज्यःपंचदोषैश्चदूषितः ॥

टीका—कुलिकयोग, क्रांतिसाम्य और लग्नमें छठे और आठवें चंद्रमा हो तौ गोधूलिक लग्नमें विवाह नहीं करना; क्योंकि लग्न इन पांच दोषोंसे दूषित होता है ॥ ४२ ॥

यदानास्तंगतो भानुर्गोधूल्यापूरितं नभः ॥

सर्वमंगलकार्येषु गौधूलिश्च प्रशस्यते ॥ ४३ ॥

टीका—जबलग सूर्य अस्त न होय और गायनकी खुरनकी धूर आकाशमें पूरित होरही होय तौ यह गोधूलिक मुहूर्त सकल कार्यविषे उत्तम मंगलकी दाता है ॥ ४३ ॥

अष्टमे जीवभौमौ च बुधो वा भार्गवोऽष्टमे ॥

लग्नेषु अष्टमे चंद्रस्तदा गोधूलिनाशकः ॥ १४४ ॥

टीका—जो लग्नमें आठवें स्थानमें गुरु भौम, बुध, व शुक्र ये ग्रह हों अथवा लग्नमें १ वा छठवें आठवें ६।८ चंद्रमा होय तौ वह गोधूलिनाशक दोष है. उस मुहूर्तमें सर्व कार्य वर्जित है ॥ १४४ ॥ इति गोधूलिकः ॥

लग्नादेकादशे सर्वे लग्नपुष्टिकरा ग्रहाः ॥  
 तृतीये चाष्टमे सूर्यः सूर्यपुत्रश्च शोभनः ॥४५॥  
 चंद्रो घनेतृतीयेच कुजःपष्ठे तृतीयके ॥  
 बुधेज्यौ नवपदद्वित्रिचतुःपंचदशे स्थितौ ॥४६॥  
 शुक्रो द्वित्रिचतुःपंचधर्मकर्मतनुस्थितः ॥  
 राहुर्दशाष्टपदपंचत्रिनवद्वादशे शुभः ॥ ४७ ॥

टीका—लग्नसे ग्यारह स्थानमें सर्व ग्रह शुभ हैं. और  
 सूर्य ३, शनि ८ ॥ ४५ ॥ चंद्रमा २३, भौम ३६ बुध व  
 वृहस्पति ९।६।२।३।४।५।१० इन स्थानोंमें, शुक्र २।३।४।५-  
 १९।१०।१ इन स्थानोंमें शुभ है, और राहु व केतु १०।८-  
 ६।५।३।९।१२ इतने स्थानोंमें शुभ फलदायक हैं ॥ ४६ ॥  
 ॥ ४७ ॥ इति रव्यादयः पुष्टिकरा ग्रहाः ॥

छायापादैरसोपेतैरेकविंशशतं भजेत् ॥  
 लब्धांकेघटिकाज्ञेयाःशेषांके च पलाःस्मृताः ॥४८॥

टीका—अब दिन नापनेको कहते हैं. अपनी छाया  
 हीलकी अपने पांवसे नापिये. जितने पांव छाया होवे उसीमें

और ६ मिलावै. फिर एकसौ एकईस १२१ को तिनसे भाग दीजै. जो भाग पाइये सो घटी दिन जानना. चढता होय तौ चढता दिन जानना और उतरता होय तौ बाकीदिन रहा जानना. भाग हरे पीछे शेष रहेगा वह साठ गुने करके फिर १२१ से भाग कर अंकोंपर फैलाकर पल कर लीजे. सो पल जानिये ॥ ४८ ॥ इति घटिकापलानां ज्ञानम् ॥

पूर्वापाढानुराधाच ज्येष्ठाश्लेषाचरेवती ॥

विशाखाचयदामूर्ध्नि तदास्यादष्टमोदयः ॥४९॥

सूर्यभान्मौलिभं गण्यं सप्तहीनंच शेषकं ॥

द्विगुणंचद्विहीनंच गतारात्रिःस्फुटाभवेत् १५०

मस्तकेमृगशीर्षच मूलेचनवमोदयः ॥

अन्यदृशं यदा मूर्ध्नि तदास्यादष्टमोदयः ॥५१॥

टीका—अब रात्रिगत निर्णय कहते हैं—पूर्वापाढा, अनुराधा, ज्येष्ठा, आश्लेषा, रेवती, विशाखा इन नक्षत्रोंमेंसे कोई नक्षत्र माथेपर होय तो आठवें नक्षत्रपर उदय जानिये ॥४९॥



और जिस नक्षत्रका सूर्य होय तासों जो नक्षत्र शिरपर होय ताको गनि लीजै और सातका भाग दीजै. जो बचै सो द्विगुण करके उनमें द्वय घटाइये. सो रात्रि गत वा भोग्य जानिये ॥ १५० ॥ मृगशिर वा मूल माथेपर होय तौ नवम नक्षत्रको उदय जानिये और जो अन्य नक्षत्र माथेपर होय तौ आठवें नक्षत्रको उदय जानिये ॥ ५१ ॥ इति रात्रि-ज्ञानम्.

किंकुर्वृत्तिग्रहाःसर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पतिः ॥

मत्तमातंगयूथानां शतंहन्तिचकेसरी ॥ ५२ ॥

टीका—जिसके १।४।७।१० इन केंद्रस्थानमें बृहस्पति अकेले होय तौ और सकल ग्रह क्या कर सकते हैं ? जैसे अकेला सिंह सफ़ेदों हाथियोंका समूह नाश करता है ऐसे सो और ग्रहजनित सब अरिष्टनको नाश करे ॥ ५२ ॥

शुक्रोदशसहस्राणि बुधोदशशतानिच ॥

लक्षमेकंतुदोषाणां गुरुर्लभेव्यपोहति ॥ ५३ ॥

टीका—जो लग्नमें शुक्र हो तौ दशहजार दोषोंको हनै बुध हजार और गुरु लक्ष दोषोंको हनै ॥ ५३ ॥

सर्पाकारं लिखेच्चक्रं विवाहेचत्रिनाडिकम् ॥  
 अश्विनीप्रमुखं भवेत्त्वा साम्यं विचारयेत् ॥ ५४ ॥  
 एकनाडिस्थ नक्षत्रे दंपत्योर्मरणं ध्रुवं ॥  
 सेवायांच भवेद्धानिर्विवाहेत्वशुभं भवेत् ॥ ५५ ॥

टीका—सर्पका आकार लिखकर त्रिनाडी करके अश्विनी प्रमुख ३ नक्षत्र एक नाडिनमें राखिये, ऐसे ९ ठिकाने मुखसों लेकर पूंछतक २७ सत्ताईस नक्षत्र राखिये ॥ ५४ ॥ एक नाडीपै विवाह लग्नको नक्षत्र आवै तौ अशुभ है, सेवामें हानि होय ॥ ५५ ॥



परिघार्धव्यतीपातं वै धृतिं सकलं त्यजेत् ॥  
 विष्कंभे घटिकाः पंचशूले सप्तकीर्तिताः ॥ ५६ ॥  
 षड्गण्डे चातिगण्डे च नवव्याघातवज्रयोः ॥  
 एते तु नवयोगाश्च वज्र्यालमे सदा बुधैः ॥ ५७ ॥

टीका—जो नवयोग निषिद्ध तिनकी घड़ी पंडित जनोंने वर्जित किया है सो ऐसी क्रि-परिध घड़ी ३० व्यतीपात और वैधृति ये संपूर्ण त्याग करें. विष्कंभकी घटी ५, शूलकी ७ त्यागिये ॥ ५६ ॥ गंड तथा अतिगंडकी ६, व्याघातकी ९ और वज्रकी ९ घटी शुभकार्यमें वर्जित हैं. ॥ ५७ ॥

व्यतीपाते भवेन्मृत्युर्गंडांते मरणं ध्रुवं ॥

अभिदग्धो भवेद्ब्रजे रुजश्चैवापिगंडके ॥ ५८ ॥

बैधव्यवैधृतौ चैव विष्कंभे कामचारिणी ॥

वीर्यहीनातिगंडे च व्याघाते मृतवत्सका ॥

परिधे च भवेद्दासी मद्यमांसरतासदा ॥ ५९ ॥

टीका—व्यतीपातमें और गंडांतमें विवाह करे तो मृत्यु हो जावे वज्रमें आगसे जल जाय, गंडमें रोग होवे ॥ ५८ ॥ वैधृतिमें वैधव्य, विष्कंभमें कामातुर, अतिगंडमें धातुक्षय, व्याघातमें मृतवत्सका यानी पुत्र नहीं जीवे और परिधमें मद्य कन्या पराई दासी होकर मांसमदिरादिक सेना करे ॥ ५९ ॥ इति निषिद्धयोगः ॥

पट्टाकारं लिखेच्चक्रमष्टकोणसमन्वितं ॥  
 यस्मिन्नृक्षे भवेत्सूर्यस्तदाद्यं मध्यगत्रयं ॥ ६० ॥ ५  
 त्रयस्त्रयश्च सर्वत्र ततः पूर्वादितो लिखेत् ॥  
 नक्षत्रत्रितये मध्ये पक्षद्वयविनाशनम् ॥ ६१ ॥  
 पूर्वस्थाने भवेत्क्षमीर्धनधान्यसमागमः ॥  
 अग्निकोणे भवेन्मृत्युर्नारीकुलविनाशिनी ॥ ६२ ॥  
 दक्षिणे दुर्भगानारीदारिद्र्यं मृत्युमाप्नुयात् ॥  
 नैर्ऋत्ये पुत्रलाभश्च सुखं सौभाग्यमेव च ॥ ६३ ॥  
 पश्चिमे विधवा कन्या वायव्ये व्यभिचारिणी ॥  
 उत्तरे धनधान्यानि ऐशाने सुखसंपदौ ॥ ६४ ॥  
 मांगल्यं सर्वकार्येषु पट्टचक्रं विचारयेत् ॥  
 गर्गाचार्येण संप्रोक्तं सर्वसिद्धिप्रदायकम् ॥ ६५ ॥

टीका—सूर्यके नक्षत्रसे दिनके नक्षत्रको गनिये, पुनः  
 पट्टाकारचक्रके मध्य कोठामें ३ धरिये, ऐसे क्रमसे

पू. ३



प. ३

दिशाओंमें ३ तीन नक्षत्र आठों  
 दिशानमें धरिये. जिसदिशामें  
 दिनका नक्षत्र परे उसको फल  
 कहिये. मध्यमें होय तो उभय-  
 कुलकर नाश होय. पूर्वमें होय.  
 तो लक्ष्मी धनधान्य होय. अग्निमें

पृथु, वा कुलविनाशिनी स्त्री, दक्षिणमें दुर्भगा स्त्री, दारिद्र्य,  
 मृत्यु, नैऋत्यमें पुत्रलाभ, सौभाग्य, सुख; पश्चिममें वैधव्य  
 होय; वायव्यमें व्यभिचारिणी; उत्तरमें धन धान्य सुख और  
 ईशान्यमें सुख सेपदा ॥ १६५ ॥ इति श्रीकाशीनाथभट्टाचा-  
 र्यकृते शीघ्रवोधे विवाहप्रकरणं समाप्तम् ॥ १ ॥

## शीघ्रबोधद्वितीयप्रकरणम् ।

द्विरागमनमुद्धृतः

धातृगुग्मंहयोमैत्रं श्रुतियुग्मं करत्रयम् ॥

पुनर्वसुद्रयं पूषामूलं चाप्युत्तरात्रयं ॥ १ ॥

विषमेवत्सरेमासेमार्गेमेपेचफाल्गुने ॥

मकरेमिथुनेमीनेलश्रेकन्यातुलाधनुः ॥ २ ॥

भौमार्किवर्जितावारा गृह्यंतेचद्विरागमे ॥

पष्ठीरिक्ता द्वादशीच अमावास्याचवर्जिताः ॥ ३ ॥

टीका-रोहिणी, मृग, अश्वि. अनु. श्र. ध. ह. वि. स्वा. पु. पु. रे. मू. उत्तरात्रय इतने नक्षत्र द्विरागमनको श्रेष्ठ हैं. विवाहसे विषम वर्ष श्रेष्ठ है. अगहन, फाल्गुन वैशाख ये मास श्रेष्ठ हैं म. मि. क. तु. घ. ये लग्न श्रेष्ठ हैं और मंगल व शनिवार, पष्ठी, रिक्ता, द्वादशी, अमावास्या ये तिथि वर्जित हैं ॥ १ २ ॥ ३ ॥

अथ द्विरागमनाथेमुक्तनक्षत्रादिचक्रम्.

श्री.	मृ.	ऽधि	ऽसु	ध.	घ	ङ	चि.	स्वा.	नक्षत्र
पुन	पु	रे	घृ.	उत	उपा	उमा.	०	०	
१	३	५	७	९	११	१३	१५	१७	वपे
मार्गशीर्ष -			फाल्गुन			वैशाख			मास
मि	क	तु	ध.	म	मी.	०	०	०	लग्न
२	४	६	८	१०	१२	०	०	०	मार
१	१	३	५	७	९	१०	११	१३	तिथि

आर्द्रात्रयंभाद्रयुग्मं मृगःपूषाश्रुतिःकरः ॥

मूलत्रयंगुरौसूर्येभौमेरिक्तांविनातिथिः ॥ ४ ॥

आद्येद्रयेत्रयेमासेलमेकन्याज्ञपेस्थिरे ॥

चापे पुंसवनं कुर्यात्सीमंतं चाष्टमेतथा ॥ ५ ॥

शुभेत्रिकोणेकेंद्रस्थेपापेपष्ठेत्रिलाभके ॥

पुत्रकामःस्त्रियं गच्छेन्नरो युग्मासु रात्रिषु ॥ ६ ॥

पुनर्वसुदयेहस्तत्रयेमैत्रदयेमृगे ॥

मूलोत्तरा धनिष्ठाःस्युर्द्वादशैकादशेदिने ॥ ७ ॥

अन्यत्रापिशुभेभोगेवारेबुधशशांकयोः ॥

भानोर्गुरोःस्थिरेलमे बालनामकृतंशुभं ॥ ८ ॥

मैत्रत्रयेहरिद्वंद्वेविधिद्वन्द्वे दितिद्वये ॥

स्वातीहस्तोत्तरापाढापूपार्यमह्येषुच ॥ ९ ॥

सिंहत्रयेघटेलमेमासयोस्त्रिचतुर्थयोः ॥

यात्रातिथौचनिष्कास्यःशिशुर्नैवार्किभौमयोः ॥

टीका—आर्द्रा, पु. पु. पू. भा उ. भा. मृग. रे श्र. ह. मू. पू. उ. पा. इन नक्षत्रोंमें सीमंत कीजिये. और र. मं. गु. ये वार लीजिये. रिक्ता ४।९।१४ ये तिथि वर्जित है ॥४॥ और पुंसवनकर्मको १।२।३ मास और ६।१२।९।२।५।११।८ लग्न लीजै. मुख्य गर्भके मासमें पुंसवनकर्म, पूजा, दान, स्थिरता निमित्त कीजै. अरु सीमंत अष्टम ८ मासमें कीजै इति सीमंतपुसवने ॥ ५ ॥ जो त्रिकोण ५।९ केद्र १।४।७।१० इनमें सौम्य और ३।६।११ इनमें पापग्रह हों तौ जो स्त्री प्रसंग करै तौ संतान होवे परंतु रात्रिअध लग्न त्याज्य हैं इति गर्भाधानम् ॥ ६ ॥ पु. पु. ह. चि. स्वा अनु ज्ये मृ. मू. उ. घ. ये नक्षत्र और ११।१२ ये दिन, बु चं र. गु. वार और-२।५।८।११ लग्नमें बालकको नाम धारिये ॥ इति नाम करणं. ॥ ७ ॥ ८ ॥



१. ज्ये. मू. श्र. ध. रो. मृ. पु. पु. स्वा. ह. उषा, रे.  
 २. म. ये नक्षत्र, सिंह कन्या, कुंभ ये लग्न, तीसरे चोथे  
 ममें और यात्रा मुहूर्तमें कहे हुए तिथिपर पहिले कन्या  
 पुत्रको बाहिर निकालना परंतु भौम शनिवारवर्जित हैं यह  
 हर्त नक्षत्र दर्शकोभी लेना ॥ ९ ॥ १० ॥

पुनर्वसुद्रयंचित्राविशाखाभरणीद्वयम् ॥

मूलमाद्रामघाहेयाश्रवणोदशमस्तथा ॥ ११ ॥

सोमशुक्रबुधानारीप्रसूतास्नानकर्मणि ॥

हेयाप्रतिपदापठिनवमीत्रतियिक्षयम् ॥ १२ ॥

अथ कालनिष्कासनयंत्र.						
शु.	उष.	गु.	म.	रो.	गु.	
१	२	३	४	५	६	७

टीका -- पुनर्वस्विति ।

पुनर्वसु, पुष्य, चित्रा, वि.

क. मू. आ. म. श्र. ये

नक्षत्र प्रसूतिस्नानको

वर्जित. सोम, शुक्र बुध ये चार वर्जित और १।६।७।३।७

ये तिथि वर्जित हैं. उनमें प्रसूति स्नान न करिये ॥११॥१२॥

हस्तादिपंचकेऽश्विन्यांधानिष्ठायांचरेवती ॥

गुरौशुक्रेबुधेवारैधार्यस्त्रीभिर्नवांवरम् ॥ १३ ॥

लग्नेमीने च कन्यायामिथुनंचवृषःशुभः ॥

पुष्पेपुनर्वसुद्वंद्वेरोहिण्युत्तरभेषुच ॥ १४ ॥

टीका ह. वि.  
स्वा. वि. अनु. अ-  
श्वि. रे. ध. पु. रो.  
क्र. तीनों उत्तरा  
गुरु, शुक्र, बुध  
ये वार, मीन,

स्त्रीनववस्त्रधा. मुहूर्त.		पुरुषनववस्त्रधा. मुहूर्त.							
ह. वि.	स्वा. वि.	ह. वि.	स्वा. वि.	ऽनु.	पु.	पु.			
वि.	ऽनु	ज्ये.	अ	रो	उ. ३	ध	रे	बु.	वृ.
ध.	ऽश्वि	रे.	शु	१२	६	३	२	४	९
बु.	शु.	वृ.	ति.	धि.	३	८	१३	५	१०
पु.	१२	३	१५	ये.	ति.	धि.	शु	म.	
	६	२							

कन्या, मिथुन, वृष, ये लग्न स्त्रीको नवीन वस्त्र धारणके लिये शुभ जानिये ॥ १३ ॥ १४ ॥ इति नववस्त्रधारणम् ॥

रोहिण्युत्तररेवत्योर्मूलंस्वात्यनुराधयोः ॥

धनिष्ठाचत्रयःपूर्वाज्येष्ठायांभृगशीर्षके ॥ १५ ॥

- एतेयत्रागताभानिप्रसूतिस्थानकोविदैः ॥

वारं भौमार्कयोर्जीवेस्नानमुक्तंसदैवहि ॥ १६ ॥

मूलादितिद्वयंग्राह्यं श्रवणश्चमृगः करः ॥

जलवाप्यर्चनेहेयाः शुक्रमंदार्कभूमिजाः ॥ १७ ॥

टीका—अथ प्रसूति विशेषज्ञान और प्रसूतिकूपजलादि पूजन मुहूर्त वर्णन करते हैं. रोहिणी, तीनों उत्तरा, रेवती, मूल, स्वाती, अनुराधा, धनिष्ठा, पूर्वात्रय, ज्येष्ठा, मृगशिर ये चौदह नक्षत्र लीजिये. और भौम, रवि, गुरु, ये वार प्रसूतिस्थानको लिये. वश स्निग्धमिच्छानयत्नम्.

ए शुभ हैं ॥ ११ ॥

॥ १६ ॥ पुनः

तिस्नानमें मू.	पु.	पु.	५	६	७	८	९	१०	११	१२
श्र. मृ. इ. ये नक्षत्र	१३	१४	१५	०	ति.	घ	घ	०		

प्राह्य हैं. शुक्र, शनि, रवि, भौम ये वार त्यागिके प्रसूतिको रूपजलाशयपूजन उत्तम है ॥ १७ ॥

नवान्नभोजनेग्राह्यं वस्त्रे प्रोक्तमशेषतः ॥

वाराधिकौसूर्यसोमौनक्षत्रंश्रवणोमृगः ॥ १८ ॥

आद्यान्नप्राशनेपूर्वा सार्पाद्रावरुणो यमः ॥  
 नक्षत्राणिपरित्यज्यवारेभौमार्कनन्दने ॥ १९ ॥  
 द्वादशीसप्तमीरिक्तापर्वनंदास्तुवर्जिताः ॥  
 लग्नेषुचक्षुषोग्राह्योवृषकन्याचमन्मथः ॥ २० ॥  
 शुक्लपक्षेशुभयोगेसंग्राह्यः शुभचंद्रमाः ॥  
 मासेषष्ठाष्टमेपुंसां स्त्रियोमासिचपंचमे ॥ २१ ॥

टीका—बालकके नये अन्नका भोजन और नयावस्त्र धारणविषे शनि, रवि, ये वार वर्जित हैं. और श्रवण, भृगु-शिर, रवि, सोम, ये वस्त्रके सुहूर्तविषे नवान्न भोजनसे अ

अथ प्रथमाक्षप्राशनसुहूर्तयन्त्रम्							
अधि	ह	रो	वृ	पू	पु	म	उ
द	वि	स्वा	वि	शु	ज्ये	मू	उ
भ	ध	उ	रे	न	सू	च	बु
शु	वृ	वार	२	३	५	१०	१३
शि	२	३	६	१२	ल	शु	म
या	च	द	पू	र	पुर	वस	६
८	मा	सा	स्त्रि	म	५	मा	स

धिक है ॥ १८ ॥ बालकके अन्नप्राशनके सुहूर्त विषे इतने नक्षत्र वर्जित हैं. तीनों पूर्वा, आश्लेषा, आर्द्रा, शतभिषा व भरणी और भौम, शनि ये वार १२। ७।४।९।१४।३०।१।६।११वे व्यतीपात योग ये सब वर्जित हैं और मीन,

मिथुन, कन्या, ये लग्न शुभ हैं. यह शुक्लपक्षविषे उत्तम  
योगमें कीजै और शुभ चंद्रमा होई. छठवां व आठवां  
पुत्रके अन्नमाशनमें ग्राह्य है कन्याके पांचवें मासमें  
माशन कीजै ॥ १९ ॥ २० ॥ २१ ॥ इति नवात्र  
निष्ठहर्तः ॥

पुनर्वसुद्भयंज्येष्ठामृगश्रवणद्वयं ॥

हस्तत्रयंचरेवत्यांशुक्लपक्षोत्तरायणे ॥ २२ ॥

लग्नगोस्त्रीधनुः कुंभौमकरोमन्मथस्तथा ॥

सौम्येवारेशुभयोगेचूडाकर्मस्मृतंबुधैः ॥ २३ ॥

हस्तत्रयेहरिद्रंद्रे पूर्वाश्रमृगपंचके ॥

मूलेपौष्णेचनक्षत्रे बुधेऽर्के गुरुशुक्रयोः ॥ २४ ॥

टीका—पुनर्वस्विति । पु. पु. ज्ये. मृ. अ. ध. इ. वि.  
रे. ये नक्षत्र और शुक्लपक्ष उत्तरायण ॥ २२ ॥ और  
क. कुं. ध. म. मि. ये लग्न; चंद्र, बुध, शुक्रवार ये सर्वांग  
हैं. जन्ममास और रिक्ता ये मुंडन और भूषण धारणमें

चूडाकर्मसुहृत्तयंत्र.							
पु	पु.	ज्ये	म.	श्र.	ध.	ह.	०
वि.	स्वा	रे.	न.	शु	ह्र.	प	क्ष
११	१२	१	२	३	रा.	शि.	च
बु	बु.	शु	वा	२	६	९	१०
१०	३	उ.	म.	२	३	५	६
७	१०	१	१३	ति	वि	म.	प्रा
व्य	ती	पा	त.	व.	ज्ये	है	०

वर्जित हैं ॥ २३ ॥ इति चूडाकर्म ॥  
 हस्तेति । ह. चि. स्वा. श्र. ध.  
 पू. ३, म. आ. पु. पु. ५५०.  
 मू. रे. ये नक्षत्र और रवि,  
 बुध, गुरु, शुक्र, ये वार शुभ  
 हैं ॥ २४ ॥

देवोत्थानेमीनचापेलग्नेवर्षेचपंचमे ॥

विद्यारंभोऽत्रवर्ज्यश्चपठनाध्यायरिक्तकाः ॥२५॥

रिक्तायांचअमावस्यां प्रतिपच्चविवर्जयेत् ॥

बुधेदुवासरैर्मूर्खःशनौभौमेमृतिप्रदः ॥ २६ ॥

विद्यारंभे गुरुः श्रेष्ठो मध्यमौ भृगुभास्करौ ॥

बुधेदुचोपविद्यायां शनिभौमौपरित्यजेत् ॥२७॥

पूर्वापाठाश्विनीहस्तत्रये च श्रवणत्रये ॥

ज्येष्ठाभगे मृगेपुष्यरेवत्यां चोत्तरायणे ॥ २८ ॥

द्वितीयायां तृतीयायां पंचम्यां दशमीत्रयम् ॥

सूर्यशुक्रसुराचार्यवारे पक्षे तथासिते ॥ २९ ॥

लग्ने वृषे धनुःसिंहे कन्यामिथुनयोरपि ॥

व्रतबंधः शुभयोगे ब्रह्मक्षत्रविशांपतेः ॥ ३० ॥

पापो भौमः शनिः केतुः क्रूरो राहू रविस्तथा ॥

सौम्यः सोमो बुधश्चैव गुरुः शुक्रस्तथैव च ॥ ३१ ॥

टीका—देवेति. देवोत्थान कहिये कार्तिक शुक्ल ११ से आपाठ शुक्ल ११ तक और मीन, धनु, लग्न पांचमे

अथ व्रतबंध मुहूर्त यत्र									
पू	अश्वि	द्व	त्रि	स्वा	थ्र	ध	श	ज्ये	
मग	मृ	पु	रे	उ	उ	उ	मृ	बु	
मे	क	मी	वृ	मि	उ	त	रा	ये	
२	३	५	१०	११	१२	ति	शु	क	
प	क्ष	२	२	५	६	ल	म	शु	
मा	ह्य	ण	क्ष	त्री	के	स्प	शु	द्र	

वर्ष तक षष्ठी, अमावास्या, परिवा, चतुर्थी, नौमी, चौदशी, ये तिथि वर्जित हैं और चंद्रवारमें विद्यारंभ करें तौ मूर्ख होय शनि, भौममें मृत्यु होय

॥ २९ ॥ २६ ॥ विद्येति. विद्यारंभको गुरुवार श्रेष्ठ है. शुक्र, रवि मध्यम हैं बुध सोम, उपविद्याको कहे ह शनि, मंगल सर्वथा त्याज्य हैं. ॥ २७ ॥ इति विद्यारंभः ॥ यज्ञोपवीतमुहूर्त ॥ ॥ पू पा अश्विनी, हस्त, चित्रा,

स्वा. श्र. घ. शतभि. ज्येष्ठा. पूर्वाषा. पूष्य मृ. रे. उत्तरायण सूर्य, २।३।५।१०।११।१२. तिथि. रवि, शुक्र, गुरुवार, शुकृपक्ष और वृष, धनु, सिंह, कन्या, मिथुन कक्ष शुभयोग ये व्रतबंधको शुभ है. इनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनोंको कहा है. बड़े ग्रंथमें चारों वेदके ब्राह्मणके मुहूर्तके जुदे जुदे भेद है ॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ इतिय० मुहूर्त ॥

श्रुतित्रये दितिदंष्ट्रे मैत्रे हस्तत्रयोत्तरे ॥

भगे विधियुगे मूलें पूषाश्वे सौम्यवासरे ॥ ३२ ॥

द्विस्वभावेघटेलग्नैकर्णवेधःप्रशस्यते ॥

चैत्रपौषौ हरिस्वापंवर्षचयुगलंत्यजेत् ॥ ३३ ॥

टीका—श्रुति. श्र. घ. श. पु. पु. अ. ह. उ. इ, पू.

अथ कर्णवेधमुहूर्त यत्र

स्वा	उ	३	पू	फा	रो	मृ	श्र	रे	अभि
श्र	घ	श	पु	पु	अ	ह	वि.		
च	बु	बृ	शु	वा.	३	६	९		
१२	११	ल	वे	शा	ज्ये	भा	भा.		
ना	फा	फा	१	३	५	७	८		

रो. मृ. रे. अ. ये नक्षत्र और सौम्यवार शुभ हैं

॥ ३२ ॥ और मि. क. घ.

मी. कुं. शुभ हैं. चैत्र, पौष,

आषाढ शुकृ ११ से कार्तिक

शुकृ ११ लौं और सम

वर्ष त्याज्य है. ॥ ३३ ॥ इतिक०



पूर्वाषाढादितिद्वंद्वं विधियुग्मं हरित्रयं ॥  
 उत्तराफाल्गुनीहस्तत्रयं मूलंचरेवती ॥ ३४ ॥  
 मैत्राश्विनीचलमानिसिंहः कन्या घटो वृषः ।  
 मिथुनंमकरोग्राहंवास्तुकर्मणिकोविदैः ॥ ३५ ॥  
 श्रावणश्चाथवैशाखःकार्तिकःफाल्गुनस्तथा ।  
 मासेषु मार्गशीर्षश्च वास्तुकर्मणि शस्यते ॥३६॥  
 वज्रव्याघातगूलानि व्यतीपातश्च गंडकः ।  
 विष्कंभःपरिघोवज्र्योवारोभौमश्चभास्करः ॥३७॥

टीका—पूर्वाइति. पूर्वाषाढा, पु. पु. रो. मृ. श्र. ध. प्र. च.

अथवास्तुकर्मसुहृते यंत्रम्.								फा. ह. चि. स्वा. मूळ,
पू.	पु.	पु.	मृ.	प.	प.	श.	उ.	रे. अतुराषा, अ. ये नक्षत्र,
३	२	३	४	५	६	७	८	कन्या, कुं. ए. मि.
								ये लग्न, श्रावण, वै.
								ंरु. फा. मार्गशीर्ष ये
								मास, सब वास्तुकर्मेषु शुभ हैं. वज्र. व्या. च. व्य. गं.

वि. प. ये योग अरु मंगल, रविवार त्यागिके  
नेई दीजै ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८

आर्द्राशतभिषाऽश्लेषाविशाखाभरणीद्वयम् ।  
त्याज्याचद्रादशीरिक्ताषष्ठी चंद्रक्षयोऽष्टमी ॥३८॥  
प्रतिपच्चतिथिर्वारौत्याज्यौशनिकुजौतथा ॥  
देवमूर्तिप्रतिष्ठार्यास्थिरेलमोत्तरायणे ॥ ३९ ॥  
विशाखाभरणीहेयाश्लेषारूपाचमघातथा ॥  
अमावस्याचरिक्ताचवारेभौमेरवौतथा ॥ ४० ॥  
गृहप्रवेशोवैशाखेश्रावणेफाल्गुनेतथा ॥  
आश्विनेचस्थिरेलमेग्राह्यःपक्षोचुधैःसितः ॥४१॥

टीका—आर्द्रेति. अथवापीकूपतडागवागमुहूर्त. इन  
की प्रतिष्ठाभी ऐसेही जानिये. आ. श आश्लेषा. वि. भ  
कृ. ये नक्षत्र १२।४।९।१४।६।३०।८।१ ये तिथि, शनि भौम  
वार ये सब त्याज्य हैं. अरु वृष, सिंह, वृश्चिक,  
उत्तरायणका सूर्य इनमें वाप्यादिनिर्मितप्रतिष्ठा कीजै  
३९॥ इतिवापी देवालयदिम० अब गृहप्रवेश कहते हैं  
विशाखेति, वि. भ ऽश्ले. म. नक्षत्र ३०।४।९।१४ ये

टीका—अनुराधेति. अनुरा ज्ये. मू. पूवा. म  
पु. ह. स्वा. श्र. रो. रे. उत्तरात्रय ये नक्षत्र  
शुभ हैं, वृष. मी. क. ये लग्न लीजै. अरु रवि,  
मंगलवार. ६, ४, १४, ९, १२, २, ३० तिथि,

हलचक्रम्							
श	ज्ये	मू.	पू	म	पु	पु	ह
शा	श्र	रो	म	उ	रे	न	०
२	६	१२	८	२	५	१०	१५
३	३	३	५	३	५	३	२
हा	वु	दा	इ	हा	वु	दा	वु

योग ये त्याज्य हैं. अरु  
नक्षत्रसे दिनके नक्षत्र  
गनिये. सो क्रमसे हल  
समझ लीजै, प्रथमहानि,  
फिर वृद्धि, फिर हानि,  
फिर वृद्धि इस प्रकार

॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ इति हलचक्रसुहृत्तः ॥

अनुराधात्रयंहस्तमृगाश्वौ चादितिद्वयं ॥

यात्रायां रेवतीशस्तानिंद्यार्द्राभरणीद्वयम् ॥ ४५ ॥

मघोत्तराविशाखाचसर्पश्चान्येचमध्यमाः ॥

षष्ठीरिक्ताद्वादशीत्रपर्वाणिचविवर्जयेत् ॥ ४६ ॥

लग्नेकन्यामन्मथश्चमकरश्चतुलाधरः ॥

यात्राचंद्रबलेकार्याशकुनंचविचारयेत् ॥ ४७ ॥

शनौचंद्रेत्यजेत्पूर्वाक्षिणांचदिशंगुरौ ॥

सूर्येशुक्रेपश्चिमांचबुधेभौमेतथोत्तराम् ॥ ४८ ॥

टीका—अनुराधाइति. अनु. ज्ये मू. ह. मृ. अ.  
 ह. पु. रे. ये. नक्षत्र. शुभ है; आर्द्रा, भ. कृ. ये बर्ज्य  
 हैं और मघादि मध्यम है. ४१६।९।१२।१४।३०।१५  
 तिथि और व्यतीपात वर्जित हैं. कन्या, मि. तु. मकर  
 ये लग्न शुभ हैं. अरु चंद्रबल, शुकुन विचार यात्रा कीजै  
 ॥४५॥४६॥४७॥ इति यात्रा ॥ अथदिक्शुल्कम्. शनि,  
 सोम पूर्वको त्यागिये. गुरु दक्षिण; रवि, शुक पश्चिम;  
 मंगल, बुध उत्तरको त्यागिये ॥ ४८ ॥

सर्वदिग्गमने हस्तः पूषाश्चौ श्रवणो मृगः ॥

सर्वसिद्धिकरःपुण्यो विद्यायां च गुरुर्यथा ॥४९॥

प्रतिपत्सु नवम्यां च पूर्वस्यां दिशि यो

गिनी ॥ अमिकोणे तृतीयायामेकादश्यांतु सा

स्मृता ॥ ५० ॥ त्रयोदश्यां च पंचम्यांदक्षिण-

स्यां शिवप्रिया ॥ द्वादश्यांचचतुर्थ्यांच नैर्ऋत्ये

कोणगामिनी ॥ ५१ ॥

पश्चिमायांचयोगिनी ॥ पूर्णिमायांच

वायुकोणेतुपार्वती ॥ ५२ ॥ दशम्यांच

यामुत्तरस्यां शिवा वसेत् ॥ ईशान्यां

म्यांयोगिनीसमुदाहृता ॥ ५३ ॥ ये

दाधामेष्टेवांछितदायि

नी ॥ दक्षिणेधनहंत्रीच

संमुखेमरणप्रदा ॥ ५४ ॥

मासस्यप्रतिपच्छेष्टादि-

तीयाकामकारिणी ॥

३०/७	पूर्व १।६	३१/७
उ. ४ २।१०	योगिनी	द. ५।१३
७।१५ वा.	६।१४ पश्चिम	१२।४ नै.

आरोग्यदातृतीयाचचतुर्थीकलहप्रदा ॥ ५५

पंचमी च श्रियायुक्ता षष्ठी कलहकारिणी

भक्षपानसमायुक्ता सप्तमी सुखदासदा ॥ ५६

अष्टमीव्याधिदा नित्यं नवमीमृत्युदास्मृता

दशमीभूरिलाभा स्याच्चैमदैकादशतिथा ॥ ५७

द्वादशी प्राणसंदेहा सर्वसिद्धा त्रयोदशी ॥

शुक्लावायदिवा कृष्णा वर्जनीया चतुर्दशी ॥ ५८ ॥

पौर्णिमायाममायां च प्रस्थानं नैव कारयेत् ॥

तिथिक्षये च मासांते ग्रहणांते दिनत्रयम् ॥ ५९ ॥

टीका—सर्वेति. अब सर्व दिशानकी यात्राके नक्षत्र सर्व दिग्द्वारा वर्णित हैं. द. रे. अ. श्र. मृ. पु. ये नक्षत्र सब शुभ हैं. और पुष्य अधिक सिद्धिप्रद है. जैसे विद्याविषे बृहस्पति ॥ ४९ ॥ सर्वदिग्गमने नक्षत्राणि ॥ प्रतिपदिति. परवा नन्दीको योगिनी पूर्वमें बसती है. अग्ने ३।११ दक्षिणे ५।१३ नैर्ऋते १२।४ पश्चिमे १४।६ वायव्ये १५।७ उत्तरे १०।२ ईशाने ३०।८ ऐसे योगिनीवास कहिये ॥ ५०—५३ ॥ यात्रा इति ॥ यात्राको वामें योगिनी सुखप्रद है. पीछे वांछाप्रद है. दाहिने हानिप्रद है. सन्मुख मृत्युप्रद है ॥ ५४ ॥ इति यात्रायां योगिनीफलम् ॥ मासस्येति ॥ मासारंभमें १ श्रेष्ठ है. २ कामकारिणी. ३ आरोग्यप्रद. ४ कलहप्रद. ५ श्रीप्रद. ६ कलहप्रिय ७ भोजनप्रद. ८ व्याधिप्रद. ९ मृत्युप्रद. १० लाभप्रद. ११ स्वर्गप्रद ॥ ५५ ॥ ५६ ॥




चंद्रश्चरतिपूर्वादिक्रमेणदिक्चतुष्टयं ॥

मेषादिकेषुयात्रायांसंमुखेदक्षिणेशुभः ॥ ६३ ॥

मेषेचसिंहेधनपूर्वभागे वृषेचकन्यामकरेचयाम्ये  
युग्मेतुलाकुंभसुपश्चिमायां कर्कालिमीनेदिशि  
चोत्तरायाम् ॥ ६४ ॥

टीका—अथ राहुचौघटिका. अष्टास्विति आठों दिशामें राहु जिस प्रकार दिनरात्रि विषे चलता है सो चक्रनमें विचारि लीजै ॥ ६० ॥ यात्राविषे राहु दक्षिणशुभ है; योगिनी वाम शुभ है. अरु पीछे दोनों शुभ हैं. चंद्रमा सन्मुख वा दक्षिण शुभ है. ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ अब चंद्रमा जिस-

प्रकार चारों दिशनोंमें चलै सो कहिये. चंद्रइति. मेषादि सर्व राशिनको यात्राके समय सन्मुख अरु दाहिना चंद्रमा निरतर शुभ है. ॥ ६३ ॥ मेषइति, मेष, सिंह, धनको चंद्रमा पूर्वमें रहता है. वृष कन्या मकरको





दक्षिणमें मिथुन और तुला, कुंभको पश्चिम, कर्क  
मीनको उत्तर ऐसे चारों दिशाको आवर्त  
॥ ६४ ॥ इति चंद्रमावासचक्रम् ।

संमुखे अर्थलाभाय पृष्ठेचंद्रेधनक्षयः ॥

दक्षिणे सुखसंपत्तिर्वामे तु मरणंभवेत् ॥ ६५ ॥

टीका—संमुखेइति सन्मुख चंद्रमासे अर्थलाभ होय.  
पीछे धनहानि दहिने संपत्ति करै, वामे मृत्यु करै ॥ ६५ ॥

यामयुग्मेचरात्रौच वामेपूर्वादिगोरविः ॥

यात्राऽस्मिन्दक्षिणेवामेप्रवेशेपृष्ठकेद्वयम् ॥ ६६ ॥

टीका—यामेति. प्रहर रात्री रहे तवसे प्रहर दिन चदे-  
तक सूर्य पूर्वमें बसते हैं फिर २ प्रहर दिन दक्षिणमें; फिर  
प्रहर दिन रहे तवसे प्रहर रात्रीतक पश्चिममें फिर २  
प्रहर उत्तरमें सो यात्रा विषे दहिने बांये शुभ है प्रवे-  
शमें संमुख पीछे शुभ है ॥ ६६ ॥ इति रविविचारः ॥

मनुभानुदिशासर्परसवेदाश्विनः क्रमात् ॥

रविवारान्मुहूर्तोयंकुलिकोनिंदितः शुभे ॥ ६७ ॥

गतानाञ्चोद्विगुणिताः पंचभिश्चविभाजिताः ॥  
 शेषत्याज्यं युतश्चैकः सप्तशेषप्रशंसितं ॥ ६८ ॥  
 कालहोरेति विख्यातं सौम्ये सौम्यफलप्रदा ॥  
 सूर्यशुक्रबुधश्चंद्रो मंदजीवकुजाः क्रमात् ॥ ६९ ॥  
 यो वारो यत्र दिवसे तदादिगणयेत् क्रमात् ॥  
 शुभग्रहस्य सुखदो मुहूर्तोऽनिष्टदुःखदः ॥ ७० ॥

टीका—अब कुलिक योग कहते हैं. रविवारको १४ हो मुहूर्त कुलिक है. सोमको १२, भौमको १०, बुधको ८, गुरुको ६, शुकको ४, शनिको २, कहिये सो शुभकार्यमें कुलिकयोगवर्जित है. मुहूर्त दो घटिका प्रमाण है ॥ ६७ ॥ गताइति. अब एक वारमें सातों वार भोग करें सो काल होरा कहिये. यथा उदाहरण—सूर्योदयसे गतघटि द्विगुणित करि पांचको भाग दीजै. तिसमें वचे शेषको घटाइके एक बढाई दीजै. फेर सातको भाग दीजै, शेष वचे सो होरा दिवस कहिये. १ वचे तो रवि, २ चंद्र, ३ मंगल, ४ बुध, ५ गुरु, ६ शुक, ७ शनि, सो क्रमसे शुक, बुध, चंद्र, शनि, गुरु, मंगल, या प्रहार होरा

दिवस प्रथम लिजै. सूर्यसे गनिये २ घटि २९ पल प्रवह  
 दिनको ४।५८ दूसरे ७।२७ तीसरे ९।५६ चौथे १२।२५  
 पंचम १४।५४ छ १७।२४ सातवां ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ ७० ॥  
 इति गृह्यते देवताकालहोराप्रकारः ॥

तिथिवारंचनक्षत्रं नामाक्षरसमन्वितम् ॥

द्वित्रिचतुर्भिर्गुणितं रससप्ताष्टभाजितम् ॥७१ ॥

आदिशून्ये भवेद्धानिर्मध्यशून्ये रिपोर्भयम् ॥

अंत्यशून्ये भवेन्मृत्युः सर्वाकेविजयी भवेत् ॥७२ ॥

शशिप्रवाहे गमनादिशस्तं सूर्यप्रवाहेन

हिकिंचनापि ॥ प्रष्टुर्जयः स्याद्ब्रह्मान

भागोरित्केच भागे विफलं समस्तम् ॥ ७३ ॥

दक्षिणे दुःखदः शुक्रः संमुखे हंतिलोचनम् ॥

वामे पृष्ठेशु भोनित्यं रोधयेच्चास्तगः शुभम् ॥७४ ॥

पुष्यं भाद्रपदा युग्मं मैत्रश्रवणमाश्विनी ॥

हस्तोत्तरामृगस्वाती तथा श्लेषाचरेवती ॥ ७५ ॥

ग्राह्याणि भानि चैतानि क्रयविक्रयणे बुधैः ॥  
चंद्रभार्गवजीवाश्च वाराः शक्रुनमुत्तमम् ॥ ७६ ॥

टीका—अथ युद्धे वादे सर्वांकचक्रम् ॥ तिथि, वार, नक्षत्र और नामके अक्षर सब जोरिके पिंड कीजै ताको दूनो करि ६ को भाग दीजै. फिरि वा पिंडोंको चाँगुनो करके आठको भाग दीजै जो प्रथम शून्य आवै तो हानि होवे. मध्यम शून्यमें शत्रुभय. अंतशून्यमें मृत्यु हो और जो तीनोंमें शेष अंक बचै तो विजय होय ॥ इति सर्वांकमुहूर्त चक्रम् ॥७१॥७२॥ जो चंद्र-स्वर बायें चले तौ यात्रा कीजै. सूर्यस्वर दाहिनेमें अशुभ होनेसे न कीजै और गणिकपृच्छको एक स्वर होवे तौ सर्वकार्य सिद्धि है. जो सुपुष्णा चले तौ सर्वकार्य निष्फल हो ॥ ७३ ॥ जो यात्रामें शुक्र दाहिने हो तौ दुःख देता है. सन्मुख नेत्रपीटा करै और बायें पछि परे तौ शुभ है ॥ इतिशुक्रविचारः ॥ ७४ ॥  
पुष्य, पूर्वाभा. उत्तरामा. अनु. श्र. अश्वि. हस्त, उत्तराप्रय, मृ. स्वा. ज्ञे. रे. ये नक्षत्र भय विक्रय-कार्यको शुभ हैं. यह पंडित बरते हैं. अथ चंद्र, शुक्र,

बृहस्पति ये चार अरु, शुभ शकुन देखिके गार्ह,  
 अम्बादि कीजै अरु बेचिये ॥ ७५ ॥ ७६ ॥  
 क्रयविक्रयचक्रम् ॥

धनिष्ठापंचके त्याज्यस्तृणकाष्ठादिसंग्रहः ॥

त्याज्या दक्षिणदिग्यात्रा गृहाणां छादनं ।

॥७७॥तैलाभ्यंगेरवौतापःसोमेशोभाकुजेमृति

बुधेधनंगुरौहानिः शुक्रेदुःखंशनौसुखम् ॥७८

रवौपुष्पंशनौदूर्वाभौमवारेचमृत्तिका ॥ गोमर्ष

शुक्रवारे चतैलाभ्यंगेनदोषभाक् ॥७९॥ हस्तत्र

येब्रह्मयुगेमघायांपुष्येधनिष्ठाश्रवणोत्तरासु ॥

मूलानुराधाहयरेवतीच स्थिरेपुलमेपु वधूप्रवेशः

॥ ८० ॥ आश्लेषाद्वितयंस्वातीरोहिणीच पुन

र्वसु ॥ रोगीस्नानेरेवतीचवर्जयेदुत्तरात्रयम् ॥८१॥

रिक्तातिथौ चरे लमे वारे च रविभौमयोः ॥

स्नानंचरोगिणांप्रोक्तंद्विजभोजनसंयुतम् ॥८२॥

टीका—धनिष्ठादि रेवतीतक ये कार्य न कीजै.

भाष्यादिसंचय, दक्षिणदिशाकी यात्रा, गृहछावनी,  
 दाह, शय्याका वितरण. इतिघनिष्ठापंचकम् ॥ ७७ ॥  
 विचारका तैल लगावै तौ ताप होय; चंद्रको शोभा,  
 मंगलको मृत्यु, बुधको धन, गुरुको हानि, शुक्रको  
 सुख, शनिको सुख होय ॥ ७८ ॥ और जो अवश्य  
 लगाना होय तौ रविको पुष्प, शनिको दूर्वा, मंगलको  
 मृत्तिका, शुक्रको गोवरसंयुक्त लगावै तौ दोष न होय ॥  
 इतितैलाभ्यंगः ॥ ७९ ॥ ह. चि. स्वा. रो. मृ. म. पुष्प,  
 प. श्र. उ. मृ. अनु. अ. रे. इन नक्षत्रोंमें और वृ. सिं.  
 कुं. इन लग्नमें बधूमवेश कीजै ॥ ८० ॥ इतिबधूमवेश ॥  
 अब रोगीस्नानमें वर्जित ग्राह्य कहते हैं. आश्लेषा, म.  
 स्वा. रो. पुन. रे. तीनों उत्तरा इन नक्षत्रोंमें  
 रोगी स्नान न कीजै और ४।९।१४ ये तिथि मेष. क.  
 तु. मकर, ये लग्न रवि मंगल ये वार ६।८।१२ ये चंद्र-  
 मासे रोगी स्नान करे और ग्राह्यभोजन इत्यादि करै  
 ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ इतिरोगीस्नानविचारः ॥

आनन्दः कालदंडश्च घृम्राक्षश्च प्रजापतिः ॥  
 सौम्यो ध्वांक्षो ध्वजश्चापि श्रीवत्सो वज्रमुद्ररौ  
 छत्रमित्रं मानसाख्यं पद्माख्यं लुंबकस्तथा ॥  
 उत्पातमृत्युकाणाश्चसिद्धिश्चाथशुभोऽमृतः ८४  
 मुशलंगदमातंगराक्षसाश्च चरः स्थिरः ॥  
 वर्द्धमानश्चविज्ञेयाअष्टाविंशतिरित्यपि ॥ ८५ ॥  
 फलंतुनामसदृशं योगा दैवज्ञभापिताः ॥  
 अश्विनीरविवारेच योगो ह्यानंदसंज्ञकः ॥ ८६ ॥  
 मृगशीर्षेशीतरश्मिः श्लेषायां क्षित्तिनंदनः ॥  
 बुधे हस्तोऽनुराधाच देवराजपुरोहिते ॥८७॥  
 भार्गवेचोत्तराषाढा शनौ शतभिषा यदा ॥  
 तदानंदाख्ययोगः स्यात्कालदंडादयः क्रमात् ८८

टीका—दैवज्ञ ( ज्योतिषी ) जो हैं सो इन योगनके  
 फल नामानुसार कहते हैं. अश्विनी- रविओ आनंद योग

कहिये, इसीभांति कालदंडादि जानिये ॥ ८३-८८॥  
 प्रतिआनंदादियोगाः ॥

सु.	अ.	म.	कु.	रो.	गु.	आ.	पु.	पु.	उल्ले.	म.	पु.	उ.	ह.	वि.
च.	अ	आ	ग	ग	ग	ग	ग	ग	ग	ग	ग	ग	ग	ग
ख.														
ग.														
घ.														
ङ.														
च.														
योग														
	नं.	उ.			म्य.			वत्स				न.	नस	

म म्वा वि प्त ज्ये पु व न ल म म घ म प उ वि

हस्तः सूर्यमृगः सोमवारैर्भौमे तथाऽश्विनी ॥  
 बुधे मैत्रं गुरौ पुष्यं रेवती भृगुनंदने ॥ ८९ ॥



रोहिणीरविपुत्रे च सर्वसिद्धिप्रदायकः ॥  
अयंचामृतसिद्धिः स्याद्योगः प्रोक्तः पुरातनैः ॥९

टीका—अब अमृतसिद्धियोग कहते हैं. हस्त रवि-  
वार परै तौ अमृतसिद्धि-  
योग कहिये. मृ. सो, अ.  
मं., ऽनु. बु., पुष्य गु., रे. शु.  
रो श. ॥ ८९ ॥ ९० ॥ इत्य  
मृतसिद्धियोगाः ॥

अथ अमृतसिद्धियोगयंत्रम्							
र.	ब.	म	बु	गु	शु	वा	वार.
ह	मृ	ऽश्वि	ऽनु	पुष्य	रे	रो	नक्ष
ऽमृ	ऽमृ	ऽमृ	ऽमृ	ऽमृ	ऽमृ	ऽमृ	योग

मघादित्ये विशाखेंदौ भौमेचार्द्राऽनले गुरौ ॥  
बुधेमूलं विधिः शुक्रेयमघंटः शनौकरः ॥ ९१ ॥

टीका—मघारविको यमघंट योग कहिये. वि. सोम; आ.

अथ यमघंटयोगयंत्रम्							
सु.	ब	मं	बु	गु	शु.	वा	वार
म	दि	भा.	घृ.	कृ	रो	ह	नक्ष

मंगल; मृ. बुध; कृ.  
शुक्र; रो. शुक्र. और  
शनिनी हस्त होय

यमघंट योग कहिये, सो शुभकार्यमें वर्जित है ॥ ९१ ॥

नंदासूर्ये च भौमे च भद्राभार्गवचंद्रयोः ॥

बुधे जयागुरौरिक्ताशनौ पूर्णा च मृत्युदा ॥ ९२ ॥

टीका—रवि भौममें नंदा, शुक्रसोममें भद्रा, बुधमें जया,

मृत्युयोगचक्रम्.				
रवि.	शुक्र.	बुध.	शनि.	
भौम.	चंद्र.	०	०	वार.
१	२	३	५	
६	७	८	१०	तिथि
११	१२	१३	१५	

गुरुमें रिक्ता और शनिमें पूर्णा ये मृत्युयोग शुभकार्यको वर्जित हैं ॥ ९२ ॥

तिथ्येकेन समायुक्तो वाराको यदि जायते ॥

त्रयोदशांकः क्रकचयोगः प्रोक्तः पुरातनैः ॥ ९३ ॥

अथ क्रकचयोगयंत्रम्.							
सु.	च.	मे.	बु.	वृ.	शु.	श.	वार
११	११	१०	९	८	७	६	तिथि

टीका—क्रकच योग जो है सो तिथि और वार की संख्या १३ होनेसे

होता है जैसा कि सूर्य १ और द्वादशी १२ गिनकर तेरह होते हैं सो यंत्रमें हैं समझलेना ॥ ९३ ॥ इति क्रकचयोग ॥

अंधाक्षश्चिपिटाक्षश्चकाणाक्षो दिव्यलोचनः ॥

गणयेद्रोहिणीपूर्वसप्तवारमनुक्रमात् ॥ ९४ ॥

अंधेचलभतेशीघ्रमंदेचैवदिनत्रयम् ॥

काणक्षेमासमेकंतु सुनेत्रेनैवलभ्यते ॥९५॥

टीका—अब अंधाक्ष, चिपिटाक्ष, काणाक्ष और सु-

अथ अंधादिनक्षत्रायंत्रम्.

रो.	पु	उ.	वि.	पु.	घ.	रे	भ.
मृ.	श्ले	इ.	ऽतु	उ.	श.	भ	मद.
आ.	म	वि.	ज्ये	भ.	पु	भ	काण.
पु	पु	स्वा	दू	भ	उ.	कृ.	सुलो.

लोचन ये चारि भातिनक्षत्र  
नष्टवस्तुमें विचारिये सो  
रोहिणी आदि सात बार  
गनिये. रो. अंध, मृः मंद,  
आ. काण; पु. सुलोचन.

फिरि या रीतिसें समझ लीजै ॥ ९४ ॥ अंध नक्षत्रमें  
वस्तु नष्ट हो तौ शीघ्र मिले. और जो चिपिटाक्ष  
( मंददृष्टिवाले ) में जाइ तो तनिदिनमें मिलै. जो काणन-  
क्षत्रमें जाइ तौ माहिने भरमें मिलै और जो सुलोचनमें  
जाइ तौ फिर न आवै ॥ ९५ ॥

पुनर्वसुमृगश्रार्द्रा ज्येष्ठाभैत्रंकरस्तथा ॥

पूर्वाषाढोत्तराषाढेमूलंद्रक्षिणचारिणः ॥ ९६ ॥

कृत्तिकारोहिणीपुष्यश्चित्राश्लेषाचरेवती ॥

शतंधनिष्ठाश्रवणोनवमध्यमचारिणः ॥९७॥

अश्विनीभरणीस्वातीविशाखाफाल्गुनीद्वयम् ।

मघा भाद्रपदायुगमंनवचोत्तरचारिणः॥ ९८ ॥

टीका-पुन. मृ. आ. ज्ये. अनु. ह. पू-पा. उ-पा. मृ. ये नक्षत्र पूर्वसे दक्षिणचारी हैं; क. रो. पु. वि. ऽश्ले. रे. श. घ. थ. ये पूर्वसे मध्यको अर्थात् आकाशको चक्रे हैं. और अश्वि. भ. स्वा. वि. पू. फा. उ-फा. म. पु-भा. उ. भा. ये पूर्वसे उत्तरचारी हैं ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ ९८ ॥

अथ नक्षत्रप्रचारयंत्रम् ।									
पु.	मृ.	भा.	ज्ये.	अनु.	ह.	पू.	उ.	मृ.	दक्षिण
क.	रो.	पु.	वि.	ऽश्ले.	रे.	घ.	थ.	मध्यम.	
ऽश्वि.	म	स्वा.	वि	पू	उ.	म	पू.	उभा	उत्तर.


अमर्तीन्द्रदिशोवत्सोमासानांचात्रिकांत्रिकं ॥

आदौभाद्रपदंकृत्वासव्यतोदिक्चतुष्टयम् ॥९९॥

यात्राविवादसंबन्धेद्वारेचगृहहर्म्ययोः ॥

भूपतेर्मिलने युद्धे वत्सस्याभिमुखं त्यजेत् ॥

टीका—पूर्वआदि चारों दिशाविषे वत्सरूप तीन



तीन मास चौथी चौथी दिशामें सब्यमार्गसे चलके भ्रमते हैं. भा. आ. का. पूर्वमें, मा पौ. माघ दक्षिणमें, फा. चै. वै. पश्चिममें, और उये. आ. श्रा. उत्तरमें, सो यात्रा विवादमंदपं,

शहद्वार, राजासे मिलना और युद्ध ये कार्य बाणपीछे वत्सयोग देखकर कीजै ॥ ९९ ॥ ॥ १०० ॥ इति वत्सयोगधर्मम् ॥

त्रयंयमेश्वेचाशौषड्विधौपंचमृगेत्रयम् ॥

एकमाद्राचनक्षत्रे चत्वारि च पुनर्वसौ ॥ १ ॥

पुष्येत्रयरसाः सर्पमघार्याचैवपंचकम् ॥ द्वयं

द्वयंफाल्गुनयोर्ज्ञेयं हस्ते तु पंचकम् ॥ २ ॥

चित्रास्वात्योरेकेमेकंचतुष्कंचद्विद्वैवते ॥

त्रयंस्यादनुराधायांज्येष्ठायांचत्रयंस्मृतं ॥ ३ ॥

मूलैरुद्राश्चतुष्कंचपूर्वापादेतथोत्तरे ॥

त्रयंचाभिजितः प्रोक्तं श्रवणे च त्रयं तथा ॥४॥

धनिष्ठायांचचत्वारःशतंशतभिपासुच ॥

द्वयंद्वयंभाद्रयोश्चद्वाविंशदपि चांत्यके ॥ ५ ॥

टीका—अ. ३ म. ३ कृ. ६ रो. ५ मृ. ३ आ. १ पु. ३ पु. ४  
आश्ले. ६ म. ५ पू.फा २ उ. फा २ ह. ५ वि. १ स्वा. १ वि. ४  
ऽनु. ३ ष्ये. ३ मू. ११ पू-पा. ४ उ-पा- ४ ऽभि. ३ अ-३ व.  
४ श. १०० पू-भा. २ उ-भा. २ रे २५ या प्रकार तारका  
संयुक्त नक्षत्र उदय होते हैं ॥ १०१—१०५ ॥

अथ अठारहस १८ नक्षत्रतारासंख्यायंत्रम्.

अ.	म.	कृ.	रो.	मृ.	आ.	पु	पु	आ	म.	पू.	उ.	ह	वि.
३	२	६	५	३	१	४	३	६	५	२	२	५	१
स्वा	वि	ऽनु	ज्ये	मू.	पू.	उ.	भा.	ध	ध.	छ.	पू.	उ.	रे.
१	४	३	३	११	४	४	३	३	४	१००	२	३	३३

लग्नेष्टमेव्ययेसूर्येक्षेत्रपालस्यदूषणम् ॥

आकाशदेव्याश्चंद्रेतुलग्नेषष्टेऽष्टमेव्यये ॥ ६ ॥

द्वादशेदशमेभौमेडाकिनीदूषणंस्मृतम् ॥

वनदेव्युद्धवोदोषः सप्तमेद्वादशेबुधे ॥ ७ ॥

जामित्रेद्वादशेजीवेदेवदोषोनिगद्यते ॥

अस्तेव्ययेदैत्यपूज्येजलदेव्याश्चदूषणम् ॥ ८ ॥

शनैश्चरेव्ययेचास्तेदोषः स्यादामवातजः ॥

यामित्रेद्वादशेराहुःकुगतिज्ञातिदूषणम् ॥ ९ ॥

टीका—जो सूर्य ८।१२ अथवा १ लग्ने होवे तो क्षेत्रपालको दोष जानिये. जब शरीरमें कुछ व्यथा हो तो क्षेत्रपालकी पूजा कीज. जो चंद्रमा १।६।८।१२। हो तो आकाशदेवीको दोष जानिये. उसकी पूजा माता करै तो कष्ट दूर हों ॥ ६ ॥ और जो जन्मकालविषे बृगु १०।१२ होइ तो डाकिनी दोष कहिये. और जो बुध ७।१२ हो तो वनदेवीदोष कहिये ॥ ७ ॥ जो बृहस्पति १२।७ हो तो देवदोष जानिये. जो शुक्र ७।१२ होइ तो जलस्थदेवी दोष जानिये. ॥ ८ ॥ जो शनैश्चर

११।७ होर तौ आमवात दोष करै और जो राह  
७।१२ हो तौ कुमातिजन्य स्वजातीसे दोष उत्पत्ति  
हो जाय ॥ ९ ॥

पितृदोषो भवेन्मेपेक्षुधाहानिर्विवर्णता ॥

वृषेगगनदेव्यास्तुज्वरोदुःस्वप्नमक्षिरुक् ॥ १० ॥

मिथुनेचमहामायादोषोवेलाज्वरोऽनिलः ॥

कंकचशाकिनीदोषोहास्यरोदनमौनतः ॥ ११ ॥

सिंहेजलेप्रेतदोषोदिवाशीतज्वरोऽरुचिः ॥

अहदोषश्चकन्यायांक्रोघालस्योतथारुचिः ॥ १२ ॥

क्षेत्रपालभवोदोषस्तूलेसंतानपीडनं ॥

वृश्चिकेनागदोषश्चज्वालादेहेकुञ्चुद्धिता ॥ १३ ॥

चापेदेहेभवेद्दोषोज्वरःशोकोदरव्यथा ॥

मकरेचंडिकादोषोदेहभंगोज्वराऽनिलः ॥ १४ ॥

मलिनप्रेतदोषश्चकुंभेदेहस्यपीडनं ॥

मीनेचापैंगनादोषोज्वरोजंजालदर्शनम् ॥ १५ ॥



व्ययेधर्मेतृतीयेचषष्ठे पापग्रहोयदा ॥

हतोगरेजलेशस्त्रेतस्यदोषःकुलोद्भवः ॥ १६ ॥

टीका—जो मेष लग्नमें जन्म हो ऐसे ग्रह परें तो पितृदोष होवे, भूख न लगे और कुरूप होवे. जो वृषमें जन्म हो तो आकाशदेवीका दोष करे. ज्वर हो, भयानक स्वप्न देखै, नेत्र पीडा पावे ॥ १० ॥ मिथुनमें हो तो महामाया दोष करे. सामयिक ज्वर आवै. अनिल भय होई. जो कर्कमें हो तो शाकिनी दोषसे रोवे, हँसे, कबहुं मूक हो रहै ॥ ११ ॥ जो सिंहमें हो तो मृत बाधा करे, दिनमें ज्वर आवै, जो कन्यामें हो तो दुष्ट ग्रहदोषसे शारीरिक बाधा, क्रोध, आलस्य, अरुचि हो ॥ १२ ॥ जो तुलामें जन्म हो तो क्षेत्रपाल दोष करे. संतानकी पीडा करे. जो वृश्चिकमें हो तो सर्पसे भय, देहपीडा, ज्वरको उपजावै; कुबुद्धि होवे ॥ १३ ॥ धनमें होइ तो देहदोषज्वर, शोक, पेटपीडा शून्य होवे, और जो मकर लग्नमें जन्म होवे तो चाँदिकाको दोष होवे, अंगभंग हो और ज्वर हो ॥ १४ ॥ कुंभमें

जो तो भेत दोष करे, मलीन रहे, देहपीडा हो तो योगिनी दोष महा ज्वर करे ॥ १५ ॥ जो १२।१।३।६। इनमें पापग्रह होय तो विष-जक शस्त्रसे मृत्यु पावे वा सगोत्री घात करे ॥ १६ ॥

शनौ जले कुजे शस्त्रे युते सूर्यः स्वबंधुजः ॥  
 राहौ विक्रमतो नष्टः शांतिपूजाद्विजार्चनैः ॥ १७ ॥  
 स्वक्षेत्रे गोत्रदोषोपि परक्षेत्रे परोद्भवः ॥  
 शत्रुक्षेत्रेश्चुदोषो मित्रे स्वजनसंभवः ॥ १८ ॥

टीका—जो इन स्थानविषे शनि हो तो जलमें डूबजावे; मंगल हो तो हथियारसे मरे, सूर्य हो तो निजबंधुवालेके हाथसे वा विषसे मरे; और राहु हो तो कुत्सित प्रकृति उपजे, चोरी और कुमार्गगामी होवे, जो ऐसे ग्रह हो तो ब्राह्मणकी पूजा करनेसे शांति होजाय, जो स्वक्षेत्री ग्रह परे तो गोत्रसे दोष हो और जो परक्षेत्री दूषित ग्रह परे तो परमसुखजनित पीडा हो, जो शत्रुक्षेत्री हो तो शत्रुमें श्रेष्ठ पावे और मित्रक्षेत्री हो तो मित्रनसे श्रेष्ठ पावे ॥ १७ ॥ १८ ॥ इति क्षेत्रप्रदोषः ॥

अथ नक्षत्रतिथिवारशुभाशुभयोग्यत्रम्.

र.	ह.	पु.	पु	उ. ३	ध.	नक्षत्र	८	तिथि.	०	०	
र. वि.	म.	ज्ये	अनु	म.	नक्षत्र	१४	१२	७	तिथि.	०	शुभे
च. पु.	भ.	श्र	रो.	मृ.	नक्षत्र	९	१०	तिथि.	०	०	
च. वि.	वि.	पू.	उ.	नक्षत्र	११	१२	१३	तिथि.	०	०	
म. पू.	इंछे.	अ.	मृ.	उ.	नक्षत्र	२	७	८	१३	तिथि.	शुभ
म. श.	भा.	ब.	पू.	म.	उ.	उ.	नक्षत्र	२	१०	तिथि	अशुभ
बु. ज.	पु	कृ.	रो.	मृ.	नक्षत्र	२	७	१२	तिथि	०	शुभ.
बु. मृ.	घ.	रे.	अ.	भ.	नक्षत्र	१	३	९	तिथि.	०	अशुभ
गु. पु.	अ.	इंछे	रे.	पु.	नक्षत्र	५	१०	१५	तिथि.	०	शुभ.
शु. श	आर्द्रा	कृ.	उ.	रो.	मृ.	नक्षत्र	४	६	०	तिथि.	अशुभ
शु. वि	उ.	रे.	श्र.	पू.	नक्षत्र	११	६	१	१३	तिथि.	शुभ.
शु. रो.	पु.	ज्ये	इंछे	म.	नक्षत्र	२	७	तिथि.	०	०	अशुभ
श. रो.	स्वा.	श्र	पू.	म.	नक्षत्र	४	९	१३	तिथि.	०	शुभ.
श. ह.	उ.	वि.	उ.	रे.	नक्षत्र	६	७	तिथि.	०	०	अशुभ

आदित्यं चाश्विनीहस्तं मूलं पुष्योत्तरात्रयम् ॥  
 सिद्धियोगो धनिष्ठा च तिथिरप्यष्टमी तथा ॥ १९ ॥  
 सूर्ये विशाखा भरणी ज्येष्ठा मैत्रं मघा तथा ॥  
 चतुर्दशी द्वादशी च विरुद्धाः सप्तमी तिथिः ॥ २० ॥

सोमेपुष्यानुराधाचश्रवणोरोहिणीमृगः ॥  
 नवमीदशमीचापिसिद्धियोगाःप्रकीर्तिताः ॥२१॥  
 चंद्रे चित्रा विशाखा चतथाषाढाद्वयंबुधैः ॥  
 एकादशीतयापष्ठीवर्जनीयात्रयोदशी ॥ २२ ॥  
 भौमेमूलाश्विनीसर्पेसृगश्चोत्तरभाद्रपात् ॥  
 सिद्धाऽष्टमीतृतीयाचसप्तमीचत्रयोदशी ॥ २३ ॥  
 निंद्याशतभिषाद्राचधनिष्ठापूर्वभाद्रपात् ॥  
 मघा चोत्तरपाठेचद्वितीयादशमीकुजे ॥ २४ ॥  
 बुधानुराधापुष्ये च कृत्तिका रोहिणीमृगः ॥  
 द्वादशीसिद्धियोगाश्च द्वितीयासप्तमीतिथिः ॥२५  
 बुधेमूलंधनिष्ठाचरेवतीचाश्विनी यमः ॥  
 तृतीयानवमीचापिबर्जयेत्प्रतिपात्तिथिः ॥ २६ ॥  
 गुरौचदशमीपंचपौर्णमासीविशेषतः ॥  
 पौष्णाश्विन्यनुराधाच सिद्धिः पुष्यः पुनर्वसुः२७

जवेशतभिषार्द्राच कृत्तिकोत्तरफाल्गुनी ॥

विधिर्मृगोऽष्टमीषष्ठीचतुर्थीचविवर्जिताः ॥ २८

शुक्रेचित्रार्यमापूपाश्रवणश्चपुनर्वसुः ॥

सिद्धाचैकादशीषष्ठीप्रतिपच्चत्रयोदशी ॥ २९ ॥

भार्गवे रोहिणीपुष्योज्येष्ठाऽश्लेषामघातथा ॥

द्वितीयासप्तमीचापिवर्जनीयासदाबुधैः ॥ ३० ॥

शनौचरोहिणीस्वातीश्रवणःपूर्वफाल्गुनी ॥

मघाचनवमीसिद्धाचतुर्थीचत्रयोदशी ॥ ३१ ॥

शनौहस्तोत्तराषाढाचित्राचोत्तरफाल्गुनी ॥

रेवतीचसदावर्ज्यातिथिः षष्ठीचसप्तमी ३२ ॥

टीका—अष्टमी रविको अ. ह मृ. पुष्य, उ. ३ ध-  
निष्ठा हो तौ सिद्धियोग है ॥ १९ ॥ जो रवि १४।७।१२  
को वि. भ ज्ये अनु मघा हो तौ कुयोग है ॥ २० ॥  
जो सोम ९।१० को पुष्य, अनु श्रव. रोहि मृ. हो तौ  
सिद्धियोग कहिये. जो सोम ११।६।१३ को चि. वि.

पूर्वाषाढा उत्तराषाढा हो तौ कुयोग है ॥ २१ ॥ २२ ॥  
 जो भौम ८।३।७।१३ को मू. अ. आश्ले. मृ. उ मा.  
 हो. तौ सिद्धियोग है ॥ २३ ॥ जो भौम २।१० को  
 श. आ. ध. पू. भा. मघा उ. पा. हो तौ कुयोग है ॥  
 ॥ २४ ॥ जो बुध १२।२।७ को अनु पुष्य. कृ. रो. मृ.  
 हो तौ सिद्धियोग कहिये ॥ २५ ॥ जो बुध ३।९।१  
 को मू. ध. रे. अ. म. हो तौ कुयोग है ॥ २६ ॥ जो  
 गुरु ५।१०।१५ वा. रे. अ. अनु. पु. पुष्य, हो तौ सिद्धि-  
 योग है ॥ २७ ॥ जो गुरु ८।४।६ को श. आ क. उ-भा  
 रो. मृग. हो तौ कुयोग है ॥ २८ ॥ जो शुक्र १।१।६।१।१३  
 को चि. उ-फा. रे. श्र. पुनर्वसु ये हो तौ सिद्धियोग है  
 ॥ २९ ॥ जो शुक्र २।७ को रो. पु. आश्ले. म. ज्येष्ठा होय  
 तौ कुयोग है ॥ ३० ॥ जो शनि ९।४।१३ को रो. स्वा  
 श्र. पू-फा. म. हो तौ सिद्धियोग है. जो शनि ६।७ इ.  
 उ-पा. चित्रा. उत्तरा रे. होय तौ कुयोग है ॥ ३१ ॥ ३२ ॥  
 इति वारनक्षत्रशुभाशुभयोगाः ॥

चरंचलं स्पृशतं स्वाती पुनर्वसुश्रुतित्रयम् ॥  
 क्रूरमुग्रं मघा पूर्वत्रितयं भरणी तथा ॥ ३३ ॥

ध्रुवं स्थिरं विनिर्दिष्टं रोहिणी चोत्तरात्रयम् ॥  
 तीक्ष्णं दारुणमाश्लेषाज्येष्ठाद्रामूलमेव च ॥ ३४  
 लघुक्षिप्रं स्मृतं पुष्यो हस्तोऽश्विन्यभिजित्स्मृतम् ॥  
 मृदुमैत्रं स्मृतं चित्राऽनुराधारेवतीमृगः ॥ ३५ ॥  
 मिश्रं साधारणं प्रोक्तं विशाखाकृत्तिका तथा ॥  
 नक्षत्रेष्वेकमाणि नाम तुल्यानिकारयेत् ॥ ३६ ॥

टीका—अब अठारह नक्षत्रकी सात संज्ञा कहिये।  
 सो भिन्न भिन्न कहते हैं। सो प्रथम स्वाती, पु. श्र. ध. श.  
 ये नक्षत्र चर-चक्रसंज्ञक हैं, ये चरकार्यको शुभ हैं, पूर्वा-

नक्षत्राणां सातधा संज्ञाचक्रम्

त्रयं म. भ. ये लग्न क्रूर सं-  
 ज्ञक नक्षत्र क्रूरकार्यमें की-

हेणी उत्तरात्रय

ध्रुवसंज्ञक नक्षत्र

कीजिये. आ-

आ. मूल. ये

संज्ञक नक्षत्र

ये लघुक्षिप्र-

संज्ञक नक्ष शीघ्र स्वल्पकार्यमें ग्राह्य हैं. चित्रा. अनु.  
 भृग. रेवती ये मृदु-यैत्र संज्ञक नक्षत्र कोमल मैत्री कार्यको  
 शुभ हैं. और वि. कृ. ये मिश्र साधारण नक्षत्र सामान्यका-  
 र्यको शुभ हैं. इन सबोंका कार्य संज्ञानुसार जानिये ॥ ३३ ॥  
 ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ इति नक्षत्रसंज्ञा ॥

शनिचक्रं नराकारं लिखेद्यत्र शनिर्भवेत् ॥

तत्रक्षत्रं मुखे दत्त्वा यावन्नाम नरस्यच ॥३७॥

तावद्विचारयेत्तत्र ज्ञेयं तत्र शुभाशुभम् ॥

एकंमुखेचनक्षत्रं चत्वारि दक्षिणेकरे ॥ ३८ ॥

त्रयंत्रयंपादयोश्च वामहस्तेचतुष्टयम्

ललाटेद्वित्रयंनेत्रे हृदिपंचगुदेद्वयम् ॥ ३९ ॥

एकैवदक्षिणेकुक्षौनक्षत्राणिक्रमेणच ॥

हानिर्मुखेदक्षहस्ते लाभोवामेचरोगता ॥४०॥

हृदिश्रीर्मस्तकेराज्यं पादेपर्यटनंफलम् ॥

नेत्रेसुखंगुदेमृत्युः कुक्षौशोकंविचिंतयेत् ॥४१॥



जपादिपूजनार्चाभिः कल्याणं जायते सदा ॥  
अन्यान्येवाविचार्याणि वाहनादिबहूनि च

टीका—अब शनिचक्रका विचार कहते हैं.

अथ नराकार शनिचक्र नराकार लिखै, जिस



शनि होय वह मुखपर देकर उससे  
जन्मनक्षत्रलौ गनिये. फिर शनि-  
क्षत्रादि देकर अंगप्रति सब नक्षत्र  
स्थापित करिजे जिस अंगमें जन्म-  
नक्षत्र परै वहाँका फल जानिये.  
एक नक्षत्र मुखमें धरिये. ४ दहिने

हाथमें, ३ दक्षिण पाय, ३ वामपाय, ४ वामहाथ, २ ललाट  
३ नेत्र, ५ हृदय, २ गुदा और १ दक्षिणकांठमें ये क्रम  
पूर्वक राखिये. जो मुखमें जन्म नक्षत्र परे तो हानि करे,  
वामहस्तपर रोग, हृदयपर लक्ष्मी, ललाटमें राज्यपद, दक्षि-  
णहस्तमें लाभ, चरणनमें भ्रमावै, नेत्रमें सुख, गुदामें मृत्यु और  
कोखमें परै तो शोक करे उस निमित्त जप, दान, पूजा ब्राह्मणयो

जनादिसे कल्याण होवे और अनेक वाहनादिविचारों  
को अन्य ग्रंथनक्षिपे फट्टेहैं ॥३७॥३८॥३९॥४०॥४१॥४२

मेपेशनौगुर्जरेयुप्रभासेचार्जुदेवृषे ॥

मिथुने जायतेपीडा स्थलेमूलस्थलेपुच ॥४३॥

कर्ककाश्मीरकेवाधा शक्रप्रस्थमृगाधिपे ॥

शनैश्चरेचकन्यायां मालवाख्ये च संशयम् ४४

तुलावृश्चिकचापेपुयदियातिशनैश्चरः ॥

न वर्षतितदामेघाःपृथ्वीदुर्भिक्षपीडिता ॥४५॥

सुभिक्षंमकरेकुंभेजायतेवहुघाशनौ ॥

मीनेचसर्वलोकानांदुर्भिक्षंतुक्षयोभवेत् ॥ ४६ ॥

टीका—मेपका शनि हो तो गुर्जर देशमें पीडा करे.  
वृषको प्रभासक्षेत्र और अर्जुन देशमें, मिथुनको मूल-  
स्थली देशमें, कर्कको काश्मीर देशमें, सिंहको इंद्रप्रस्थ-  
देशमें, कन्याको मालवामें पीडा करे. तुला, वृश्चिक  
य धनको हो तो मेघ न वर्षे. पृथ्वी दुर्भिक्षसे दुःखित होवे.  
कुंभ मकरको हो तो अमरा मुकाल करे. मीनको हो

तौ सर्वत्र काल परै और दुर्भिक्षसे पीडा होवे  
॥४४॥४५॥४६॥ इति शनिराक्षिफलम् ॥

यत्रमासेरवेर्वारा जायंते पंचसंततम् ॥

दुर्भिक्षंछत्रभंगंचतदास्तेचमहद्भयम् ॥ ४७ ॥

सोमस्यपंचवाराश्च यत्रमासेभवंति हि ॥

धनधान्यसमृद्धिश्च सुखाभवतिमेदिनी ॥ ४८ ॥

यत्रमासेमहीसूनोर्जायंतेपंचवासराः ॥

रक्तेनपूरितापृथ्वीछत्रभंगस्तदाभवेत् ॥ ४९ ॥

बुधस्यपंचवाराश्चजायंतेच निरंतरम् ॥

प्रजाश्चसुखसंपन्नाःसुभिक्षंचप्रजायते ॥ ५० ॥

यत्रमासेपंचवाराजायंतेचवृहस्पतेः ॥

विग्रहः पश्चिमेदेशेपीडायुद्धंचजायते ॥ ५१ ॥

शुक्रस्यपंचवाराश्चयत्रमासेनिरंतरम् ॥

प्रजावृद्धिः सुभिक्षंचसुखंतत्रप्रवर्तते ॥ ५२ ॥

शनिवारा यदापंच पाताले कंपतेफणी ॥

ईशानदेशभंगंचवह्निदाहोमहर्षता ॥ ५३ ॥

टीका---जो एक महीनेमें पांच रविवार परें तो अन्न  
 महंगा. छत्रभंग तथा महाभय होवे ॥ ४७ ॥ जो मही-  
 नेमें पांच सोमवार परें तो धनधान्यकी वृद्धि और  
 सर्वत्र सुख करें ॥ ४८ ॥ एक मासमें पांच मंगलवार  
 परें तो पृथ्वी रुधिरसे पूरित तथा छत्रभंग हो जावे  
 ॥ ४९ ॥ जो मासमें पांच बुधवार परें तो प्रजा सुखी  
 होकर सुभिक्ष रहै ॥ ५० ॥ जो मासमें पांच गुरुवार  
 परें तो पश्चिममें विग्रह, पीडा, युद्ध होनेका संभव  
 है ॥ ५१ ॥ जो महीनेमें पांच शुक्रवार परें तो प्रजा  
 बढ़कर सुभिक्ष और सुख होजाय ॥ ५२ ॥ जो मासमें  
 पांच शनैश्वर परें तो पातालमें शेष काये ईशानदेश  
 भग होवे, अग्निका भय और अन्न महंगा होवे ॥ ५३ ॥  
 इति मासे पंचवारफलम् ॥

अंगुल्योविंशतिः सूर्यशंकुःसोमेचपोडश ॥

रुजेपंचदशांगुल्यो बुधवारेचतुर्दश ॥ ५४ ॥

त्रयोदशगुरोर्वारेद्वादशार्कजशुक्रयोः ॥

शंकुमूलेयदाछायामध्याह्नेचप्रजायते ॥ ५५ ॥

तदाचाभिजिदाख्याता घटिकैका स्मृताबुधैः  
अत्रकार्याणिसर्वाणिसिद्धियांतिकृतानिच  
जातोभिजितिराजास्याद्वयापारेसिद्धिरुत्तमा  
महाक्रूरवियोगेनसर्वमंगलदायकः ॥ ५७ ॥

टीका—रविवारको बीस अंगुल सीक ठाढी  
सोमको १६, म. १५, बु. १४, वृ. १३, शु १२, शनि १२,  
दो महरके अंतमें सीककी छाया सीकके मूलमें आवे  
तब अभिजित् मुहूर्त एक घटिका होता है. सो सर्व

अथाभिजित्मुहूर्तयत्रम्							
वार	र	व	म	बु	शु	श	श
अंगु	२०	१६	१५	१४	१३	१२	१२

कार्य व्यापारमें सिद्धि-  
प्रद होता है अरु इस

मुहूर्तपर जन्म होय तो राजा होवे ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥  
॥ ५७ ॥ इत्याभिजिन्मुहूर्तक्रियाफलम् ॥

अर्थवृद्धिःफाल्गुनेस्याच्चैत्रेचधनसंपदः ॥  
वैशाखेविग्रहोराज्ञांज्येष्ठेवृष्टिश्चभूयसी ॥ ५८ ॥  
आषाढेचोदितेशुक्रेजलंभवतिदुर्लभम् ॥  
श्रावणेचपशोःपीडाभाद्रेधान्यसमृद्धये ॥५९॥

आश्विनेसर्वसंपत्तिः शुभंकार्तिकमार्गयोः ॥

पौषेमाघेछत्रभंगोयद्युदेतिभृगोःसुतः ॥ ६० ॥

टीका—जो शुक्रका उदय फाल्गुनमें होजाय तो अन्न सस्ता होवे. चैत्रमें धन संपत्ति करे. वैशाखमें उदय हो तो राजनमें विग्रह करे. ज्येष्ठमें उदय हो तो वर्षा विशेष करे ॥ ५८ ॥ आषाढमें हो तो जल न होवे. श्रावणमें हो तो पशुनको पीटा करे. भादोंमें हो तो अन्न बहुत उपजावे ॥ ५९ ॥ जो आश्विनमें हो तो सर्व संपत्ति करे. जो कार्तिक तथा अग्रह-नमें हो तो शुभ है. जो पौष माघमें उदय हो तो छत्रभंग करे ॥ ६० ॥ इति शुक्रोदयफलम् ॥

पूर्ववायुहौलिकायाः प्रजाभूपालयोः सुखम् ॥

पलायनंचदुर्भिक्षं दक्षिणेजायतेध्रुवम् ॥ ६१ ॥

पश्चिमे तृणसंपत्तिरुत्तरे धान्यसंभवः ॥

यदिस्वेचाग्निखावृद्धिर्दुर्गराज्ञोपिसंक्षयेत् ॥ ६२ ॥

टीका—जो दोहीको पूर्व पान करे तो राजा मन्त्रीको

सुख करे. दक्षिण पौन चलै तो देश भागै, दुर्भिक्ष  
पछाइ पौन चलै तो वृणसंपत्ति बढे. उत्तर पौन चलै  
धान्यवृद्धि होय और जो होलीकी धुवां आकाशको  
चढे तो राजगढ टूट जाय ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ इति  
धूमफलम् ॥

एकादश्यां कार्तिकस्य यदि मेघः समीक्ष्यते ॥  
आषाढे च तथा वृष्टिर्जायते नात्र संशयः ॥ ६३ ॥  
मार्गशीर्षस्य चाष्टम्यां दृश्यंते विद्युत्तो यदा ॥  
तदा वृष्टिः श्रावणे च मासिसंजायते ध्रुवं ॥ ६४ ॥  
कृष्णपक्षे दशम्यां च वृष्टिः पौषे च जायते ॥  
तदा भाद्रपदे मासे वृष्टिर्भवति भूयसी ॥ ६५ ॥  
वृष्टिश्चेन्माघसप्तम्यां ज्येष्ठे मूले च वर्षते ॥  
नक्षत्रे वारिवाहश्च तदान्नैः पूर्यते मही ॥ ६६ ॥  
पञ्चम्यां प्रथमे पक्षे श्रावणे च प्रवर्षते ॥  
पयोवाहस्तदा धान्यैर्धरा व्याप्ता चलैरपि ॥ ६७ ॥  
टीका—जो कार्तिक एकादशीको मेघ छाया करे तो

आषाढ महीनेमें वर्षा होजाय ॥६३॥ मार्गशीर्षकी अष्टमीकी  
 विष्टुद देखे तो श्रावणमें वृष्टि होजावे ॥ ६४ ॥ जो पौषकृ-  
 ष्णदशमीको घेघ वर्षे तो भादोंमें अधिक वर्षे ॥ ६५ ॥ जो  
 माघमें सप्तमीको वर्षे और ज्येष्ठमें मूल नक्षत्रपर वर्षे तो  
 वर्षाके सब नक्षत्र उत्तम वर्षे और अश्रु उपर ॥ ६६ ॥  
 श्रावण कृष्णपक्ष पंचमीमें वर्षा वर्षे तो अश्रु जल बहुत  
 होवे ॥ ६७ ॥

आषाढे पूर्णिमायां तु यन्नक्षत्रं विचारयेत् ॥

पूर्वाषाढे सुभिक्षं च मूलेदुर्भिक्षमुच्यते ॥

उत्तराषाढकेऽश्वानां पीडाकटकसंगतिं ॥ ६८ ॥

टीका—जो आषाढ पूर्णिमाको नक्षत्र होइ तोको विचा-  
 रिये जो पूर्वाषाढ हो तो सुभिक्ष हो जायगा. मूल हो तो  
 दुर्भिक्ष परे. उत्तराषाढ हो तो घोड़ोंको पीडा होजाय ॥६८॥  
 इत्याषाढपूर्णिमाफलम् ॥

ज्येष्ठस्य प्रथमे पक्षे प्रतिपच्चयदा भवेत्

रवेर्वारस्तदावायुर्वान्तिवृक्षांतकारकः ॥ ६९ ॥



सुख करे. दक्षिण पौन चलै तो देश भागै, दुर्भिक्ष  
पछाइ पौन चलै तो वृणसंपत्ति बढे. उत्तर पौन  
धान्यवृद्धि होय और जो होलीकी धुवां आकाशको  
चढे तो राजगढ टूट जाय ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ इति  
धूमफलम् ॥

एकादश्यां कार्तिकस्य यदि मेघः समीक्ष्यते ॥  
आषाढे च तथा वृष्टिर्जायते नात्र संशयः ॥ ६३ ॥  
मार्गशीर्षस्य चाष्टम्यां दृश्यते विद्युत्तो यदा ॥  
तदा वृष्टिः श्रावणे च मासिसंजायते ध्रुवं ॥ ६४ ॥  
कृष्णपक्षे दशम्यां च वृष्टिः पौषे च जायते ॥  
तदा भाद्रपदे मासे वृष्टिर्भवति भूयसी ॥ ६५ ॥  
वृष्टिश्चेन्माघसप्तम्यां ज्येष्ठे मूले च वर्षते ॥  
नक्षत्रे वारिवाहश्च तदान्नैः पूर्यते मही ॥ ६६ ॥  
पञ्चम्यां प्रथमे पक्षे श्रावणे च प्रवर्षते ॥  
पयोवाहस्तदा धान्यैर्धरा व्याप्ता चलैरपि ॥ ६७ ॥  
टीका—जो कार्तिक एकादशीको मेघ छाया करें

महीनेमें वर्षा होजाय ॥६३॥ मार्गशीर्षकी अष्टमीको देखे तो भावणमें वृष्टि होजावे ॥ ६४ ॥ जो पौषकृ-  
 ० मेघ वर्षे तो भादोंमें अधिक वर्षे ॥ ६५ ॥ जो  
 ० सप्तमीको वर्षे और ज्येष्ठमें मूल नक्षत्रपर वर्षे तो  
 वर्षाके सब नक्षत्र उत्तम वर्षे और अन्न उपजे ॥ ६६ ॥  
 भावण कृष्णपक्ष पंचमीमें वर्षा वर्षे तो अन्न जल बहुत  
 होवे ॥ ६७ ॥

आषाढे पूर्णिमायां तु यन्नक्षत्रं विचारयेत् ॥  
 पूर्वाषाढे सुभिक्षं च मूलेदुर्भिक्षमुच्यते ॥  
 उत्तराषाढकेऽश्वानापीडाकटकसंगतिं ॥ ६८ ॥

टीका—जो आषाढ पूर्णिमाको नक्षत्र होइ तांको विचा-  
 रिये जो पूर्वाषाढा हो तो सुभिक्ष हो जायगा. मूल हो तो  
 दुर्भिक्ष परै. उत्तराषाढा हो तो घोड़ोंको पीडा होनाय ॥६८॥  
 इत्याषाढपूर्णिमाफलम् ॥

ज्येष्ठस्यप्रथमेपक्षेप्रतिपच्चयदाभवेत्  
 रवेर्वारस्तदावायुर्वातितृक्षांतकारकः ॥ ६९ ॥

अत्यंतविग्रहोभौमेबुधेदुर्भिक्षमुच्यते ॥  
 अनावृष्टिः शनेर्वारेजलंकाफिनलभ्यते ॥ ७०  
 सोमशुक्रसुरेज्यानांयदिवारःप्रजायते ॥  
 धनधान्यसुतोत्पत्तिर्गेहेगेहेमहोत्सवः ॥ ७१ ॥  
 पौषमासस्यसंक्रांतौ रविवारोयदाभवेत् ॥  
 धान्यानांत्रिगुणंमौल्यंभौम्वारेचतुर्गुणम् ॥  
 त्रिगुणंशनिवारेचबुधेशुक्रेसमंभवेत् ॥ ७२ ॥  
 सुराचार्येप्रसोमेचमौल्यमर्धसुनिश्चितम् ॥  
 क्रूरोहिलाभकृद्धान्येसौम्योहानिप्रदोभवेत् ॥ ७३ ॥  
 मीनसंक्रमणेसूर्येवारेवातिसमीरणः ॥  
 भौमेपीडापशूनांचदुर्भिक्षंचशनेश्वरे ॥ ७४ ॥  
 वृक्षपातःप्रजापीडामिथ्यासंचरते महीम् ॥  
 हिंसाकामातुरालोकायदिवृष्टिश्च तद्दिने ॥ ७५ ॥  
 संक्रांतौयदिमीनस्यबुधवारः प्रजायते ॥  
 छत्रभंगोमहामारीरोदनं भयर्चितया ॥ ७६ ॥

संक्रांतौ सोमवारश्चैत्रजानां परमंसुखम् ॥

भानुभौमार्किवारेषु पापयुद्धं महर्षता ॥७७॥

टीका—ज्येष्ठप्रतिपत्फलम्—जो ज्येष्ठकृष्ण १ तिथीमें रविवार परे तो पौन आतिवेग चले और वृक्ष हूँ. भौम परे तो विग्रह बड़े. बुध परे तो दुर्भिक्ष होय. शनि परे तो जल करी न हो. सोम, शुक्र, गुरु, परे तो धनधान्य संतानसे सुख हो जाय ॥ ६९ ॥ ७० ॥ ७१ ॥

पौषसंक्रातिफलम्—पौषसंक्राति रविवारके दिन परे तो अन्न त्रिगुण मोलसे बिके. भौमको चाँगुने; शनिको त्रिगुने, बुध शुक्रको समान और गुरु सोमको आधे. संक्रातिके दिन शुभवार परे तो घटा और क्रूर वार परे तो नफा होइ ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ मीनसंक्रातिफलम्—जो मीन संक्राति रविवारको हो तो वर्षभर पौन चले. मंगलमें हो तो पशुओंको पीटा. शनिमें परे तो दुर्भिक्ष और ५ दिन मद्रा होने तो पृथ्वीपर वृक्ष गिरें. मना दुःखी, मिथ्यावादी, हिंसक और वाप्यातुर होवे. बुधमें परे तो छत्रभंग, महामारी, चित्तचिंता और भय वपनावे. सोममें परे तो सुख, रवि भौम और

शनिवारमें परै तौ पापयुद्ध और अन्न महंगा करै ॥ ७४  
॥ ७५ ॥ ७६ ॥ ७७ ॥


संक्रांत्याश्चारनक्षत्रादात्मभावोऽधिगण्यते ॥

त्रिकं षट्त्रिकं षट्त्रिकं षट्त्रिकं पुनः पुनः ॥ ७८ ॥

पंथाभोगोव्यथावस्त्रं हानिश्चविपुलंघनम् ॥

षड्भिर्भागैःफलं षट्त्रिकं मासेमासेविचारयेत् ॥ ७९ ॥

टीका—संक्रान्ति समयके नक्षत्रसे २७ नाम नक्षत्र-



तक गनिये. जो तीन-  
सक हो तौ पंथ चलावै.  
नवतक सुखभोग, १२  
लौ व्यथा, १८ लौ  
वस्त्रसुख; २१ लौ

हानि और २७ लौ विपुलघन तथा भोग मिलै. इस प्रकार  
मासमास विचारिये ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ इति संक्रांतिदिन-  
नक्षत्रफलम् ॥

राशिचक्रंलिखित्वादौमेषसंक्रांतिभादिकम् ॥

अष्टाविंशतिकंतत्रलिखेन्नक्षत्रसंकुले ॥ ८० ॥

संधौदयंदयंदद्यादन्यत्रैकमेवच ॥

चत्वारःसागरास्तत्रसंधयश्चाष्टसंख्यया ॥८१॥

शृंगाणितत्वचत्वारितटान्यष्टौस्मृतानिच ॥

रोहिणीपतितायत्रज्ञेयंतत्रशुभाशुभम् ॥ ८२ ॥

जाताजलप्रदस्यैपाञ्चंद्रस्यपरमप्रिया ॥

समुद्रेतिमहावृष्टिस्तदेवृष्टिश्चशोभना ॥

पर्वते त्रिंदुमात्राचखंडवृष्टिश्चसंधिषु ॥ ८३ ॥

टीका—अत्र वर्षाभिर्णयविषे मुख्य विचार प्रथमरोहिणीपतनको कहिये, पहिले द्वादशकोटावाला कुंडलीचक्र करके रोहिणीचक्रमें गर्भित कीजै और उस रोहिणी चक्रमें २८ नक्षत्र राखिये. दो दो' २ समुद्रमें-एकएक १ शृंगनमें, एकएक नक्षत्र संधिनमें और एक एक नक्षत्र तटनमें धरिये. तहां मेषकी संक्रांति जो नक्षत्रमें होइ उस नक्षत्रमें धरिये. जो रोहिणी समुद्रमें परै तौ वर्षा अधिक होवे. शृंगनमें परै तौ वर्षा थोरी होइ. संधिनमें परै तौ कभी वर्ष, कभी न वर्ष

तटमें रोहिणी परै, तौ शोभनवृष्टि होजावे.  
 स्थानमें संक्राति दिन नक्षत्र धरिये ॥८०॥८१॥८  
 इति रोहिणीनिर्णयः ॥

## अथ रोहिणीचक्रम्

सधि उत्तराभाद्रपद. २ संधि शतता ३ तट. धनिष्ठा.	तब. रे. शुभ.	सिधु. १ अश्विनी. भरणी	तट. कू. शुभ.	संधि. रोहिणी. १२ प. मू. सधि आ
सिधु अभिजित. श्रवण.	शुभ.	२ १२ ३ १ ४ ११ ५ १० ६ ९	शुभ.	सिधु पुष्य आश्लेषा. १०
तट. उत्त. सधि. पूर्वाषाढा. ५	शुभ. तट. अनु.	सिधु. स्वाती विशाखा.	शुभ. तट. सि.	तट मघा. ७. का. ५. ८ सधि. ९. पूर्वा का. ६. सधि.
संधि. ६ उजे.		७		

शकारं लिखेच्चक्रं सूर्यां यत्र व्यवस्थितः ॥  
 मक्षत्रादिकं कृत्वा त्रयं दद्याच्च मस्तके ॥ ८४ ॥  
 मुखे त्रयं स्कंधयोश्च दद्यादेकैकमेवच ॥ बाहुद्वये  
 त्रयेकैकं पाण्योरेकैकमेवच ॥ ८५ ॥ हृदि पंच  
 गुदे चैकं नाभौ चैकं प्रदापयेत् ॥ जंघयोरेकमेकं  
 च पङ्काः पादयोर्द्वयोः ॥ ८६ ॥ मस्तके पट्टबंधी  
 स्यान्मुखे मिष्टान्नभोजनम् ॥ स्कंधे गजेंद्रगामी  
 स्याद्बाहुस्थाने च्युतो भवेत् ॥ ८७ ॥ पाणौ च जायते  
 चौरौ हृदये पीश्वरो नरः ॥ स्वल्पतोपी भवेन्नाभोप-  
 रदाररतो गुदे ॥ ८८ ॥ जंघयोः परदेशी स्याद-  
 ल्पायुश्च पदद्वये ॥ नृचक्रे सूर्यनक्षत्राज-  
 न्गभावोऽधिगण्यते ॥ ८९ ॥

टीका—भव नरसप्त परते ई. ताको गणितचक्र  
 गमुत्रिणे. मूर्धनसप्तमे जन्मनसप्तमे गणिते. त्रिस अं-



गमें जन्मनक्षत्र परै उसपरसे फल कहिये. जो जन्मनक्षत्र परे तौ कुटुंबनायक होवें, जो मुखमें परै मीठा अन्न मिलै. कंधेपर परै तो गजपर चढ़ै.

अथ नरकचक्र.



परै तौ भूमि छूटि जाय.

नमें परै तौ चोर होवे

परै तौ मालिक होवे.

परै तौ थोड़े भोजनमें

रहे. और जो गुदामें

नक्षत्र परै तौ परस्त्रीगामी

जाय. जांघनमें परै तौ परदे

शवास करै. और जो जन्मन

क्षत्र चरणमें आवै तो आयुष्य

थोरी पाकर थोरी अवस्थामें मृत्यु हो ॥ इति नराकार-

चक्रे नक्षत्रशुभाशुभफलम् ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ ८६ ॥

॥ ८७ ॥ ८८ ॥ ८९ ॥


ग्रामनाम्ना भवेदृक्षं तदाद्याः सप्तमस्तके ॥

पृष्ठे सप्तहृदेसप्त पादयोः सप्ततारकाः ॥ ९० ॥

स्तकेचघनीमान्यः पृष्ठेहानिश्चनिर्धनः ॥

दयेसुखसंपत्तिः पादेपर्यटनंफलम् ॥ ९१ ॥

टीका—जिसग्राममें वा नगरमें बसा चाहै उस ग्रामके  
पायसे नक्षत्र कर लीजै. जो नक्षत्र ग्रामको पाइये ता-  
हीसे अभिजित् नक्षत्र समेत अठाइसौ गिनिये उसमेंसे  
ग्रामको आदि लेके सात ७ नक्षत्र ग्रामके माथे-



पर दीजै. ७ पीठपर दीजै. ७  
हृदयपर दीजै और ७; पाय-  
नपर देके अपने नक्षत्र देखि  
ये वह माथे परै तौ धनी होके

मन्मान पावे पीठमें हानि और निर्धन. हृदयमें परै तो  
सुखसंपत्ति पावे और पायनमें परै तो परदेशमें पर्यटन  
कराव ॥ ९० ॥ ९१ ॥ इति ग्रामवासफलम् ॥

मूलेऽष्टौ मूलवृक्षस्य घटिकाः परिकीर्तिताः ॥

स्तंभेषुपृष्ठघटिकास्त्वचिचैकादशास्मृताः ॥ ९२ ॥

शाखायां च नवप्रोक्ताः पत्रे प्रोक्ताश्चतुर्दश ॥

पुष्पेपंचफले वेदाः शिखायांच त्रयंस्मृतम् ॥१३॥

मूलेनाशोहिमूलस्य स्तंभे हानिर्धनक्षयः ॥

त्वचिभ्रातुर्विनाशश्चशाखायांमातृपीडनम् ॥१४॥

परिवारक्षयंपत्रेपुष्पेमंत्रीचभूपतेः ॥


फलराज्यांशिखायांचेदल्पजीवीचबालकः ॥१५॥

टीका—अब मूलसंज्ञक जो नक्षत्र हैं उनके विचारकी रीति मूलवृक्षचक्रसे कहते हैं. मूलवृक्ष बनाइके ८ घरी मूलमें धरिये. ६ स्तंभ, ११ त्वच, ९ शाखा, १४ पत्र, ५ पुष्प, ४ फल और ३ शिखामें ऐसे ६० घटिका चक्रमें धरिये. उसका फल—जो मूलकी ८ घरिनमें बाढकजन्म हो तो मूलनाश होय; स्तंभकी ६ घरिनमें हो तो धन-

हानि होवे. त्वचाकी ११ घरी-  
 नमें हो तो भ्राताका नाश  
 होय. शाखाकी ९ घरीनमें हो  
 तो पीडा करै. जो पत्रनकी  
 १४ घरीनमें हो तो परिवार-  
 क्षय करै. फूलनकी पांच घरी-  
 नमें हो तो राजपंत्री होय. फल-  
 नकी ४ घरीनमें जन्मै तो  
 राजा अथवा वंशमें वा देशमें  
 श्रेष्ठ होजावे और शिखाकी ३  
 घरीनमें जन्मै तो आयु अल्प  
 पावे ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ ९४ ॥  
 ॥ ९५ ॥ इति मूलवृक्षफलम् ॥

रेवत्यादिमृगांतेचयाव  
 तिष्ठतिचंद्रमाः ॥ ताव-

मूलवृक्षफल.



च्छुक्रो भवेदंधः संमुखे दक्षिणे शुभः ॥ ९६ ॥  
 प्राक्पश्चाद्दितः शुक्रः पंचसप्तदिनं शिशुः ॥

विपरीतं तु वृद्धत्वं तद्भदेव गुरोरपि ॥ ९७ ॥

तृतीयेदशमेषष्ठेप्रथमेसप्तमेशशी ॥

शुक्लपक्षे द्वितीयस्तुपंचमेनवमेशुभः ॥ ९८ ॥

ताराःशुभप्रदाः सर्वास्त्रिपंचसप्तवर्जिताः ॥

प्रथमेदशमेषष्ठेतृतीयैकादशे तथा ॥ ९९ ॥

यदिस्यात्सबलश्चंद्रस्तारापिक्लेशदायिनी ॥

तृतीयेपंचमेतारासप्तमे चनृणांभवेत् ॥ १०० ॥

टीका—रेवतीसे मृगशिर तक शुक्र अंध रहता है सो

अथ ताराबल्यंत्रम्

सु	म	रा	क	३	३	६	१०	१२	३
३	१	१०	६	३	७	३	२	५	३
तारा	९	६	४	३	२	१	८	मप्य	३
युध	६	८	२	४	१०	११	३	१	७०
वृ	२	५	७	९	११	३	३	भा	०
शु	१	२	३	४	५	८	९	११	१२

सन्मुख और दहिने

शुभ है ॥ ९६ ॥

इति शुक्रनिर्दोषः ॥

जब पूर्व पश्चिममें

शुक्र उदय हो तो पांच सात दिन बाहक रहे.

अस्तमें पांच सातदिन वृद्ध है. तैसेही बृहस्पति जानि

ये ॥ ९७ ॥ शशी ११३१०६।७ शुभ है और शुक्रपक्षमें  
 ३।५।९ शुभ है ३।५।७ त्यागिके सब तारा शुभ हैं १।  
 १०।६।३।११ जो चंद्रमा बली हो तो तारा क्लेशप्रद न होय  
 और जो तारा ३।५।७ मनुष्यको हो तो चंद्रतारा क्लेश-  
 दायी हो ॥९८॥९९॥१००॥ इति चद्रताराबलफलम् ॥

जन्मभाद्रणयेच्चीमान्क्रमाच्चदिनभावधि ॥

नवभिस्तुहरेद्द्वागंशेपंताराविनिर्दिशेत् ॥ १ ॥

जन्म संपद्धिपत्क्षेम प्रत्यरिः साधको वधः ॥

मैत्रातिमैत्रं ताराः स्युस्त्रिरावृत्यानवैवहि ॥ २ ॥

त्रिपष्टेदशमेभौमोराहुः केतुः शनिः शुभः ॥

पष्टेऽष्टमेद्वितीयेवाचतुर्थेदशमेवुधः ॥ ३ ॥

द्वितीयेपंचमेजीवः सप्तमेनवमेशुभः ॥

विवाहशुक्रोदशमेपष्टेस्यात्सप्तमेशुभः ॥ ४ ॥

एकादशेग्रहाः सर्वेसर्वकार्येषु शोभनाः ॥

ग्रहाणां गोचरं ज्ञेयं फलं विज्ञैः शुभाशुभम् ॥ ५ ॥

दशम्यवाधिकृष्णेतु पक्षपूर्णाहिचंद्रमाः ॥

ततःपरंक्षीणचंद्रःक्षीणकार्येविवर्जितः ॥ ६ ॥

टीका—जन्मनक्षत्रसे दिननक्षत्रतक गिनके नवका भाग हरिये. शेष बचे सो तारा कहिये. सो जन्म, संपत्ति विपत्ति, क्षेम, मत्परि, साधक, बध, मैत्र, अतिमैत्र ये संज्ञा तीन आवृत्ति विचारिके ॥ १ ॥ २ ॥ इति ताराविचारः ॥ ३ । ६ । १० । इन स्थानोंमें भौम, राहु, केतु और शनि ये शुभ हैं. ६ । ८ । २ । ४ । १० । इनमें बुध शुभ है. ९ । २ । ५ । ७ । गुरु शुभ है. १० । ६ । ७ इनमें शुक्र शुभ है. ११ में सर्व ग्रह शुभ हैं ॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥ कृष्णपक्षकी दशमीतक चंद्रमा पूर्ण है सो शुभ है. फिर १० तिनताई क्षीण है सो शुभकार्यको वर्जित है ॥ ६ ॥ इति पूर्णक्षीणचंद्रमानिर्णयः ॥

पुनर्वसुद्वयंक्षौरे श्रुतियुग्मं करत्रयम् ॥

रेवतीद्वितयं ज्येष्ठाभृगशीर्षचगृह्यते ॥ ७ ॥

क्षौरे प्राणहरास्त्याज्या मधामैत्रंचरोहिणी ॥

रिक्तापष्ठयष्टमज्ञेया क्षौरं चंद्रक्षयेनिशि ॥

संध्याविष्टिश्च गंडांते भोजनांते च गोगृहे ॥१॥

अथ क्षौरकर्म मुहूर्त						
पु	पु	अ	घ	ह	वि	स्वा
१	२	३	४	५	६	७
८	९	१०	११	१२	१३	१४
१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१

टीका—पु पु. अ. घ

ह. वि. स्वा. रे अ ज्ये

मृ ये नक्षत्र क्षौरके वास्ते

ग्राह्य हैं. म. अनु रो म

उ. ३ क. और मीम, शनि, रवि, ये चार ४। ६। ८।

१९। २४। ये तिथि रात्रि और संध्या ये समय और

गंडांत, मूल, भाद्र, भोजन करिके गोशाला, ये सब प्राणहर्ता

होनेसे क्षौरमें वर्ज्य हैं ॥ ७ ॥ ८ ॥ ९ ॥ इति

नित्यक्षौरनिर्णयः ॥

रेवतीयुगलेपुण्येरोहिण्यामृगमैत्रयोः ॥

श्रवणोत्तरशुक्रेषु राज्ञां स्यादभिषेचनम् ॥११०॥

टीका—रे अ. पु. रो मृग. अनु अ उ. ज्येष्ठा इन नक्ष  
त्रमें राज्याभिषेक कीजें ॥११०॥ इति राज्याभिषेकः ॥

रेवतीयुगलंज्येष्ठामैत्रं हस्तत्रयं मृगः ॥



पुनर्वसुश्चविज्ञेयो गणस्तिर्यङ्मुखो बुधैः ॥११॥  
 वृक्षारोपणवाणिज्यं सर्वसिद्धिं च कारयेत् ॥  
 वाहनानिचयंत्राणिगमनंचविधीयते ॥ १२ ॥  
 पूर्वात्रयं मघाश्लेषाविशाखाकृत्तिकायमः ॥  
 मूलंचाधोमुखोज्ञेयोनवकोयंगुणोबुधैः ॥१३॥  
 भूकार्यमुग्रकार्यं च खननं विवरस्य च ॥  
 युद्धंचाधोमुखंयच्चतत्कार्यंकारयेद्बुधः ॥ १४ ॥  
 उत्तरात्रितयंपुष्यो रोहिण्यार्द्रां श्रुतित्रयम् ॥  
 ऊर्ध्ववक्त्रोगणोज्ञेयोनक्षत्राणामनीपिभिः ॥१५॥  
 प्रासादच्छत्रगेहानिप्रकारध्वजतोरणम् ॥  
 नानाभिपेकमञ्चक्रुर्यादूर्ध्वमुखेगणे ॥ १६ ॥

टीका—रे. अ. ज्ये. अनु ह. चि. स्वा. मृ. पु

अथ तिर्यङ्मुखो मुख ऊर्ध्वमुख यत्रम्

इन तिर्यङ्मुख नक्ष-  
 त्रनमे वृक्षारोपण,  
 वाणिज्य, आदि

वाहन, यंत्र, रहाटादि और गमन ये कार्य कीजै ॥ ११ ॥ १२ ॥ पूर्वात्रय, म. आश्ले. वि. कृ. भ. मृ. इन अधोमुख नक्षत्रमें भूमिग्रामादि कार्य, उग्रसंधा-  
तादि खनन. कृपादि ये इतने कार्य कीजै ॥ १३ ॥ १४ ॥  
उत्तरात्रय, पुष्य, रो. आ. श्र ध. श. इन ऊर्ध्वमुख  
नक्षत्रमें ये काम कीजै. प्रासाद, छत्र, गृहादि, राजोप-  
करण, अपिपेक और अश्वाचारोहण ये शुभ हैं ॥ १५ ॥ १६ ॥

पुनर्वसुद्वयं पौष्णं मृगाश्वौ च करत्रयम् ॥

मूलं श्रुतित्रयं मैत्रं भिषकर्मणि गृह्यते ॥ १७ ॥

सोमशुक्रसुरेज्यानां वाराः शकुनमुत्तमम् ॥

लग्नेपुचापमीनेपुवृषो ग्राह्यस्तुलाधरः ॥ १८ ॥

टीका—पु. पु. रे. मृ अ. इ चि स्वा. मू. श्र ध. श

अथ भैषज्यमुहूर्तयत्रम्

और अनु. सोम, शुक्र, गुरु

पु	पु	रे	मृ	इक्षि	इ	चि	स्वा
मू	श्र	ध	श	अनु	न	क्ष	त्र
च	शु	पु	९	१२	२	७	लग्न

ये वार; धन, मीन, वृषभ,

तुला, ये लग्न उत्तम है

इन सत्रका विचार करके वैद्यसे औषध कराइये ॥ १७ ॥

॥ १८ ॥ इति भैषज्यकर्ममुहूर्ताः ॥

अमावास्याऽष्टमी त्याज्या पूर्णिमाचतुर्दशी ॥  
 रविवारेवर्जनीयोगोपशूनाचनिर्गमः ॥१९॥  
 चित्रोत्तरारोहिणीचश्रवणोपि विवर्जितः ॥  
 एतेषुपशुजातीनामशुभो निर्गमो भवेत् ॥२०॥

टीका—३०।८।१५।१४ ये तिथि, रविवार और चि०

अथ पशुनिष्कासनमुहूर्तयंत्रम्

तीनों उत्तरा श्र. रो.  
 ये नक्षत्र पशुनके

लेनेमें वर्जित हैं

इनसे अन्यनक्षत्रोंमें

निर्गमनिर्णयः ॥

उत्तरायांविशाखायांरोहिण्यांचपुनर्वसौ ।

नवम्यां च चतुर्दश्यामष्टम्यांनानयेत्पशून् ॥२१॥

टीका—तीनों उत्तरा वि. रो. पुन. ये नक्षत्र और  
 १।१४।८ ये तिथि पशु लेनेमें त्याज्य हैं ॥ २१ ॥

पूर्वामैत्रद्रयंमूलंवासवंरेवतीकरः ॥

पुनर्वसु-द्रयंग्राह्यंपशूनांक्रयविक्रये ॥ २२ ॥

पुष्योभाद्रपदायुग्मं स्वातीश्रुतिरथाश्विनी ॥  
 हस्तोत्तरामृगौमैत्रंतथाश्लेषाचरेवती ॥२३॥  
 ग्राह्याणिभानिचैतानि क्रयविक्रययोर्वुधैः ॥  
 चंद्रभार्गवजीवानां वाराःशकुनमुत्तमम् ॥२४॥

टीका—पूर्वात्रय, अनु. मू. ज्ये. ध. रे. ह. पु. पु. इन  
 नक्षत्रनमं पशु लीजिये ॥ २२ ॥ पुष्य, पूर्वाभा. स्वा.  
 श. अश्वि. ह. उत्तरात्रय, मृ. अनु. आश्ले. रे. ये नक्षत्र  
 और चन्द्र, शुक, शुक, ये वार उत्तम शकुन हैं ये सब  
 क्रयविक्रय विषे शुभ हैं ॥ २३ ॥ २४ ॥ इति क्रयविक्रयः ॥

नंदातिथेश्चनामादौपूर्णानांचतथांतके ॥  
 घटिकैकाशुभेत्याज्यातिथिगंडे घटिद्वयम् ॥२५॥

अथ तिथिगंडांतयंत्रम्.					
१५	श. घ.	१.	१	आ. घ.	१.
५	श. घ.	१.	६	आ. घ.	१.
१०	श. घ.	१.	११	आ. घ.	१.

टीका—नंदा तिथिनके  
 आदि पूर्णांके अंत एक  
 एक घटि अशुभ है ॥ २५ ॥

ज्येष्ठाश्लेषारेवतीचनामांतेघटिकाद्वयम् ॥  
 आदौमूलमघाश्विन्याभगंडंघटिकाद्वयम् ॥

अथ नक्षत्रगण्डांतियत्रम्.					
ज्ये	अं. घ.	२	मू.	आं. घ.	२.
उल्ले.	अं. घ.	२	म.	आं. घ.	२
रे.	अं. घ.	२	उच्चि.	आं. घ.	२

टीका—ज्येष्ठा, आश्लेषा  
और रेवती इनके अंतकी २  
घटि, मूळ, मघा और अ

श्विनीके आदिकी २ घटि शुभकार्यमें अशुभ हैं ॥ २६ ॥

मीनवृश्चिककर्काते घटिकार्धं परित्यजेत् ॥

आदौमेषस्यचापस्यसिंहस्यघटिकार्द्धकम् ॥२७॥

अथ लग्नगण्डांतियत्रम्.					
१२	अ. पल.	३०	१	आ. पल.	१.
८	अ. पल.	३०	६	आ. पल.	१
४	अ. पल.	३०	११	आ. पल.	१.

टीका—मीन, वृश्चिक,  
कर्कके अंत और धन,  
सिंहके आदिकी आधी-

घटीमें शुभकार्य न कीजे ॥ २७ ॥ इति लग्नगण्डांतम् ॥

तिथिगंडे भगंडेच लग्नगंडे च जातकः ॥

नजीवतियदाजातो जीविते च धनी भवेत् ॥ २८ ॥

टीका—तिथि, नक्षत्र व लग्नके गण्डांतमें जन्मै तो न जीवै.  
यदि जीवै तो धनी होय ॥ २८ ॥ इतिगण्डांतफलम् ॥

सप्तम्यांचरवेर्वारे बुधश्चप्रतिपदिनम् ॥

संवर्त्ताख्यस्तदायोगोवर्जनीयः सदाबुधैः ॥ २९ ॥

टीका—सतै रविको परै वा बुधको प्रतिपत्तिथि आवै तौ सबर्ताख्य योग कहिये, सो शुभ कार्यको वर्जित है ॥ २९ ॥ इति संवर्ताख्ययोगः ॥

शुक्रेनंदाबुधेभद्राशनौ रिक्ताकुजेजया ॥

गुरौपूर्णातिथिर्ज्ञेयासिद्धियोगउदाहृतः ॥१३०॥

अथ सिद्धियोगार्थत्रयम्					
शु	बु	घ	म	गु	वार.
१	२	४	३	५	तिथि
६	७	९	८	१०	तिथि
११	१२	१४	१३	१५	तिथि

टीका—शुक्रे नंदा, बुधे भद्रा, शनौ रिक्ता, भौमे जया और गुरौ पूर्णा तिथि होइ तौ सिद्धियोग कहिये. यह शुभकार्यको सिद्धिप्रद

है ॥ १३० ॥ इति सिद्धियोगः ॥

विष्कंभःप्रीतिरायुष्मान्सौभाग्यःशोभनस्तथा ॥

अतिगंडःसुकर्माचधृतिः शूलस्तथैवच ॥ ३१ ॥

गंडोवृद्धिर्ध्रुवश्चैवव्याघातोहर्षणस्तथा ॥

वज्रंसिद्धिर्व्यतीपातो वरीयान्परिघःशिवः ३२

सिद्धःसाध्यःशुभःशुक्रो ब्रह्मा ऐंद्रोथवैधृतिः ॥

सप्तविंशतिराख्यातानामतुल्यफलप्रदाः ॥३३॥

टीका—विष्कंभ १, प्रीति २, आयुष्मान् ३, सौभाग्य  
 ४, शोभन ५, अतिगंड ६, सुकर्मा ७, धृति ८, शूळ ९,  
 गंड १०, वृद्धि ११, ध्रुव १२, व्याघात १३, हर्षण १४,  
 वज्र १५, सिद्धि १६, व्यतीपात १७, वरीयान् १८, परिष  
 १९, शिव २०, सिद्ध २१, साध्य २२, शुभ २३, शुक्र २४,  
 ब्रह्मा २५, ऐंद्र २६, वैधृति २७ ये योग अपने नामतुल्य  
 फलप्रद हैं ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ इति योगफलम् ॥

तिथितुद्विगुणीकृत्वाहीनमेकेनकारयेत् ॥

सप्तभिस्तुहरेद्भागशेषकरणमुच्यते ॥ ३४ ॥

ववश्चवालवश्चैवकौलवस्तैतिलस्तथा ॥

गरश्चवणिजोविष्टिःसप्तैतेकरणानिच ॥ ३५ ॥

कृष्णपक्षेचतुर्दश्यांशकुनिःपश्चिमेदले ॥

चतुष्पादश्चनागश्चाग्निमावास्यादलद्वये ॥ ३६ ॥

शुक्रप्रतिपदायांचकिंस्तुमःप्रथमेदले ॥

स्थिराण्येतानिचत्वारिकरणानिजगुर्बुधाः ॥ ३७ ॥

शुक्लप्रतिपदांते च ववाख्यः करणो भवेत् ॥

एकादशश्च विज्ञेयाश्चरस्थिरविभागतः ॥ ३८ ॥

टीका—शुक्लप्रतिपदादिगततिथि वर्तमानतिथिसमेत दूनी करके एक घटायें सातको भाग दीजे जो अंक बचै सो करण जानिये ॥ ३४ ॥ वव, वाख्य, कौलव, तैत्तिल, गर, वणिज, विष्टि, ये सात करण चरसंज्ञक कहिये ॥ ३५ ॥ कृष्ण चौदशीको अंतदल शकुनीनाम करण कहिये और अमावास्याके पूर्वदलको चतुष्पदकरण तथा अंतदलको नाग नाम कहिये ॥ ३६ ॥

शुक्लप्रतिपदाके पूर्वदलको किंस्तुम नाम करण कहिये इन चारोंको बुधजन स्थिर कहते हैं. १ के अंतदलको वव कहें, ये ग्यारह करण चर स्थिर विभाग करि जानिये ( कृष्ण १ के पूर्वदलमें वालव धरये प्रमसे कृष्ण चतुर्दशीके पूर्वदलतक फिरि शुक्ल प्रतिपदाके अंतदलमें वव धरिये या प्रमसो सदा भोगते हैं ) ॥ ३७ ॥ ३८ ॥

इति परणानि ॥



कृष्णपक्षकरणानि.			
८	पूर्वख.	शं. दल.	शं. दल.
९	चतुष्पा.	गोण.	गोण.
१०	विष्टि.	शङ्कति.	शङ्कति.
११	गारज.	वधि.	वधि.
१२	कौत्स्य.	शैतिल.	शैतिल.
१३	धव.	वाल.	वाल.
१४	वधि.	विष्टि.	विष्टि.
१५	शैतिल.	गारज.	गारज.
१६	वाल्य.	कौत्स्य.	कौत्स्य.
१७	विष्टि.	धव.	धव.
१८	गारज.	वधि.	वधि.
१९	कौत्स्य.	शैतिल.	शैतिल.
२०	धव.	वाल्य.	वाल्य.
२१	वधि.	विष्टि.	विष्टि.
२२	शैतिल.	गारज.	गारज.
२३	वाल्य.	कौत्स्य.	कौत्स्य.
२४	विष्टि.	धव.	धव.
२५	गारज.	वधि.	वधि.
२६	कौत्स्य.	शैतिल.	शैतिल.
२७	धव.	वाल.	वाल.
२८	वधि.	विष्टि.	विष्टि.
२९	शैतिल.	गारज.	गारज.
३०	वाल्य.	कौत्स्य.	कौत्स्य.
३१	विष्टि.	धव.	धव.
३२	गारज.	वधि.	वधि.
३३	कौत्स्य.	शैतिल.	शैतिल.
३४	धव.	वाल्य.	वाल्य.
३५	वधि.	विष्टि.	विष्टि.
३६	शैतिल.	गारज.	गारज.
३७	वाल्य.	कौत्स्य.	कौत्स्य.
३८	विष्टि.	धव.	धव.
३९	गारज.	वधि.	वधि.
४०	कौत्स्य.	शैतिल.	शैतिल.
४१	धव.	वाल्य.	वाल्य.
४२	वधि.	विष्टि.	विष्टि.
४३	शैतिल.	गारज.	गारज.
४४	वाल्य.	कौत्स्य.	कौत्स्य.
४५	विष्टि.	धव.	धव.
४६	गारज.	वधि.	वधि.
४७	कौत्स्य.	शैतिल.	शैतिल.
४८	धव.	वाल्य.	वाल्य.
४९	वधि.	विष्टि.	विष्टि.
५०	शैतिल.	गारज.	गारज.
५१	वाल्य.	कौत्स्य.	कौत्स्य.
५२	विष्टि.	धव.	धव.
५३	गारज.	वधि.	वधि.
५४	कौत्स्य.	शैतिल.	शैतिल.
५५	धव.	वाल्य.	वाल्य.
५६	वधि.	विष्टि.	विष्टि.
५७	शैतिल.	गारज.	गारज.
५८	वाल्य.	कौत्स्य.	कौत्स्य.
५९	विष्टि.	धव.	धव.
६०	गारज.	वधि.	वधि.
६१	कौत्स्य.	शैतिल.	शैतिल.
६२	धव.	वाल्य.	वाल्य.
६३	वधि.	विष्टि.	विष्टि.
६४	शैतिल.	गारज.	गारज.
६५	वाल्य.	कौत्स्य.	कौत्स्य.
६६	विष्टि.	धव.	धव.
६७	गारज.	वधि.	वधि.
६८	कौत्स्य.	शैतिल.	शैतिल.
६९	धव.	वाल्य.	वाल्य.
७०	वधि.	विष्टि.	विष्टि.
७१	शैतिल.	गारज.	गारज.
७२	वाल्य.	कौत्स्य.	कौत्स्य.
७३	विष्टि.	धव.	धव.
७४	गारज.	वधि.	वधि.
७५	कौत्स्य.	शैतिल.	शैतिल.
७६	धव.	वाल्य.	वाल्य.
७७	वधि.	विष्टि.	विष्टि.
७८	शैतिल.	गारज.	गारज.
७९	वाल्य.	कौत्स्य.	कौत्स्य.
८०	विष्टि.	धव.	धव.
८१	गारज.	वधि.	वधि.
८२	कौत्स्य.	शैतिल.	शैतिल.
८३	धव.	वाल्य.	वाल्य.
८४	वधि.	विष्टि.	विष्टि.
८५	शैतिल.	गारज.	गारज.
८६	वाल्य.	कौत्स्य.	कौत्स्य.
८७	विष्टि.	धव.	धव.
८८	गारज.	वधि.	वधि.
८९	कौत्स्य.	शैतिल.	शैतिल.
९०	धव.	वाल्य.	वाल्य.
९१	वधि.	विष्टि.	विष्टि.
९२	शैतिल.	गारज.	गारज.
९३	वाल्य.	कौत्स्य.	कौत्स्य.
९४	विष्टि.	धव.	धव.
९५	गारज.	वधि.	वधि.
९६	कौत्स्य.	शैतिल.	शैतिल.
९७	धव.	वाल्य.	वाल्य.
९८	वधि.	विष्टि.	विष्टि.
९९	शैतिल.	गारज.	गारज.
१००	वाल्य.	कौत्स्य.	कौत्स्य.

## शुक्लपक्षकरणानि.

दक्षोनलयमोधाताचंद्रोरुद्रोदितिर्गुरुः ॥  
 भुजंगमश्रुपितरोभगोऽर्यमदिवाकरौ ॥ ३९ ॥  
 त्वष्टावायुःशक्रवह्नीमित्रः शक्रश्चनिर्ऋतिः ॥  
 जलं विश्वे विधिर्विष्णुर्वासवो वरुणस्तथा १४०

अजैकपादहिर्बुध्न्यःपूर्वेति कथिता बुधैः ॥

अष्टाविंशतिसंख्यानां नक्षत्राणामधीश्वराः ॥ ४१ ॥

टीका—अश्विनी अश्विनीकुमार, भरणी यम, कृत्तिका अग्नि, रोहिणी ब्रह्मा, मृग चंद्रमा, आ० रुद्र, पुन० अदिति, पुष्य गुरु, आश्ले० सर्प, म० पितर, पू. फा. भग, उ. फा. अर्यमा, ह० सूर्य, चि० त्वष्टा, स्वा० वायु, वि० इंद्राग्नी, अनुराधा मित्र, ऋ० इंद्र, मू० राक्षस, पु० पा० जल, उ० पा. चिन्वेदेव, अभि० चिधि, श्र० विष्णु, ध० वासव, श० वरुण, पू. भा. अजैकपाद्, उ. भा. अहिर्बुध्न्य और रे० पूषा ये नक्षत्रनके स्वामी कहिये. जिस देवताकी प्रतिष्ठापूजाकरै ताको वह नक्षत्रलीजे ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१ ॥

इति नक्षत्रपतयः

# अथ नक्षत्रदेवताकोष्टकम् ।

( १ )

नक्षत्र.	अ.	भ.	कु.	रो.	मृ.	भा.	पु.	पु.	ऽऽके.	म.	पू.	उ.	ह.	सि.
संख्या.	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
देवता.	अग्नि.	यम.	अग्नि.	भस्मा.	चंद्रमा.	रुद्र.	शक्ति.	बृह.	सर्व.	शिव.	गण.	अर्य.	सूर्य.	तारा.

( २ )

नक्षत्र.	स्वा.	वि.	अ.	उजे.	मृ.	पू.	उ	ऽभि.	श्र.	ध.	श.	पू.	उ.	रु.
संख्या.	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८
देवता.	वायु.	इंद्राग्नि.	मित्र.	इंद्र.	राक्षस.	जलद.	विश्वदेव.	विधि.	विष्णु.	धनु.	शुक्र.	अश्वि.	अश्वि.	पृथ्वि.

इति श्रीकाशीनाथभट्टाचार्यविरचिते श्रीप्रबोधसंग्रह  
 नक्षत्रकरणं नाम द्वितीयकरणं संपूर्णम् ॥ २ ॥

## अथ तृतीयप्रकरणप्रारंभः ।



शिरोमुखंकर्णनेत्रंस्पृष्ट्वा पृच्छति यो नरः ॥  
 सुवर्णधनधान्यानांलाभस्तत्रनसंशयः ॥ १ ॥  
 स्कंधग्रीवाकंठहस्तस्पर्शेलाभो हि दुःखतः ॥  
 कुक्षिनाभिसमालंभे भक्ष्यपानादि सिद्ध्यति ॥ २ ॥  
 जंघालिंगकटिस्पर्शेकन्यालाभः सुतोद्भवः ॥  
 जानुगुल्फपदस्पर्शमहाकेशः प्रजायते ॥ ३ ॥  
 केशस्पर्शे भवेन्मृत्युः फलस्पर्शेशुभं भवेत् ॥  
 तृणांगारकसंस्पर्शे कार्यसिद्धिर्न जायते ॥ ४ ॥  
 काष्ठपंकपटस्पर्शे ग्रहपीडाभयं भवेत् ॥  
 सुगंधमद्यभांडादिस्पर्शे सिद्धिः प्रजायते ॥ ५ ॥  
 शून्यालयेऽमशाने च शुष्ककाष्ठक्षते तरो ॥  
 गुल्फभस्माधमस्थाने प्रश्लेकेशः प्रजायते ॥ ६ ॥

देवगृहेनदीतीरेदिव्यस्थानेशुभंभवेत् ॥

शुभंदिक्ष्वीरितं सिद्धिर्विदिक्षुचनजायते ॥ ७ ॥

टीका—जो मश्र पूछै तो माथे, मुख, कान, नेत्र, अपने हाथ छुए होय तो नि संदेह धनधान्य पावै. कंध, ग्रीवा, कंठ, हात छुए होंय तो लाभ दुःखते होय. कोख, नाभी छुए तो भोजनादिक पावै. जांघ, लिंग, कटि छुए तो कन्या व पुत्र होय. जानु,गोडा, पांव छुए तो महाकेश पावै. केश छुए तो मृत्यु होय फल छुए शुभ हो. तृण आग्निसे सिद्धि न हो. काष्ठ, कीच, वस्त्र, छुए अशुभ होय. सुगंध वा मद्यपात्र छुए सिद्धि होइ और शून्यग्रह, मसान, सूखे काष्ठपर, घायल तरुच्छताविषे, भस्मपै बैठ पूछे तो क्लेशपावै ॥१॥२॥३॥४॥५॥६॥ देवस्थान, नदीकेतीर, पवित्रठोरमें और शुद्ध दिशानके सन्मुख व्हे पूछै तो शुभकहै जो विदिशा व्हेके पूछै तो अशुभ है ॥ ७ ॥ इत्यगस्पर्शनादिमश्रः ।

तिस्रोमीनेचमेपे च घटीपंचश्रुतिः फलम् ॥

चतस्रश्चवृपेकुंभेपलाः प्रोक्ताश्चपोडश ॥ ८ ॥

मिथुनेमकरेपंचघटिकाविशिखाः पलं ॥  
 पंचककेंचचापेचशशिवेदाः पलाःस्मृताः ॥९॥  
 कन्यांपंचतुलेपंचपलाश्चंद्रस्तथाशयः ॥  
 घटिकाः पंचसिंहेऽलौद्रयवेदाःपलाः स्मृताः ॥  
 एवं लग्नप्रमाणं स्यात्कथितंपूर्वसूरिभिः ॥ १० ॥

टीका—मीन मेष ३।४५ वृषभ कुंभ ४।१६ मिथुन  
 मकर ५।२ कर्क ५।४१ कन्या तुला ५।३१ और सिंह  
 वृश्चिक ५।४२ यह प्रकार लग्नप्रमाण पंडित कहते  
 हैं ॥ ८ ॥ ९ ॥ १० ॥

सूर्योधेनुश्चताम्रं च गोधूमं रक्तचंदनम् ॥  
 चंद्रेशं खंचंदनं च वस्त्रं चासिततंडुलाः ॥ ११ ॥  
 कुजे वृषः मदात्तव्योरक्तवस्त्रं गुडोदनम् ॥  
 बुधे कर्पूरमुद्गाश्च हरिद्राश्च हरिन्मणिः ॥ १२ ॥  
 पीतवस्त्रद्रयं जीवे हरिद्रा च णकानि च ॥  
 अश्वःशुक्रे सितो देयःशुक्रधान्यानि यानि च १३

शनौतैलंतिलादेयाःकृष्णगोदानमुत्तमम् ॥  
 राहोश्चमहिषीछागौ माषाश्चतिलसर्षपाः ॥१४॥  
 अजमेषौचदातव्यौकेतौचान्यच्च मिश्रितम् ॥  
 स्वर्णगोविप्रपूजाभिःसर्वेषांशान्तिरुत्तमा ॥१५॥

टीका—सूर्यको लालगाई, तांबा, गेहूं और रक्त-  
 चंदन. चंद्रको शंख, चंदन, श्वेतवस्त्र, श्वेतचावल.  
 भौमको वृषभ, रक्तवस्त्र, गुदौदन. बुधको कर्पूर, मंग,  
 हरदी, हरित् मणि. बृहस्पतिको पीतवस्त्र दो, हरदी,  
 चनाकी दाल. शुकको श्वेत घोडा, श्वेत धान्य. शनिको  
 तेल, तिल, काली गाई. राहुको भैंसी, बकरा, उदद,  
 तिल सरसों. केतुको बकरा, मूँदा, सतनजा और जौ,  
 सोना, गेहूं, ब्राह्मणपूजा इत्यादिक सर्व ग्रहनके दोष-  
 की शान्ति करते हैं ॥ ११ ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥  
 इति ग्रहदानानि ॥

मेपेगुरौसुभिक्षंचसुवृष्टिश्चसुखानरः ॥ १६ ॥  
 वृपेगुरौस्वल्पवृष्टिःप्रजापीडाचविग्रहः ॥  
 अनावृष्टिःप्रजाऽनाथावैरंचमिथुनेगुरौ ॥ १७ ॥

कर्केगुरौमहावृष्टिर्देशभंगोमहर्घता ॥

सिंहे गुरौसुभिक्षंचसुवृष्टिश्चप्रजासुखम् ॥ १८ ॥

कन्यागुरौरोगपीडासुभिक्षंसस्यजन्मच ॥

तुलेगुरौसस्यनाशोवहुक्षीरंप्रजायते ॥ १९ ॥

अलौजीवेचदुर्भिक्षंराजचौरोरगाद्भयं ॥

चापेगुरौशुभावृष्टिः शुभं सस्यमहर्घता ॥ २० ॥

दुर्भिक्षंमकरेजीविराजयुद्धंपशुक्षयः ॥

कुंभेगुरौचदुर्भिक्षंघातुमूलमहर्घता ॥ २१ ॥

दुर्भिक्षंदक्षिणेदेशेऽपेजीवेनचान्यगे ॥ २२ ॥

टीका — जय मेपराशीमें बृहस्पति आर्व तत्र सुभिक्ष होय, वर्षा अधिक होय, मनुष्य सुखी रहे और वृपराशीमें बृहस्पति आर्व तौ वर्षा ओली होइ, मजाकी पीडा होइ, विग्रह फलै, मिथुनको बृहस्पति आर्व तत्र वर्षा अनि ओली होई, वर बटे, मजाकी पीडा होइ. कर्क सब स्थानमें बृहस्पति



आवै तौ वर्षा बहुत होइ, देशभंग होइ. अन्न महंगा होइ. सिंहको बृहस्पति होइ तौ सुभिक्ष करै, वर्षा अधिक होइ, प्रजा सुखी रहै कन्याके गुरु होई तौ रोगपीडा, धान्योत्पत्ति और अन्न सस्ता होइ तुलाके गुरु खेतीनाश और दूध बहुत करै. वृश्चिकके राजचोरभय. दुर्भिक्ष करै. धनके गुरु वर्षा खेती बहुत करै और रस महंगो करै. मकरके महादुर्भिक्ष, राजनको युद्ध और पशुनका नाश करै कुम्भके गुरु दुर्भिक्ष, धातु महंगी करै तथा मीनके गुरु दक्षिण देशमे दुर्भिक्ष करै; अन्यदेशमें नहीं ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ इति द्वादशराशिगतगुरुफलम् ॥

मार्गकार्तिकसंक्रांतौ वृष्टिर्वर्षति मध्यमा ॥

पौषेमाघेनृणांसौख्यं सस्यपूर्णा वसुंधरा ॥२३॥

चैत्रफाल्गुनवैशाखज्येष्ठानांसंक्रमेधनः ॥

यदिवर्षतिसर्वत्रसुभिक्षंचप्रजासुखं ॥ २४ ॥

आषाढेसंक्रमेवृष्ट्येन्याधिश्चश्रावणेसुखम् ॥

भाद्रेचवहवोरोगाः सुखंसर्वत्रचाश्विने ॥ २५ ॥

इत्येषावपिसंक्रांतौ वृष्टिश्चापिशुभाशुभम् ॥ २६ ॥

टीका—जो मार्गशीर्षिकातिंकी संक्रातिमें वृष्टिपरै तो वर्षाऋतुमें मध्यम वर्षा होइ. पौष माघमें संक्रातिदिन मेघ वर्षे तो पृथ्वी ( प्रजा ) सुखी रहै और सब अन्नकी अधिक उत्पत्ति होई. चैत्र, फाल्गुन, वैशाख और ज्येष्ठमें संक्रातिदिन मेघ वर्षे तो सर्वत्र सुभिक्ष रहै और प्रजा सुखी रहै. आपाठमें संक्रातिके दिन जल वर्षे तो प्रजाको रोग अधिक होय. श्रावणमें संक्रातिके दिन जल वर्षे तो प्रजाको अधिक सुख होय. जो भादोंमें संक्राति दिन मेघ वर्षे तो अनेक रोग होजाय और जो कारमें संक्रातिको जल वर्षे तो आनंद हो. इन द्वादश संक्राति राशिमासको संबंध नहीं इनहीको फल कहिये ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ इति मासे संक्रातिवृष्टिफलम् ॥

चैत्रस्यशुक्लपंचम्यांपूर्वेवायुर्धनागमः ॥

भाद्रेगुणत्रयेमौल्यंरसानाजायतेतदा ॥ २७ ॥

ज्येष्ठस्यशुक्लपंचम्यांवृष्टौपश्चिममारुतः ॥  
 तदाचतुर्गुणंमौल्यंधान्यानांकार्तिकेभवेत् ॥२८॥  
 श्रावणेशुक्लपंचम्यांवृष्टिर्वातोदिनद्वयम् ॥  
 दक्षिणेपश्चिमेद्भेयंदुर्भिक्षंधान्यसंक्षयः ॥ २९ ॥  
 चित्रास्वातीविशाखायांश्रावणेचैववर्षति ॥  
 सर्वरत्नंपरित्यक्त्वाकर्तव्यश्चान्नसंचयः ॥ ३० ॥

टीका—अब शुक्लपंचमीका फल कहते हैं, जो चैत्र शुक्ल-  
 पंचमीको वायु पूर्व चले और मघ वर्षे तो भादोंमें रस,  
 गोरस, घृत, तिगुने मोल विकें. जो ज्येष्ठशुक्ल पंचमीको  
 पश्चिमपौन चले मघ वर्षे तो कार्तिकमें अन्न चौगुने मोल विकें.  
 जो श्रावणशुक्लपंचमीको दो दिन पौन चले मघ वर्षे तो  
 दक्षिण पश्चिममें फाल धान्यक्षय होवे ॥ २७ ॥ २८ ॥

२९ ॥ जो चैत्र श्रावणमें चित्रा, स्वाती, विशाखा नक्षत्र  
 पर वर्षे तो सर्व रत्न बेचके अन्न संचय कीजै ॥ ३० ॥  
 इति नक्षत्रवृष्टिः ॥

आपाढपूर्णमायांचेदनिलोवातिनिर्ऋतौ ॥  
 अनावृष्टिर्धान्यनाशोजलंकूपे न दृश्यते ॥३१॥

आपाढपूर्णिमायां तु वायव्योयदिमारुतः ॥  
 धर्मासिद्धिस्तदालोकेधनधान्यगृहेगहे ॥ ३२ ॥  
 आपाढपूर्णिमायां तु ईशाने वाति मारुतः ॥  
 सुखिनोहितदालोका गीतवाद्यपरायणाः ॥ ३३ ॥  
 वह्निकोणे वह्निभीतिः पश्चिमेव जलाद्भयम् ॥  
 अन्यत्र यदिवायुः स्यात्सुभिक्षं जायतेतदा ॥ ३४ ॥  
 सर्वमासे पूर्णिमायां भूमिकंपोयदा भवेत् ॥  
 उल्कातारावज्रपातैर्ग्रसितौ शशिसूर्यको ॥ ३५ ॥  
 धूम्रकेतुः शुक्रचापग्रहणे बहुधा तथा ॥  
 तदाऽसौ सर्ववस्तूनां जायते च महर्घता ॥ ३६ ॥

टीका—आपाढके पूर्णिमाको नैर्ऋत पौन वहै ती वर्षा  
 थोरी होय और धान्य थोरे उपजै, कृप सुख जाइ. आपाढ  
 पूर्णिमाको वायव्य पौन चलै ती लोक धर्मशील रहै और  
 धनधान्य होइ. ईशान मारुत वहै ती लोक सुख आनंदसौ  
 रहै और जो आग्नेय पौन चलै ती अभिभय होइ. पश्चिम पौन  
 चलै ती जलभय होइ. जो और दिशनकी पौन चलै ती

सुभिक्ष होइ. पौर्णिमाको भूमि कंपै, दिनमें तारा टूटै, उल्कापात, वज्रघात और चंद्रसूर्य ग्रसै वा केतु उदै वा इंद्रधनुष उदै तौ सब वस्तु महंगी होजाय, ग्रहणमें तौ अवश्य होजाय ॥ ३१ ॥  
३२॥३३॥३४॥३५॥३६॥ इत्युत्पाताः ॥

आपाठे शुक्लपंचम्यांद्वितीयायां च वर्षति ॥  
यदिमेघस्तदावृष्टिःश्रावणेजायते ध्रुवम् ॥ ३७ ॥  
तृतीयायांपूर्ववायुःपूर्वेयातिचवारिदः ॥  
यदिव्योम्नितदाभाद्रेवर्षतिविपुलंजलम् ॥ ३८ ॥  
चतुर्थ्यादक्षिणेवायुर्मेघःपूर्वे च गच्छति ॥  
आश्विनेचयदामासेवृष्टिर्भवतिनिश्चितम् ॥ ३९ ॥

श्रीका—आपाठशुक्लपंचमी वा द्वितीयाको मेघ वर्षे तौ श्रावणमें विशेष वर्षे और ज्येष्ठ ३ को पूर्वको पवन पूरव बहकर मेघ पूर्व आकाशमें जाइ तौ भादोंमें जल ज्यादा वर्षे. जो ४ को पौन दक्षिणदिशा चले और पूर्वको मेघ जाय तौ कारमें विशेष वर्षे ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥

पंचम्यामुत्तरे वायुर्दृश्यते च यदा बुधैः ॥  
 तदा च कार्तिकेमासेवृष्टिर्भवतिभूयसी ॥ ४० ॥  
 चतुष्टयेचादिवसेयदावर्षतिवारिदः ॥  
 अतिवृष्ट्याचदुर्भिक्षंजायतेनात्रसंशयः ॥ ४१ ॥  
 दिनद्वयंयदावाताचांतिदक्षिणपश्चिमे ॥  
 तदानश्यंतिधान्यानिदुर्भिक्षंचप्रजायते ॥ ४२ ॥  
 तृतीयायांचपंचम्यांवायुःपूर्वोत्तरेयदि ॥  
 तदाधान्यानिजायंतेसर्वकृतयुगोपमम् ॥ ४३ ॥

टीका—जो आपाद शुरुपंचमीको उत्तर पौन वैश्वी  
 कार्तिकमें अधिक वर्षे, जो आपादही २३।४।५ को वर्षे तो  
 पृथ्वीपर अतिवृष्टिमें दुर्भिक्ष पै, जो आपाद सुदी २३ को  
 पौन दक्षिणसे पश्चिमको जावे तो धान्यका नाश होइ और  
 दुर्भिक्ष पै, जो आपाद सुदि ३।५ को पूरव वा उत्तरकी  
 पौन चलै तो बहुत अन्नमृदि हो और सतयुगके समान  
 मर्ब होजाय ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ इत्यापादे  
 द्वितीयादिनचतुष्टयफलम् ४०

पौषेमूलभरण्यतंचंद्रचारेनगर्जति ॥  
 आर्द्रादितोविशाखांतंसूर्यऋक्षेनवर्षति ॥ ४४ ॥  
 यदितिष्ठतिभौमस्यक्षेत्रेकोपिग्रहस्तदा ॥  
 ऋतुमासास्तुधान्यानांजायतेचमहर्घता ॥ ४५ ॥  
 शुक्रक्षेत्रेकुजेमासद्वयंनून महर्घता ॥  
 चंद्रेचादिननाथेचसर्वरोगःशुभंतथा ॥ ४६ ॥  
 शनौराहौसर्वधान्यंसमर्घराजविग्रहः ॥  
 बुधक्षेत्रेरवौचंद्रेविरोधःसर्वभूभुजाम् ॥ ४७ ॥  
 उत्पत्तिस्तुसुधान्यानांपंचमासंप्रजायते ॥  
 सुभिक्षंतुमहावृष्टिःपशूनांतृणसंकुलम् ॥ ४८ ॥

टीका—जो पौषमासमें मूल भरणीपर्यंत चंद्रनक्षत्र  
 नमें वादर न होय तो आर्द्रासे विशाखालाई सूर्यनक्षत्र  
 वर्ष जो भौमके क्षेत्रमें कोऊ ग्रह हो तो ६ मासतक  
 चावल महंगे रहें जो शुक्रके क्षेत्रमें भौमका उदय हो  
 तो २ मास महंगा रहें. जो चंद्रमा अथवा सूर्य उदय

करै तौ रोग करै परंतु क्षेम रहै. शनि वा राहु उदय करै तौ रोग करै, परंतु क्षेम रहै. जो शनि वा राहु उदय करै तौ सर्वाज्ञ महंगो होय और राजविग्रह करै. जो बुधके क्षेत्रमें चंद्र सूर्य उदय होयें तौ राजनमें विरोध करै, पांच मासमें धान्य उपजै, अतिवृष्टि करै और पशुनको वृण बहुत होय ॥ ४४॥४५॥४६॥४७॥४८ ॥

शुक्रक्षेत्रेषु बुधश्चंद्रश्चंद्रक्षेत्रेषु भृगोः सुतः ॥

पापंडिनां भवेद्दृष्टिर्धान्यानां च महर्घता ॥ ४९ ॥

बुधक्षेत्रेषु शनौ चंद्रे सप्तधान्यमहर्घतरं ॥

शुक्रक्षेत्रेषु गुरौ भौमे कार्पासादिमहर्घता ॥ ५० ॥

भौमक्षेत्रेषु शनौ राहुस्ताम्रादीनां महर्घता ॥

शनिक्षेत्रेषु शनी राहुः सुभिक्षं चंद्रभास्करे ॥ ५१ ॥

पशुनाशो धान्यवृद्धिर्गुडादीनां महर्घता ॥

गुरुक्षेत्रेषु शनौ राहौ स्वल्पवृष्टिस्तृणक्षयः ॥ ५२ ॥

भौमे राज्ञां विरोधः स्याद्बुधे वृष्टिश्च भूयसी ॥

तृणवृद्धिः पशूनां च सौख्यं धान्यं वह्निति च ॥ ५३ ॥



भौमक्षेत्रेयदासंतिराहुभौमार्कभार्गवाः ॥

षण्मासंगुडकार्पासघृतक्षीरमहर्षता ॥ ५४ ॥

मंदक्षेत्रेयदासंतिमंदराहुबुधास्तथा ॥

चतुष्पदानानाशश्चद्विपदानांचजायते ॥ ५५ ॥

टीका-जो शुक्रकी राशिमें बुध व चंद्रमा हो और चंद्रमाकी राशिमें शुक्र हो तो पापंड वरुँ और अन्न महंगा होइ. बुधके ग्रहमें शनि वा चंद्रमा हो ती सातौ अन्न महंगे विकै. शुक्रके घरमें गुरु वा भौम हो ती कपासादि नीरस महंगे विकै जो भौमके घर शनि वा राहु हो ती ताम्रादिधातु महंगी विकै. जो शनिके घरमें शनि, राहु हो ती सुभिस होइ. जो सूर्यचंद्रके घरमें शनि, राहु हो ती पशु मरै. गुडादिक होइ और धान्य अधिक होइ. जो गुरुके घर शनि, राहु

ती स्वल्पवृष्टि और तृणादिक क्षय होइ. जो गुरुके क्षेत्रमें मंगल हो ती राजनमें विरोध होइ. जो गुरुके घरमें बुध हो ती वर्षा अधिक, तृण बहुत और पशुनको सुख होइ और धान्य विनाश होइ. भौमके घरमें राहु, भौम, सूर्य

वा शुक्र होय तौ ६ मासतक गुड, कपास घृत और  
 दुग्ध मङ्गे रहें और जो शनिके रविपे राहु, शनैश्वर  
 और बुध थे ग्रह स्थित हो तौ चोपायनका और द्विपद  
 जो पक्षी व मनुष्य उनका नाश होइ ॥ ४९ ॥ ५० ॥  
 ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥

भौमक्षेत्रेयदासंतिशुक्रमंदनिशाकराः ॥

तदामुक्तापशुनांचशंखस्यचमहर्घता ॥ ५६ ॥

भौमक्षेत्रेभार्गवश्चधान्यानांचमहर्घता ॥

शनिक्क्षेत्रे रवौ चंद्रे वस्त्राणांचमहर्घता ॥ ५७ ॥

शुक्रक्षेत्रे गुरुभौमः प्रजापीडाप्रजायते ॥

ग्रहराशिसमायोगे फलमेतत्प्रकीर्तितम् ॥ ५८ ॥

चंद्रोदये कुजक्षेत्रे तु पधान्यस्य वृद्धये ॥

चंद्रोदये भृगुक्षेत्रे स्वल्पवृद्धिः क्रयाणके ॥ ५९ ॥

प्रजापीडा बुधक्षेत्रे सोमशुक्रोदयो भवेत् ॥

रविक्षेत्रे तुला वृद्धिः शनिसोमभृगुदये ॥ ६० ॥

चंद्रक्षेत्रेशुक्रचंद्रबुधानामुदयोभवेत् ॥  
 पण्मासंस्याच्चतुर्भिक्षमतिवृष्टिश्चजायते ॥ ६१ ॥  
 उदितौचबुधक्षेत्रेयदिराहुशनैश्वरौ ॥  
 पशुक्षयःप्रजापीडाधान्यानांचमहर्घता ॥ ६२ ॥  
 शुक्रक्षेत्रेसोमसूर्यसूर्यपुत्रादयोयदा ॥  
 उदयास्तमहापीडाजायतेचमहर्घता ॥ ६३ ॥

टीका—जो भौमक्षेत्रमें शुक्र, शनि और चंद्रमा उदय करें तौ क्रमसे मोती, शंख और पशु महंगा हो जाय जो भौमक्षेत्रमें शुक्र उदय करे तौ अन्न महंगा होइ. शनि क्षेत्रमें रवि, चंद्रके उदयसे वस्त्र महंगे होयँ उसमेंभी अरुण पीत अवदय. जो शुक्रक्षेत्रमें गुरु वा भौम उदय करे तौ प्रजाको पीडा होइ और ग्रहराशिको योग परे तौ ऐसे फल करै. जो भौमक्षेत्रमें चंद्रोदय हो तौ धान्यवृद्धि करै. शुक्रके क्षेत्रमें चंद्रोदय हो तौ खरीद करनेवालेको स्वल्प वृद्धि करै. जो बुधके क्षेत्रमें चंद्र व शुक्र उदय करे तौ प्रजाको पीडा करै, जो रविक्षेत्रमें शनि व चंद्र उदय करे तौ ताँत्र बदे. जो चंद्रक्षेत्रमें शुक्र, चंद्र, बुध उदय करे तौ छमाम दुर्भिक्ष

रहै और वर्षा अधिक होइ. जो बुधके क्षेत्रविषे राहु और शनिश्वरको उदय हो तौ पशुनकी क्षय होइ और प्रजाको पीडा होइ और अन्न महंगा होइ और शुक्र क्षेत्रमें बुध, सूर्य और शनि उदय करे तौ उदयसे अस्तपर्यंत संसारपीडा होइ और अन्न महंगा होइ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ॥ ६० ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ ६३ ॥

यदोदयःशनिक्षेत्रेभौमभास्करयोर्भवेत् ॥

घृतानांचतदावृद्धिर्गुडानांचमहर्घता ॥ ६४ ॥

यदासावुदितश्चैवशनिक्षेत्रेशनैश्वरः ॥

तदाऽसौतृणकाष्ठानालोहानांचमहर्घता ॥ ६५ ॥

टीका—जो शनिके क्षेत्रमें सूर्य भौमको उदय हो तौ घृतकी वृद्धि होइ; रक्त वस्त्र तथा मांगलीकवस्तु सब सस्ती हो जावे तथा गुडादि महंगे होयें. जो शनिक्षेत्रमें शनिवदय होइ तौ तृण, काष्ठ, लोह महंगे होयें ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ॥ इतिप्रश्न ॥

आर्द्रायांतुयदाभौमः शनिरग्नेस्तथा भवेत् ॥

बुधोभाद्रेच दुर्भिक्षं सुभिक्षं भृगुनंदने ॥ ६६ ॥

गुरुर्यदाविशाखायांतदाधान्यमहर्घता ॥  
 मंगलेवर्षकारश्चशनोसर्वत्रमंगलम् ॥ ६७ ॥  
 सुभिक्षंचानुराधायांयदिकोपिग्रहोभवेत् ॥  
 कल्याणंचसुभिक्षंचाऽश्लेषायांचस्थितेगुरौ ६८  
 कार्पासावहवोमंदेभौमेकटकपीडनम् ॥  
 बुधे तिलाश्चमाषाश्चमहर्घवर्षकालतः ॥ ६९ ॥  
 सूर्ये सर्वाणिधान्यानिमहार्घाणिभवंतिच ॥  
 शुक्रेच महती वर्षासस्यानि सकलानिच ॥७०॥

टीका—जो आर्द्राको भौम वा कृत्तिकाको शनि और  
 भाद्रपदाको बुध होइ तौ दुर्भिक्ष करै और जो शुक्र हो तौ  
 सस्ता होइ ॥ ६६ ॥ जो विशाखाके गुरु हो तौ अन्न महंगा  
 होइ; परंतु वर्षपर्यंत मंगल रहै, जो शनि हो तौ सर्वमंगल  
 विनोद होइ और मंगल कार्य होइ ॥ ६७ ॥ जो अनुराधाको  
 कोऊ ग्रह होइ तौ सुभिक्ष हो और जो ऽऽश्लेषाको गुरु हो तौ  
 प्रजाको कल्याण होइ और अन्नका सुभिक्ष होइ ॥ ६८ ॥ जो

आश्लेषाके शनि हो तौ कपास बहुत होई, जो भौम हो तौ  
 कौजको पीडा करै. आश्लेषाके बुध हो तौ वर्षतक तिल और  
 उदद मंहंगे हो जायें, जो आश्लेषाके सूर्य हो तौ अन्न मंहंगे  
 हों और जो आश्लेषाके शुक्र हो तौ वर्षा बहुत होइ और सकल  
 अन्न बहुत उत्पन्न होइ ॥ ६९ ॥ ७० ॥

मूलेकुलित्यमुद्गानांगुरोवृद्धिःप्रजायते ॥

भौमेमुद्गस्यनाशःस्याद्बुधेचसर्वसंपदः ॥ ७१ ॥

पूर्वापाठागतेभौमेपीडाचपशुपक्षिणाम् ॥

केतोमहर्घतामंदेजायतेचमहर्घता ॥ ७२ ॥

उत्तरापाठकेजीवेगुडानांचमहर्घता ॥

भौमे च पशुजातीनांजायतेचमहर्घता ॥ ७३ ॥

अभिजिन्नामनक्षत्रेयदाद्यायासुतोभवेत् ॥

सर्वसस्यानिजायंतेसुभिक्षंचकुजेतया ॥ ७४ ॥

श्रवणेच यदा जीवस्तदास्युः सर्वसंपदः ॥

बुधेराजसुतत्रासःशनीभूरिक्षुवारकः ॥ ७५ ॥

कृत्तिकायांचरोहिण्यांयदाजीवो हि तिष्ठति ॥  
 मध्यमानिचसस्यानितदावृष्टिश्चमध्यमा ॥ ७६ ॥  
 आर्द्रायांमृगशीर्षेचयदावाचस्पतिस्थितिः ॥  
 दुर्भिक्षंस्यादनावृष्टिःप्रजानांच सदाशिवम् ॥ ७७ ॥  
 फाल्गुनीद्वयहस्तेषु मघायांच यदा गुरुः ॥  
 सुभिक्षंचसुवृष्टिश्चप्रजानां स्यादरोगता ॥ ७८ ॥

टीका०—जो मूलको गुरु हो तो कुलित्थ और मूंग  
 बहुत होइ, जो भौम हो तो मूंगनाश होइ. बुध हो  
 तो सर्वसंपदा होइ ॥ ७१ ॥ जो पूर्वाषाढाको भौम हो  
 तो पशुपक्षिनको अति पीडा होई, केतु हो तो सब वस्तु  
 महंगी करें और तैसेही शनेश्वर करें ॥ ७२ ॥ जो उत्तराषा-  
 ढको गुरु हो तो गुड महंगा होइ भौम हो तो चौपायन  
 पशु महंगे होवें और जो अभिजितको शनि वा भौम हो  
 तो सर्वान्न उपजै और सुभिक्ष होइ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ श्रवणको  
 गुरु होइ तो सर्वसंपदा करें. बुध हो तो राजपुत्रनको  
 पीडा करें शनि हो तो ऊख छवारे अधिक होइ ॥ ७५ ॥  
 जो कृत्तिका वा रोहिणीको गुरु होई तो अन्न मध्यम

उपजै और वर्षा मध्यम होइ ॥ ७६ ॥ जो आर्द्रा तथा  
 श्रुगशिरके गुरु हो तौ दुर्भिक्ष होइ, थोरी वर्षा और प्रजाको  
 सदा अकल्याण होइ ॥ ७७ ॥ मघा, पूर्वा, उत्तराफाल्गुनी  
 और इस्त इन नक्षत्र पर गुरु हो तौ सुभिक्ष और आरोग्यता  
 होइ ॥ ७८ ॥


चित्रास्वात्योर्यदाजीवस्तदाचित्रपयोधराः ॥  
 विचित्राणि भवंत्येव सस्यानि च क्वचित्कचित् ७९  
 विशाखामैत्रयोर्जीवेधान्यं वर्षा च मध्यमम् ॥  
 ज्येष्ठामूलेमासयुग्मं वृष्टिर्मासद्वयेन च ॥ ८० ॥  
 पूर्वापाढोत्तरापाढे स्थितो यदि बृहस्पतिः ॥  
 तदारोग्यं सुभिक्षं च सुवृष्टिश्च प्रजायते ॥ ८१ ॥  
 अनावृष्टिश्च दुर्भिक्षं रेवत्यां संस्थिते गुरौ ॥  
 धनिष्ठायां च शुक्रेऽपि पीडा भवति हस्तिनाम् ॥ ८२ ॥  
 इति श्रीकाशीनाथभट्टाचार्यकृतौ शीघ्रबोध-  
 संग्रहे तृतीयं प्रकरणं समाप्तम् ॥ ३ ॥



टी०—चित्रा तथा स्वातीका गुरु हो तौ विचित्र वर्षा कहां २ विचित्र पृथ्वी फूलै फलै और धान्य कचित् होइ ॥ ७९ ॥ विशाखा और अनुराधाको गुरु हो तौ वर्षा और अन्न मध्यम रहै. ज्येष्ठा और मूलक गुरुमें दो माससे वर्षा होइ ॥ ८० ॥ पूर्वाषाढा तथा उत्तराषाढाके गुरुमें प्रजा आरोग्य रहै वर्षा अच्छा होइ और सुभिक्ष हो रहै ॥ ८१ ॥ जो रेवतीको गुरु हो तौ वर्षा न गिरै तथा अन्न मंहभे होय, धनिष्ठाके शुक्र हो तौ हाथी को पीढा होइ ॥ ८२ ॥ इति नक्षत्रे गुरुविचारः ॥ इति श्रीकाशीनाथभट्टाचार्यविरचितं सतिलकवार्तिकलोकौपकारकं तृतीयं प्रकरणं समाप्तम् ॥ ३ ॥



# अथ चतुर्थप्रकरणप्रारंभः ।



## अथ होडाचक्रम् ।

अत्र नक्षत्रोंका विचार कहते हैं एक नक्षत्रके चार चरण होते हैं, जिस चरणमें जन्म हो जाय उस चरणके अक्षरको आदि देके बालक बन्याको नाम राखिये; सो कहैहै.

चू, चे, चो, ला, अश्विनी १. ली, लू, ले, लो, भरणी २.  
आ, ई. ऊ, ए, कृत्तिका ३ ओ, वा, वी, वू, रोहिणी ४.  
वे, वो, का, की, मृग ५ कू, घ, ङ, छ, आर्द्रा. ६. के,  
को, हा, ही, पुनर्वसु ७. हू, हे, हो, डा, पुष्य ८. डी, इ,  
डे, डो, आश्लेषा ९. मा, मी, मू, मे, मघा १०. मो, टा, टी,  
हू, पूर्वा ११. दे, टो, पा, पी, उत्तरा १२. पू, प, ण, ठ,  
हस्त १३. पे, पो, रा, री, चित्रा १४ रू, रे, रो, ता, स्वाती  
१५. ती, तु, ते, तो, विशाखा १६. ना, नी, नू, ने,  
अनुराधा १७. नो, या, यी, यू, ज्येष्ठा १८. ये, यो, भा,  
भी, मूल १९. भू, घा, फ, ङा, पूर्वाषाढा २० मे, मो, जा,

जी, उत्तराषाढा २१. जू, जे जी, खा, अभिजित् २२. खी,  
खू, खे, खो, श्रवण २३. गा, गी, गू, गे, धनिष्ठा २४ गो,  
सा, सी, सू, शततारका २५. से, सो, दा, दी, पूर्वाभाद्र-  
पदा २६. डू, थ, झ, ञ, उत्तराभाद्रपदा २७. दे, दो, चा,  
ची, रेवती २८. इति होढाचक्रम् ॥

### अथ लघ्वंकराशयः ।

आला मेष. १, उवा वृषभ. २, काच्छा मिथुन. ३, डाहा  
कर्क. ४, माठा सिं० ५, पाठा क० ६, राता तू० ७, नोया  
वृ० ८ भाधा धन. ९, खागा मकर. १०, गोसा कुंभ ११,  
दाचा मीन, १२ ॥ इति लघुराशयः ॥

तनुर्धनंसहजसुहृत्पुत्रशत्रुकलत्रकाः ॥

मरणंधर्मकर्मायव्ययोढादशराशयः ॥ १ ॥

### द्वादशभावानां कौटुकम्

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
तनु	धन	सहज	सुहृ.	पुत्र	श	कलत्र	मृत्यु	धर्म	कर्म	भाय	व्यय

अथ सपादनक्षत्रद्वयतोरशिक्रमः ।

सप्तविंशतिभानांचनवाभिर्नवभिः पदैः ॥

अश्विनीप्रमुखानांचमेपाद्याराशयःस्मृताः ॥ २ ॥

टीका—अश्विनी, भरणी, कृत्तिकायाः पादं मेघः १. कृत्तिकायास्त्रयः पादाः, रोहिणी, मृगशिरोर्द्ध द्वयमः २. मृगशिरोर्द्ध, आर्द्रा, पुनर्वसुपादत्रयं मिथुनः ३. पुनर्वसोः पादमेकं, पुष्य, आश्लेषानं कर्कः ४. मघा, पूर्वा, उत्तराफाल्गुनीपादमेकं सिंहः ५. उत्तराफाल्गुनीत्रयः पादाः दम्न, चित्रार्द्र, कन्या ६. चित्रार्ध, स्वाती, विशाखापादत्रयं तुला ७. विशाखापादमेकं, अनुराधा ज्येष्ठानं वृश्चिकः ८. मूल, पूर्वापादा, उत्तरापादापादमेकं धनुः ९. उत्तरापादात्रयः पादाः, अभिजिच्छरणं, धनिष्ठार्ध मकरः १०. धनिष्ठार्ध, शताभिषा, पूर्वाभाद्रपदात्रयं कृमः ११. पूर्वाभाद्रपदापादमेकं, उत्तराभाद्रपदा, रेवत्यनं मीनः १२ ॥ २ ॥ इति सपादनक्षत्रराशिक्रमः ॥

तृतीयेदशमेपंचनवपंचमयोर्दश ॥

दशपंचाष्टमेतुर्यंमसमेविंशतिस्तथा ॥ ३ ॥

विश्वास्तुग्रहदृष्टीनामेषुस्थानेषु उच्यते ॥

पंचविंशोपकंप्रोक्तंपादमेकंक्रमोच्यते ॥

आयव्ययघनेषुलमेखेटो न दृश्यते ॥ ४ ॥

टीका—अब ग्रहोंकी दृष्टि कहते हैं. पांच विश्वे दृष्टिको १ चरण कहिये. ऐसेही २० विश्वलों चरण जानिये. आय कहे ११ व्यय १२ घन २ लग्न १ षष्ठ ६ इन स्थानमें कोई ग्रहकी दृष्टि नहीं होती है ॥ ३ ॥ ४ ॥

सृतीयेदशमेमंदोनवमेपंचमे गुरुः ॥

विंशतेवीक्ष्यतेविश्वाश्चतुर्थेचाष्टमेकुजः ॥ ५ ॥

रविवारेणसंयुक्तायदास्यान्मघज्येष्ठयोः ॥

अमावास्यातदापृथ्वीरुंडमुंडाचजायते ॥ ६ ॥

अयनात्त्रिगुणा मासा एकपंचशतायुताः ॥

दलिताघटिकाज्ञेयाःपल्लवैगुण्यवासराः ॥ ७ ॥

एकपक्षे यदायांति तिथयश्च त्रयोदश ॥

त्रयस्तत्रक्षयंयांतिवाजिनोमनुजागजाः ॥ ८ ॥

टीका—तीसरे ३ दश १० में शनि. नव ९ में पांच ५ में गुरु और चौथे ४ आठ ८ में मंगल. या प्रकार तीनों ग्रह वीसों विश्वा संपूर्णदृष्टि जहां पर तहां ते देखते हैं इति ग्रहाणां विशोपका दृष्टिः ॥ ५ ॥ माघ और ज्येष्ठकी अमावास्याको जो रविवार परै तौ रंड मुंड पृथ्वीमें परै ॥ ६ ॥ मकरको अयन लगै उस दिनसे वर्तमानदिनतक जो मास पूरा बीता हो सो तिगुना करै तामें ५१ जोरिके आधे करै जो बाकी रहै सो घड़ी जानिये. और महीनोंसे अधिक जो दिन बढै सो तिगुने करै. जो अंक हो उतने पल उनघड़ीनमें जोरिके तेहि दिनको दिनप्रमाण. शुद्ध, याप्रकार जानिये, और कर्केकी अयनके दिनसे गिनके याप्रकार गणितसे रात्रिप्रमाण जानिये; परंतु उत्तरायणके सूर्य विषे दिन बढता है तहां दिन प्रमाण और दक्षिणायनमें रात्रि बढती है तहां रात्रिप्रमाण बनाइये ॥ ७ ॥ जो एक पक्षमें तेरह तिथि होइ तौ मनुष्योंका नाश करै और घोडेका नाश करै और हाथिनका क्षय होइ. यह त्रयोदश दिनका पक्ष तीनों योनिको निषिद्ध है ॥ ८ ॥

सूर्ययुक्ताच्चनक्षत्राद्दिनभंचत्रयंत्रयम् ॥  
 आदित्यश्चबुधःशुक्रःशनिश्चंद्रःकुजस्तथा ॥ ९ ॥  
 जीवो-राहुश्चकेतुश्चहोमेक्रूरा न शोभनाः ॥  
 आदित्येतुभवेच्छौको बुधेसंपत्तिरुत्तमा ॥ १० ॥  
 शुक्रेचैवधनप्राप्तिःशनौपीडाचजायते ॥  
 चंद्रेभवतिलाभश्चभौमेचबंधुबंधनम् ॥ ११ ॥  
 गुरौपरमकल्याणंराहौहानिश्चसर्वदा ॥  
 केतौचप्राणसंदेहोवह्निचक्रमुदाहृतम् ॥ १२ ॥  
 सैकातिथिर्वारयुताकृतासाशेषे गुणेभ्रे भुवि-  
 वह्निवासः ॥ सौख्यायहोमेगण्डियुग्मशेषे-  
 प्राणार्थनागौ दिवि भूतलेच ॥ १३ ॥

टीका—जिस नक्षत्रका सूर्य हो वहासे तानि तीनि  
 नक्षत्र सूर्यादि ग्रहोंको वाटि दीजै, सूर्य, बुध, शुक्र,  
 शनि, चंद्र, मंगल, गुरु, राहु, केतु. इस क्रमसे दिनके  
 नक्षत्रको विचारिये जो क्रूरके भागमें परे तौ शापद

है. बुध उत्तम संपत्ति, शुक धर्मपद, शनि पीडा, चंद्र लाभ, भौम बंधन करे, गुरु परम कल्याण; राहु सदा हानि और केतुके भागमें प्राणसंदेह इस प्रकार बन्धिचक्र जानिये ॥९-१२॥ अब होम कर्ममें अग्निचक्र कहते हैं तिथिवार जोरिसे एक और मिळाय चारनका भाग दीजै. तीन शून्य होई तौ अग्नि पृथ्वीमें जानिये, सुखपद है; और एक बचे तौ स्वर्गमें जानिये अर्धनाश करे. २ बचे तौ पातालमें जानिये, प्राणनाश करे ॥ १३ ॥ इत्यग्निचक्रम् ॥

## अथ संवत्सरनामानि ।

प्रभवोविभवः शुक्रः प्रमोदोऽथ प्रजापतिः ॥  
 अंगिराःश्रीमुखोभावोयुवाधातातथेश्वरः ॥ १४ ॥  
 बहुधान्यःप्रमाथीचविक्रमोवृषभस्तथा ॥  
 चित्रभानुःसुभानुश्चतारणःपार्थिवोव्ययः ॥ १५ ॥  
 ब्रह्मविंशतिरित्येकासृष्टिरत्रप्रजायते ॥  
 सर्वजित्सर्वधारीचविरोधीविकृतिस्तथा ॥ १६ ॥



खरोनंदननामाचविजयश्चजयोऽपरः ॥  
 मन्मथोदुर्मुखश्चैवहेमलंविविलंबकौ ॥ १७ ॥  
 विकारीशार्वरीचाथप्लवंगःशुभकृत्तथा ॥  
 शोभनश्चतथाक्रोधीविश्वावसुस्तथापरः ॥ १८ ॥  
 पराभवाख्योह्यपरोविष्णोरित्येकविंशतिः ॥  
 प्लवंगःकीलकःसौम्यस्तथासाधारणोपरः ॥ १९ ॥  
 विरोधकृत्समाख्यातःपरिधावीप्रमाददः ॥  
 आनंदोराक्षसश्चाथेनलश्चपिंगलस्तथा ॥ २० ॥  
 कालःसिद्धार्थिरौद्रौचदुर्मतिर्दुदुभिस्तथा ॥  
 अपरोरुधिरोद्गारीरक्ताक्षीक्रोधनस्तथा ॥ २१ ॥  
 क्षयकृत्परतश्चान्योरुद्रस्यापितुविंशतिः ॥  
 वत्सराःषष्टिराख्यातातामतुल्यफलप्रदाः ॥ २२ ॥

टीका—प्रभव १ विभव २ शुक ३ प्रमोद ४ प्रजा-  
 पति ५ अंगिरा ६ श्रीमुख ७ भाव ८ युवा ९ धाता  
 १० ईश्वर ११ बहुधान्य १२ प्रमापी १३ विक्रम १४

वृष १५ चित्रमानु १६ सुमानु १७ तारण १८ पार्थिव  
 १९ और व्यय २० इति ब्रह्मविंशतिः ॥ सर्वजित् १ स-  
 र्वधारी २ विरोधी ३ विकृति ४ खर ५ नंदन ६ विजय  
 ७ जय ८ मन्मथ ९ दुर्मुख १० हेमलंबी ११ विलंबी  
 १२ विकारी १३ शर्वरी १४ पुव १५ शुभकृत् १६  
 शोभन १७ क्रोधी १८ विश्वावसु १९ और पराभव २०  
 इति विष्णुविंशतिः ॥ श्रुंग १ कीलक २ सौम्य ३ साधा-  
 रण ४ विरोधकृत् ५ परिधावी ६ प्रमाथी ७ आनंद ८  
 रासस ९ नल १० पिंगल ११ काल १२ सिद्धार्थ १३  
 रौद्र १४ दुर्मति १५ दुंदुभी १६ रुधिराद्वारी १७ रक्ताक्षी  
 १८ क्रोधन १९ और शय २० इति रुद्रविंशतिः ॥ ये  
 ६० संवत्सरे जैसे नाम वैसाही उनका फल है ॥ १४ ॥  
 १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥  
 इति पष्टिसंवत्सरनामानि ॥

मेपवृश्चिकयोर्भौमः शुक्रो वृषतुलाधिपः ॥

बुधः कन्यामिथुनयोः पतिः कर्कस्य चंद्रमाः ॥ २३ ॥

स्वामीज्योमीनघनुपोः शनिर्मकरकुंभयोः ॥

सिंहस्याधिपतिः सूर्यः कथितोगणकोत्तमः ॥ २४ ॥

कन्याराहुगृहंप्रोक्तंकेतोश्चमिथुनंस्मृतं ॥  
 कार्तिकाद्विगुणामासागताभिस्तिथिभिर्युताः २५  
 सप्तविंशतिभिर्न्यूनादिनतारैकसंयुताः ॥  
 राहोर्नीचं धनुश्चैवकेतोस्तस्माच्च सप्तमम् ॥ २६ ॥

टीका—मेष, वृश्चिकके स्वागी मंगल. वृष, तुलाके शुक्र. कन्या,  
 मिथुनके बुध. कर्कके चंद्रमा. मीन, धनके गुरु. मकर, कुंभके  
 शनि. सिंहके सूर्य. जानिये और कन्याके पति राहु और  
 मिथुनके केतु ये राशीश हैं ॥ कार्तिकसे गतमास दूने करके  
 गततिथि जोरि २७ को भाग दीजै. शेष वचै सो नक्षत्र  
 जानिये सो अश्विनीसे जानिये धनुके राहु नीच, तिससे  
 सातवें केतु नीचके जानिये ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥

वारेरूपंतिथौरुद्राघट्यांपंचदशैवच ॥  
 एकत्रिंशत्पलेदद्यात्सूर्यसंक्रमणंभवेत् ॥ २७ ॥  
 सार्धाष्टमासेपूर्वस्मिन्नुदितःपश्यतेभृगुः ॥  
 सार्धमासद्वयंसूर्येमंडलंचततोभवेत् ॥ २८ ॥

उदितःपश्चिमेभागेनवमासंचवीक्ष्यते ॥

दशाहंसूर्यमध्येतुततश्चास्तमितोभवेत् ॥ २९ ॥

एकग्रामेपुरेवापिदुर्भिक्षंराजविग्रहः ॥

तीर्थयात्राविवाहेचशुक्रदोषोनविद्यते ॥ ३० ॥

दशार्द्राद्याः स्त्रियस्ताराविशाखाद्यानपुंसकाः ॥

तिस्रस्तिस्रश्चमूलाद्याःपुरुषाश्चतुर्दश ॥ ३१ ॥

स्त्रीपुंसयोर्महावृष्टिःस्त्रीनपुंसकयोःकचित् ॥

स्त्रीस्त्रियोःशीतलच्छायायोगःपुरुषयोर्नच ॥३२॥

टीका—अथ संक्रातिक्रिया—प्रथम वर्षेकी संक्रांति के चारमें एक जोरिये, तिथिनमें ११ जोरिये, वरिनमें १५ जोरिये और पलमें ११ जोरिये. याभाति जो संक्रांति बनावनी होय तहांकी संक्रांतिमें जोरिक्त भाग दीजै तौ शुद्ध संक्रांति बन जाई. सार्धेति साढेआठमास शुक्र पूर्वमें उदय रहे अरु अट्ठाई मास सूर्यगंडलमें रहे उपरांत ९ मास पश्चिममें उदय हेते हैं फिर दश दिन सूर्यगंडलमें, फिर पूर्वमें उदय होइ एक ग्राम बसे. शुक्र दोष न गनिये. दुर्भिक्ष

राजविग्रह परै. विवाह तीर्थयात्रामें दक्षिण सन्मुख शुक्रदोष  
 न गनिये, इति शुक्रदोषनिर्णयः ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥  
 ॥ ३० ॥ आर्द्रादि १० नक्षत्र स्त्री हैं, विशाखादि ३ नपुंसक  
 हैं. मूलादि १४ पुरुषसंज्ञक हैं स्त्री पुरुष नक्षत्रमें सूर्य आवै  
 तो महावृष्टि होइ. स्त्रीनपुंसकमें थोरो वर्षे स्त्रीस्त्रीमें मेघछाया  
 रहे, पुरुषपुरुषमें न वर्षे ॥ ३१ ॥ ३२ ॥

उदयास्तंगतःशुक्रोबुधश्चावृष्टिकारकः ॥  
 जलराशिस्थितेचंद्रेपक्षांतेसंक्रमेतथा ॥ ३३ ॥  
 बुधःशुक्रसमीपस्थःकरोत्येकार्णवांमहीम् ॥  
 तयोरंतर्गतोभानुःसमुद्रमपिशोषयेत् ॥ ३४ ॥  
 चलत्यंगारकेवृष्टिस्रिधावृष्टिःशनैश्चरे ॥  
 वारिपूर्णमर्हांकृत्वापश्चात्संचरते गुरुः ॥ ३५ ॥  
 भानोरग्रेमहीपुत्रोजलशोषः प्रजायते ॥  
 भानोःपश्चान्द्वरासृनुर्वृष्टिर्भवति भूयसी ॥ ३६ ॥

टीका—शुक्रबुधके उदय अस्तमें वर्षा हो और जल

राशी चंद्रमामें पक्षके अंत संक्रांति परे तो वर्षा होई  
 ॥ ३३ ॥ जो बुधशुक्र समीप हों तो पृथ्वीभरमें जल  
 वर्षें और जो तिनके बीचमें सूर्य आ पड़े तो समुद्रके  
 जलकोभी शोष लेई ॥ ३४ ॥ मंगल चले तो मेघ वर्षें.  
 शनिके उदय अस्त तथा चलबेमें, जहां जहां वर्षें और  
 तिनके पीछे गुरु आवे तो पृथ्वीभरमें वर्षें ॥ ३५ ॥ सूर्य-  
 के आगे भौम होय तो जलशोष हो जो पाछे हो तो  
 अति वर्षा करे ॥ ३६ ॥ इति नक्षत्रग्रहवर्षा भेदाः ॥

ककेकुंभेचसिंहेचमकरेचदिवाकरः ॥

पूर्ववापश्चिमेवापिद्वारंकुर्याच्चवेश्मनः ॥ ३७ ॥

मेपेवृषेवृश्चिकेचतुलेचापियदारविः ॥

गृहेद्वारंतदाकुर्यादुत्तरंवापिदक्षिणम् ॥ ३८ ॥

धनुर्मिथुनकन्यासुमनिचयदिभानुमान् ॥

नकर्तव्यंतदागेहंकृतेदुःखमवाप्नुयात् ॥ ३९ ॥

-टीका—कन्या, कुंभ, सिंह, और मकरके सूर्यमें गृह-  
 वनावे तो घरका द्वार पूर्व पश्चिममें शुभ है ॥

३७ ॥ मेष, वृषभ, वृश्चिक और तुलाके सूर्यमें उत्तर-  
दक्षिणघरका द्वार शुभ है ॥ ३८ ॥ ध. मि. कन्धा और  
मीनके सूर्यमें गृह निर्माण करना अशुभ और दुःखप्रद  
है ॥ ३९ ॥ इति गृहद्वारमुहूर्तः ॥

यदैकमासेग्रहणंजायतेशशिसूर्ययोः ॥

शस्त्रकोपैःक्षयंयांतितदाभयपरस्परम् ॥ ४० ॥

ग्रस्तोदितौचग्रस्तास्तौधान्यभूपालनाशकौ ॥

सर्वग्रस्तौचंद्रसूर्यौदुर्भिक्षमरणप्रदौ ॥ ४१ ॥

टीका—जो एक मासमें चंद्र सूर्य दोनों ग्रहण परं तो  
राजनमें क्रोधसे युद्ध होइ ॥ ४० ॥ जो सूर्यचंद्रमा ग्रसित  
उदय हो तो अन्नको नाश करें. और जो ग्रसित अस्त हो  
तो राजाका नाश करें. सर्व ग्रस्त हों तो दुर्भिक्ष परं और  
मरण होइ ॥ ४१ ॥

उपरागोयदामेपेपीड्यंतेचसदाजनाः ॥

कांवेजाश्चकिराताश्चपांचालाश्चकलिंगकाः ४२

वृषेचग्रहणेपीडापशवःपथिकाजनाः ॥

महांतोमनुजाश्चैवतेपीड्यंतेचसर्वदा ॥ ४३ ॥

रविचंद्रमसौग्रस्तौमिथुनेचवरांगनाः ॥  
 पीडयंतेवाह्निकामत्स्यायमुनातटवासिनः ॥४४॥  
 कर्कटेग्रहणेपीडामल्लादीनांच जायते ॥  
 अंतरंसर्वराज्ञांचतदामत्स्यनिवासिनः ॥ ४५ ॥  
 सिंहेचग्रहणेपीडासर्वेषांवनवासिनाम् ॥  
 नृपाणांनृपतुल्यानांमनुजानांचजायते ॥ ४६ ॥  
 कन्यायांग्रहणेपीडात्रिपुराणांचशालिनाम् ॥  
 कवीनांलेखकानांचजायतेपीडनंतथा ॥ ४७ ॥  
 तुलायामुपरागेचपीडनंवक्रकाकयोः ॥  
 कांकणस्थाःपराश्चैवपीडयंतेसाधवश्चये ॥ ४८ ॥  
 वृश्चिकेग्रहणेपीडासर्पजातेश्चजायते ॥  
 औदुंबरस्यभद्रस्यचोलयोधेयकस्यच ॥ ४९ ॥  
 यदोपरागश्चापेचतदामत्स्याश्चवाजिनः ॥  
 विदेहमत्स्यपांचालाःपीडयंतेभिषकोविदो ॥५०॥



मकरेग्रहणेपीडानीचानांमंत्रवादिनाम् ॥

स्थावराणांजंगमानांवित्रकूटस्थसंक्षयः ॥ ५१ ॥

कुंभेचैवोपरागेचपश्चिमस्थैस्तथांबुधैः ॥

तस्करैरोगिणामृत्युः पीडयंतेबहुधा बुधाः ॥ ५२ ॥

मीनोपरागेपीडयंतेजलद्रव्याणिसागराः ॥

जलोपजीविनोलोकायेचतत्रप्रतिष्ठिताः ॥ ५३ ॥

टीका—जो मेषराशिपर ग्रहण परे तो कांबोज, किरात, पांचाल, व कर्लिंगदेशको पीडा करे ॥ ४१ ॥ जो वृषपर परे तो पशु, पथिक और बडे मनुष्यको पीडा करे ॥ ४३ ॥ जो मिथुनपर परे तो सुंदर श्रेष्ठ स्त्री, बाल्हीकदेश, मत्स्यादि जीवजंतु व मत्स्यदेशको वा यमुनातटवासिनको पीडा करे ॥ ४४ ॥ जो कर्कपर परे तो मल्लाट्टिकोंको, अंतर्वेदि, राजा व मत्स्यदेशको पीडा करे ॥ ४५ ॥ जो सिंह पर परे तो सर्वजनवासी, राजा और राजनके सब मनुष्योंको पीडा करे ॥ ४६ ॥ जो कन्या राशिपर ग्रहण परे तो त्रिपुंकर देशवासिनको पीडा करके धनका नाश करे कबि चतुरेनको

पीडा करै और लेखक चित्रकारनको पीडा करै ॥ ४७ ॥ जो तुला राशिपर परै तौ काक वकादिपक्षियोंको, कौकणस्थकाण्डोंको और साधुनको पीडा करै ॥ ४८ ॥ जो वृश्चिकपर परै तौ सर्पनके जातिनको, औडुंबरको, चोलदेशवासिनको पीडा करै- ॥ ४९ ॥ धनराशिको ग्रहण हो तौ मत्स्य, घोडा, तपस्वी, मल्ल, पांचालदेशवासी, मिथिलावासी, वैद्य और पंडितोंको पीडा होजाय ॥ ५० ॥ जो मकरराशिको ग्रहण हो तौ नीच मंत्रयादिनको पीडा करै और स्थावर जंगम पशु पीडा पावै. और चित्रकूटवासिनका क्षय हो ॥ ५१ ॥ कुंभ-पर परै तौ अर्बुददेश और पश्चिमपर्वतवासी पीडा पावै और चोर पीडित होजाय ॥ ५२ ॥ और मीन-पर परै तौ जलजंतु जलजीवी और जलद्रव्य नष्ट हो जावै ॥ ५३ ॥ इति ग्रहणफलम् ॥

ग्रहकृत्पांसुवृष्टिश्चनीहारश्चभयंकरः ॥

विद्युत्पातोऽग्निदाहोऽथ परिवेपश्चरोगकृत् ५४ ॥

दिग्दाहोऽग्निभयंकुर्यान्निर्घातोऽनृपभीतिदः ॥

झंझावायुश्चंडशब्दश्चौरभीतिप्रदायकौ ॥ ५५ ॥

ग्रहयुद्धे राजयुद्धं केतुदृष्टे तथैव च ॥

ग्रहणांते महावृष्टिः सर्वदोषविनाशिनी ॥ ५६ ॥

टीका—अथ दैव्यापत्ती कहते हैं. जो विना पौन आकाशसे भयंकर धूलि वर्षे. मनुष्य न सूझे, विनामेघ त्रिजुरी चमकै, अग्निदाह और सूर्यके मंडल पर तौ रोग होवे. जो सूर्यास्त भये पीछे फेर दिशनमें अग्नि लगीसी वा पीतरग आकाश दीखै तौ अग्निभय होवे सूखे मेघ मर्जे तो राजाओंको भय. अति वेगसे मचंड शब्द वायु चलै तौ चोरभय होइ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ग्रहनको युद्ध होइ वा केतु उदय होइ तो राजाओंमें युद्ध हो और ग्रहण लगे. पीछे बहुत जल वर्षे तौ सर्व दोष मिटे ॥ ५६ ॥ इति देवोत्पातफलम् ॥

अश्विन्यामुदितेकेतौहन्यात्सलंकपालकम् ॥

भरण्यांचकिरातेशंकृत्तिकायांकलिंगकम् ५७

रोहिण्यांशूरसेनेशंमृगेकाशीनराधिपम् ॥

आर्द्रायांजलजाधीशंभस्मकेशंपुनर्वसौ ॥ ५८ ॥

पुष्येचमगधाधीशंसार्पस्थःकाशिकाधिपम् ॥

मघायांविंगनाथंचपूर्वायांपांडुनायकं ॥ ५९ ॥

उज्जयिन्यानुपहंतिउत्तराफाल्गुनीगतः ॥  
 गंडकाधिपतिहस्तेचित्रायांकुरुभूभुजां ॥ ६० ॥  
 स्वात्यांकाश्मीरकांबोजभूपतीनांविनाशकः ॥  
 इक्ष्वाकु कुरुदेशानांविशाखायांविनाशकः ॥ ६१ ॥  
 मैत्रेयोग्रस्यनाथंचसार्वभौमंतथेंद्रकं ॥  
 आंध्रमद्रकनाथंचमूलस्थोहंतिनिश्चितम् ॥ ६२ ॥  
 पूर्वापाठेकाशिराजाउत्तरापाठकेतथा ॥  
 पौंड्रियशैववेदेहाः श्रवणे कैकयेश्वरः ॥ ६३ ॥  
 वसौपंचनदाधीशं वारुणेसिंहलेश्वरम् ॥  
 पूर्वाभाद्रपदेवंगैमिपेशंतथोत्तरे ॥ ६४ ॥  
 रेवत्यामुदितेकेतौकिराताधिपतेर्वधः ॥  
 धूम्राकारःसुपुच्छश्चकेतुर्विश्वस्यपीडकः ॥ ६५ ॥

टीका—जो अभिनीमें केतुका उदय हो तो लंका  
 देशके राजाको पीटा करे, भरणीमें हो तो किरातदे-  
 शके राजाको पीटा करे. कृत्तिमांमें हो तो कलिगदेशके

राजाको पीडा करै ॥ ५७ ॥ रोहिणीमें केतुका उदय हो  
 शूरसेनदेशके राजाको, मृगशिरमें काशिराजाको आर्द्रामें  
 यानी पद्मकदेशके राजाको, पुनर्वसुमें भस्मकदेशके राजा  
 पीडा करै ॥ ५८ ॥ पुष्यमें केतुका उदय हो तौ मगधदेशाधि-  
 पतिको, आश्लेषामें काशीपतिको, मघामें वंगदेशपतिको, पूर्वाफा-  
 ल्गुनीमें पांडुदेशपतिको पीडा करै ॥ ५९ ॥ उत्तराफाल्गुनीमें  
 उज्जैननृपतिको, हस्तमें ही तौ गंडकीनदीके राजाको पीडा  
 करै. चित्रामें कुरुक्षेत्रके राजाओंका हनन करै ॥ ६० ॥  
 स्वातीमें हो तौ काश्मीरके राजाको और काबोजदेशके  
 भूपतिको विनाश करै. विशाखामें हो तौ इक्ष्वाकुदेशके राजा-  
 को और कुरुदेशाधिपतिको विनाश करै ॥ ६१ ॥ जो  
 अनुराधामें हो तौ उग्रदेशके नाथको पीडा करै. ज्येष्ठामें हो  
 तौ सर्व पृथ्वीपति चक्रवर्तिनको पीडे. मूलमें हो तौ अंधकदेश  
 और मद्रकदेशके राजाको पीडा करै ॥ ६२ ॥ पूर्वाषाढामें  
 हो तौ काशीके राजाको पीडा करै. उत्तराषाढामें हो तौ पौड-  
 देश, शैव देश और मैथिल देशके राजाको पीडा करै  
 ॥ ६३ ॥ धनिष्ठामें हो तौ पंचनदीतटके राजाओंको पीडा  
 करै. शतभिषामें हो तौ सिंहलदेशके राजाको पीडा करै;  
 पूर्वाभाद्रपदामें हो तौ बंगालदेशके राजाको पीडा करै.

उत्तराभाद्रपदामें हो तौ नैमिषारण्यवासिनको पीडा करै  
 ॥ ६४ ॥ और जो रेवतीको केतु उदय करै तौ  
 किरातदेशके राजाको पीडा करै. जिस केतुका स्वरूप घूर्वाके  
 समान पुच्छसहित होता है, सो सर्वविश्वको पीडाप्रद होता है  
 ॥ ६५ ॥ इति केतुदयफलम् ॥

भानुभौभार्किवारेषुकार्तिकेंदुक्षयोभवेत् ॥

आयुष्मान्स्वातिसंयुक्तो नृपनाशःपशुक्षयः॥६६॥

धनुर्नक्रंचमेपाद्याश्चत्वारस्तुनिशाचराः ॥

तेविनामिथुनंपंचज्ञेयाः पृष्ठोदयावुधैः ॥ ६७ ॥

शीर्षोदयाश्चत्वारःसिंहाद्याः कुंभएवच ॥

दिवावलस्तुमीनस्तुवलीरात्रौतथा दिने ॥६८ ॥

टीका—जो कार्तिकके अमावस दिवाली, रवि, भौम,  
 शनिवारको परै और स्वाती नक्षत्र आयुष्मान् योग संयुक्त हो तौ  
 राजनको नाश करै. युद्धादिक अधिक हो और पशुनकी क्षय  
 होवे ॥ ६६ ॥ धनु, मकर, मेष, मृग, कर्क और मिथुन इनकी  
 निशाचर संज्ञा कहिये और मिथुन बिना इन पांचोंकी पृष्ठोदय

संज्ञा कहते हैं ॥ ६७ ॥ सिद्ध, कन्या, तुला, वृश्चिक और कुंभ  
राशिनकी शीर्षोदय संज्ञा कहिये. मीन लग्न दिवा बली  
और रात्रिविषेभी बलवान् है कि, जैसे दिन विषे ॥ ६८ ॥

तदृक्षं द्विगुणं कृत्वा रामैर्हीनं च कारयेत् ॥  
मुनिभिश्च हरेद्भागशेषांके लभते फलम् ॥ ६९ ॥  
चंद्रे देवे च दुर्भिक्षं सुभिश्च युग्मवाणयोः ॥  
रामेरसे च मध्यं च शून्ये शून्यं प्रकीर्तितम् ॥ ७० ॥  
अतिचारे गते सौम्यकूरे वक्रत्वमागते ॥  
हाहाभूतं जगत्सर्वं रुंडं मुंडं च जायते ॥ ७१ ॥

टीका—जिस लग्नमें जो नक्षत्र लगे उसको द्विगुण करिके  
और उसीमें तीन ३ घटाइ दीजै. सातको भाग दीजै जो शेष  
बचे सो फल जानिये ॥ ६९ ॥ जो १।४ बचे तो दुर्भिक्ष  
कहिये. २।५ बचे तो सुभिक्ष कहिये. ३।६ बचे तो भाव सम  
रहै. और शून्य होइ तो शून्य कहा है ॥ ७० ॥ जो सौम्यग्रह  
आतिचार और पापग्रह बनी हो तो जगत्में हाहाकार मचावै.  
युद्धसे रुंड मुंड गिरें ॥ ७१ ॥ इति वक्रातिचारफलम् ॥

मंत्रस्वीकरणंचैत्रेवहुदुःखफलप्रदम् ॥

वेशाखेरत्नलाभश्चज्येष्ठेचमरणं ध्रुवम् ॥ ७२ ॥

आपाढेवंधुनाशःस्वाच्छ्रावणेतुशुभावहम् ॥

प्रजाहानिर्भाद्रपदेसर्वत्रसुखमाश्विने ॥ ७३ ॥

टीका—अथ मंत्रदीक्षा लेनेको शुभाशुभ कहते हैं—  
जो चैत्रमासमें मंत्रदीक्षा लेवे तो बहुत दुःख पावे।  
वैशाख मासमें दीक्षा लेवे तो रत्नलाभ होवे। ज्येष्ठ-  
मासमें लेवे तो निश्चय मृत्यु होवे ॥ ७२ ॥ जो  
आषाढमासमें मंत्रदीक्षा लेवे तो भाईका नाश होवे,  
श्रावणमासमें मंत्रदीक्षा लेवे तो शुभ हो। भाद्रपदमा-  
समें मंत्रदीक्षा लेवे तो प्रजानाश और आश्विनमा-  
समें मंत्रदीक्षा लेवे तो सब सुख पावे ॥ ७३ ॥

कार्तिकेधनवृद्धिःस्यान्मार्गशीर्षेशुभप्रदम् ॥

पौषेतज्ज्ञानहानिःस्यान्माघेमेधाविवर्धनं ॥ ७४ ॥

फाल्गुनेसुखसौभाग्यंसर्वत्रपरिकीर्तितम् ॥

दीक्षाकर्मफलंमासेष्वित्येवंचशुभाशुभम् ॥ ७५ ॥

टीका—जो कार्तिकमासमें मंत्रदीक्षा लेवे तो  
धनकी वृद्धि हो। अगहन मासमें मंत्र सुने तो शुभ



कहिये. पौषमासमें मंत्र सुनै तौ ज्ञानहानि हो  
 माघमासमें मंत्र सुनै तौ ज्ञानकी वृद्धि हो जावे  
 ॥ ७४ ॥ जो फाल्गुनमासमें मंत्रदीक्षा छेवै तौ सुख  
 सौभाग्य और यशस्वी होव ॥ ७५ ॥ इति मंत्र  
 दीक्षानिर्णयः ॥

मासंशुक्रबुधादिश्रंद्रःपाददित्यानद्वयं ॥  
 भौमस्त्रिपक्षंजीवोदंसार्धवर्षद्वयंशनिः ॥  
 राहुः केतुःसदाभुंक्तेसार्धमेकंतु वत्सरं ॥ ७६ ॥  
 सूर्यक्षाद्रसपृष्ठभैःसुखयुतंवेदैःशिरोमृत्युदं  
 वाहौनागसुसौख्यभोगमतुलं गर्भेशरैर्नाशयेत् ॥  
 दोर्द्धौभुक्तिकरोकलत्रमरणमंध्योर्द्वयंचक्रमाचु-  
 छीचक्रविचारणं सुधिपणैः प्रोक्तंहिगर्गादिभिः  
 ॥ ७७ ॥ इति श्रीकाशीनाथभट्टाचार्यकृतौ  
 शीघ्रबोधसंग्रहे चतुर्थं प्रकरणं समाप्तम् ॥ ४ ॥

टीका—सूर्य, शुक्र, बुध, एक मासमें एकराशीपर  
 रहते हैं. चंद्रमा २। सवादो दिन रहता है. मंगल १॥

डेढमास रहता है बृहस्पति एक १ वर्षपर्यंत रहता है. शनि अठारह वर्षपर्यंत रहता है और राहु व केतु एक राशीमें डेढडेढ वर्ष रहते हैं ॥ ७६ ॥ इति ग्रहभोग्यमासनिर्णयः ॥ सूर्यनक्षत्रसे ६ नक्षत्र पृष्ठके श्रीप्रद हैं. माथेके ४ मृत्युप्रद हैं. बाहुके आठ ८ बहुत सुखप्रद हैं. गर्भके पाच ५ नाशप्रद हैं. भुजके २ भोगप्रद और चरणके २ नाशप्रद नक्षत्र हैं. ऐसा यह चुल्हीचक्रगर्गआदि सुज्ञ ऋषिलोगोंने कहा है ॥ ७७ ॥ इति श्रीकाशीनाथभट्टाचार्यकृतशीघ्रबोधसंग्रहस्य भाषा टीकाया चतुर्थ प्रकरणं समाप्तम् ॥ ४ ॥

इति शीघ्रबोध समाप्तः ॥

**पुस्तक मिलनेका ठिकाना-**

हरिप्रसाद भगारिथजका,  
पुस्तकालय कालकादेवीरोड,  
रामवाडी-मुंबई.



मुद्रक—चिन्तामण सराराम देवळे, मुंबई वेभव प्रेस, सार्हेट्स् थाक  
दुजिया गोगायटान् होम, सैन्ट्स् रोड, गिरगांव, मुंबई

प्रकाशक—श्री धनबल्लभ हरिप्रसादजी, प्राचीनपुस्तकालय,  
वाकवादेरी रोड, रामवाडी-मुंबई

